

ISSN 0019-5723



इंडियन लेबर जर्नल
INDIAN LABOUR JOURNAL
(मासिक प्रकाशन/MONTHLY PUBLICATION)

संस्करण/Volume 65

मार्च/March 2024

अंक/No.3



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
श्रम ब्यूरो/LABOUR BUREAU
चंडीगढ़/CHANDIGARH

EDITORIAL COMMITTEE

Chairman	Alok Chandra
Editor	Anil Kumar Sharma
Associate Editor	Virender Singh
Associate Editor	Vinod Kumar
Assistant Editor	Ranjeet Kumar

NOTE TO CONTRIBUTORS

Non-controversial articles on labour matters of topical interest (e.g. labour and wage policy; industrial relations; industrial management; trade union movement; labour welfare; workers' participation in management; employment/ unemployment; labour research of empirical value and general interest etc.) are accepted for publication in this Journal. The articles generally not exceeding ten thousand words may be sent in a C.D in Microsoft Word only with a print out in double space on one side foolscap paper, addressed to the Director General, Labour Bureau, 'Shram Bureau Bhawan', Block No.2, Institutional Area, Sector-38 West, Chandigarh-160036 along with a declaration by the author that the article has neither been published nor submitted for publication elsewhere. All references and footnotes, may be given only at the end of the articles.

Authors are solely responsible for the factual accuracy and the opinion expressed in their signed articles. The Labour Bureau, however, reserves the right to edit, amend and delete any portion of the article to make it more presentable and to reject any article, if not found suitable. The articles which are rejected will not be returned and no correspondence will be entertained on the articles which are rejected by the Editorial Committee.

A copy of the Journal, in which the article appears, is supplied to the author. An honorarium of up to Rs. 1,000 is also payable as per the rules for each article published.

**Our address: The Director General,
Labour Bureau
'Shram Bureau Bhawan', Block No.-2,
Institutional Area, Sector-38 West,
Chandigarh-160036**

Website: <http://labourbureau.gov.in>

संपादकीय समिति

अध्यक्ष आलोक चंद्रा
संपादक अनिल कुमार शर्मा

सह संपादक विरेन्द्र सिंह
सह संपादक विनोद कुमार

सहायक संपादक रणजीत कुमार

अंशदाताओं के लिए अनुदेश

सामयिक हित के श्रम मामलों पर गैर-विवादास्पद लेख (जैसे श्रम एवं मजदूरी नीति; औद्योगिक संबंध; औद्योगिक प्रबंधन; श्रमिक संघ आंदोलन; श्रम कल्याण; प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी; रोजगार/बेरोजगारी, अनुभवमूल्य तथा सामान्य हित के श्रमिक शोध आदि) जर्नल में प्रकाशन के लिए स्वीकार किए जाते हैं। लेख जो सामान्य तौर पर दस हजार शब्दों से ज्यादा के न हों को एक सी. डी. में केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रारूप में एक मुद्रित प्रति के साथ महानिदेशक श्रम ब्यूरो, 'श्रम ब्यूरो भवन', ब्लाक न.2, संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर-38 पश्चिम, चंडीगढ़-160036 के नाम, लेखक की इस घोषणा के साथ कि यह लेख न तो पहले प्रकाशित हुआ है और न ही प्रकाशन के लिए अन्यत्र प्रस्तुत किया गया है, भेजे जा सकते हैं। सभी संदर्भ तथा फुटनोट केवल लेख के अंत में दिए जा सकते हैं।

लेखक उनके हस्ताक्षरित लेखों में तथ्यात्मक सटीकता और व्यक्त की गई राय के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। श्रम ब्यूरो किसी भी लेख को उपयुक्त नहीं पाए जाने पर अस्वीकार करने तथा लेख को अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसके सम्पादन, संशोधन और किसी भी भाग को हटाने का अधिकार रखता है। अस्वीकृत किए गए लेखों को वापस नहीं किया जाएगा तथा संपादकीय समिति द्वारा अस्वीकृत किए गए लेखों पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

पत्रिका जिसमें लेख छपा है की एक प्रति लेखक को भेजी जाती है। प्रत्येक प्रकाशित लेख के लिए नियमानुसार 1000/- रुपये तक का मानदेय भी दिया जाता है।

हमारा पता: महानिदेशक
श्रम ब्यूरो,
'श्रम ब्यूरो भवन', ब्लाक न.-2,
संस्थागत क्षेत्र, सेक्टर-38 पश्चिम,
चंडीगढ़-160036

वैबसाइट: <http://labourbureau.gov.in>

इंडियन लेबर जर्नल
INDIAN LABOUR JOURNAL

श्रम ब्यूरो चंडीगढ़
द्वारा मासिक प्रकाशित
Published Monthly by
LABOUR BUREAU CHANDIGARH

(प्रथम प्रकाशन जुलाई, 1943 में इंडियन लेबर गज़ट के रूप में)
(First Published in July, 1943 as Indian Labour Gazette)

संस्करण/Vol. 65	मार्च/March 2024	अंक/No. 3
विषय सूची / CONTENTS		पृष्ठ / Page
श्रमिक गतिविधियां / LABOUR ACTIVITIES		
Labour Situation		197
Industrial Disputes		201
संक्षेप में समाचार / NEWS IN BRIEF		
(अ) (a) भारतीय श्रम / INDIAN LABOUR		
EPFO extends five months time for Employers to upload wage details etc. regarding Pension on Higher Wages		203
Non-compete clause for IT freshers in India unenforceable: Experts		203
15.92 lakh new workers enrolled under ESI Scheme in the month of November, 2023		204
EPFO adds 13.95 lakh net members during November 2023		204
India's employable youth up from 33.9% in 2014 to 51.3% in 2024: DEA		204
Provide paid maternity leave to registered road construction workers: Govt to employers in advisory		205
Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers		206
Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers		206
(ब) (b) विदेशी श्रम / FOREIGN LABOUR		
US jobs numbers to show healthy hiring, easing pay growth		207
US economy adds 216,000 jobs, wages rise		207
Global unemployment to increase in 2024, warns ILO report		208
Empowering primary care: WHO trains health workers to provide quality emergency services		209
श्रम निर्णय / LABOUR DECISION		
Termination of probationer on ground of mis-conduct without holding any enquiry is bad in law		210

श्रम साहित्य / LABOUR LITERATURE

Working Papers/Articles/News items on Labour-related issues Published in Periodicals/Journals/Newspapers 211

सांख्यिकी / STATISTICS

Section A- Monthly Statistics 215

Section B- Serial Statistics 251

प्रकाशन / PUBLICATIONS

Latest publications of the Labour Bureau 285

जर्नल से किया गया कोई भी पुनरुत्पादन उपयुक्त रूप से अभिस्वीकृत होना चाहिए

ANY REPRODUCTION FROM THIS JOURNAL SHOULD BE SUITABLY ACKNOWLEDGED

इंडियन लेबर जर्नल की सदस्यता एवं वितरण से संबंधित शिकायतें, यदि कोई हो तो, केवल निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिएं

प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली 110054

Subscription and complaints, if any, regarding the distribution of the Indian Labour Journal should be sent only to

THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, CIVIL LINES, DELHI 110054

इंडियन लेबर जर्नल के लिए पूर्व देय सदस्यता दरें
Pre-payable subscription rates for the Indian Labour Journal

सदस्यता की वार्षिक दर / Annual Rate of Subscription: Rs.2280.00

बिक्री प्रति कॉपी / Sale per copy: Rs.190.00

श्रमिक गतिविधियां / LABOUR ACTIVITIES

श्रम स्थिति / LABOUR SITUATION

देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 (अंतिम) महीनों के लिए ब्यूरो में 31 जनवरी, 2024 तक प्राप्त बंदीओं, छंटनीओं और कामबंदी से संबंधित सूचना निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत की गई है -

Information relating to Closures, Retrenchments and Lay-offs in respect of various States/Union Territories in the country from January, 2023 to December, 2023 (Provisional) received in the Bureau up to 31st January, 2024 is presented in the following Tables:-

तालिका /Table-I

जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान राज्य-वार स्थायी बंदीओं और प्रभावित श्रमिकों (अंतिम)
State-wise Number of Permanent Closures and Workers Affected during
January, 2023 to December, 2023 (P)

राज्य/संघ शासित प्रदेश States/Union Territories	इकाइयों की संख्या / No. of Units	प्रभावित श्रमिकों की संख्या / No. of Workers Affected
1. गुजरात/ Gujarat	3 (-)	12 (-)
2. पुडुचेरी / Puducherry	20 (-)	256 (-)
योग/Total: राज्य क्षेत्र State Sphere	23	268
केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere	(-)	(-)
कुल योग Grand Total	23	268

तालिका /Table-II

जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान उद्योग-वार स्थायी बंदीओं तथा प्रभावित श्रमिकों की संख्या (अंतिम)
Industry-wise Number of Permanent Closures and Workers Affected during
January, 2023 to December, 2023 (P)

खंड एनआईसी Section NIC-2008	विवरण/Description	इकाइयों की संख्या / No. of Units	प्रभावित श्रमिकों की संख्या / No. of Workers Affected
C	विनिर्माण/Manufacturing	20 (-)	256 (-)
S	सदस्यता संगठन की गतिविधियाँ /Activities of membership Organisation	3 (-)	12 (-)
योग/Total : राज्य क्षेत्र State Sphere		23	268
केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere		(-)	(-)
कुल योग Grand Total		23	268

तालिका / Table-III

जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान राज्य-वार छंटनीओं और प्रभावित श्रमिकों (अनंतिम)
State-wise Number of Retrenchments and Workers Affected from
January to December, 2023 (P)

राज्य/संघ शासित प्रदेश States/Union Territories	इकाइयों की संख्या / No. of Units	प्रभावित श्रमिकों की संख्या / No. of Workers Affected
1. असम / Assam	- (2)	- (12)
योग/Total : राज्य क्षेत्र State Sphere	-	-
केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere	(2)	(12)
कुल योग Grand Total	2	12

तालिका / Table-IV

जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान उद्योग-वार छंटनीओं तथा प्रभावित श्रमिकों की संख्या (अनंतिम)
Industry-wise Number of Retrenchments and Workers Affected from
January to December, 2023 (P)

खंड एनआईसी Section NIC-2008	विवरण/Description	इकाइयों की संख्या / No. of Units	प्रभावित श्रमिकों की संख्या / No. of Workers Affected
D	बिजली, गैस, भाप और वातानुकूलन आपूर्ति/Electricity, gas, steam and air conditioning supply	- (1)	- (1)
M	व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियां/Professional, Scientific and Technical Activities	- (1)	- (11)
योग/Total : राज्य क्षेत्र State Sphere		-	-
केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere		(2)	(12)
कुल योग Grand Total		2	12

तालिका / Table-V

जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान राज्य-वार कामबंदी करने वाली इकाइयों, उनसे प्रभावित कर्मकारों तथा कार्यदिवस हानि की संख्या(अनंतिम)
State-wise Number of Units Affecting Lay-offs, Workers Laid-off and Mandays Lost from January to December, 2023 (P)

राज्य/संघशासित प्रदेश State/Union Territory	इकाइयों की संख्या / No. of Units	प्रभावित श्रमिकों की संख्या/No. of Workers Affected	कार्यदिवस की हानि / Mandays Lost
1. राजस्थान/Rajasthan	1 (-)	513 (-)	134919 (-)
2. हिमाचल प्रदेश/Himachal Pradesh	3 (-)	163 (-)	9592 (-)
3. तेलंगाना/Telangana	1 (-)	31 (-)	5301 (-)
योग/Total : राज्य क्षेत्र State Sphere	5	707	149812
केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere	(-)	(-)	(-)
कुल योग Grand Total	5	707	149812

तालिका / Table- VI

जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान उद्योग-वार कामबंदी करने वाली इकाइयों, उनसे प्रभावित कर्मकारों तथा कार्यदिवस हानि की संख्या (अनंतिम)
Industry-wise Number of Units Affecting Lay-offs, Workers Laid-off and Mandays Lost from January to December, 2023 (P)

खंड एनआईसीSection NIC-2008	विवरण/Description	इकाइयों की संख्या/ No. of Units	प्रभावित श्रमिकों की संख्या/No. of Workers Affected	कार्यदिवस की हानि/Mandays Lost
C	विनिर्माण/Manufacturing	3 (-)	622 (-)	141312 (-)
D	बिजली, गैस, भाप और एयर कंडीशनिंग आपूर्ति / Electricity, gas, steam and air conditioning supply	2 (-)	85 (-)	8500 (-)
योग/Total : राज्य क्षेत्र State Sphere		5	707	137500
केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere		(-)	(-)	(-)
कुल योग Grand Total		5	707	137500

तालिका/Table-VII

जनवरी से दिसंबर, 2023 के दौरान माह-वार कामबंदी के कारण कार्यदिवस की हानि का विवरण (अनंतिम)
Month-wise break-up of Mandays Lost due to Lay-offs from January to December, 2023 (P)

महीना/Month	कार्यदिवस की हानि / Mandays Lost
जनवरी/January	15181 (-)
फरवरी/February	14637 (-)
मार्च/March	15181 (-)
अप्रैल/April	15181 (-)
मई/May	13149 (-)
जून/June	13087 (-)
जुलाई/July	14148 (-)
अगस्त/August	12312 (-)
सितम्बर/September	12312 (-)
अक्टूबर/October	12312 (-)
नवंबर/November	12312 (-)
दिसंबर/December	- (-)
योग/Total : राज्य क्षेत्र State Sphere	149812
केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere	(-)
कुल योग Grand Total	149812

(P)= अनंतिम/Provisional.

-= शून्य/Nil.

Note: (i) कोष्ठकों में दी गई जानकारी केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित है/Information within brackets related to Central Sphere.

(ii) शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी को 'शून्य' या 'रिपोर्ट नहीं किया गया' माना जाए/ Information about remaining States/Union Territories may be treated as either 'NIL' or 'Not reported'.

जनवरी से दिसम्बर, 2023 के दौरान औद्योगिक विवाद (अनंतिम)
Industrial Disputes from January to December, 2023 (Provisional)

विभिन्न राज्य के श्रम विभागों / क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) से प्राप्त विवरणी के आधार पर जनवरी से दिसम्बर, 2023 के दौरान औद्योगिक विवादों के कारण हुए कार्य-स्थगन के आंकड़े निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं:

The statistics of work-stoppages due to Industrial Disputes from January to December, 2023 based on the returns received from different State Labour Departments / Regional Labour Commissioners (Central) are presented in the following tables:

उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से दिसम्बर, 2023 के दौरान औद्योगिक विवादों के फलस्वरूप हुए कार्य-स्थगन के 44 मामले रिपोर्ट किए गए जिसमें 35162 श्रमिक शामिल थे तथा 533450 कार्य दिवसों की हानि हुई।

As per available information, 44 Industrial Disputes resulting in work-stoppages were reported during January to December, 2023 in which 35162 workers were involved and 533450 mandays lost were reported.

तालिका/Table-VIII

जनवरी से दिसम्बर, 2022 तथा 2023 के दौरान कार्य-स्थगन के कारण कार्यदिवस की हानि / Number of Mandays Lost on Account of Work-stoppages from January to December, 2022 and 2023

महीना/Month	कार्यदिवस की हानि /Number of Mandays Lost on Account of			
	औद्योगिक विवाद / Industrial Disputes		औद्योगिक विवादों के अलावा अन्य कारण / Reasons Other Than Industrial Disputes	
	2022 (P)	2023 (P)	2022 (P)	2023 (P)
1	2	3	4	5
जनवरी / January	50606	67778	66356	42900
फरवरी / February	63480	169960	66446	41016
मार्च / March	448843	22250	75082	45552
अप्रैल / April	53772	18044	72064	41860
मई / May	47665	51724	73336	44356
जून/June	42636	54217	76220	44356
जुलाई/July	46191	42947	70656	44356
अगस्त/August	53780	25473	64684	37856
सितम्बर/September	97736	31980	75168	37856
अक्टूबर/October	30116	25286	65928	36400
नवम्बर/ November	47190	12104	69604	37856
दिसम्बर/ December	36304	11687	72632	..
योग / Total	1018319	533450	848176	454364

(P)= अनंतिम एवं 31 जनवरी 2024 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणी/स्पष्टीकरण के आधार पर/Provisional and based on the returns /clarifications received in the Bureau till 31st January 2024.

..= उपलब्ध नहीं है/Not available.

N.B:- विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण 2023 के लिए आंकड़े 2022 से तुलनीय नहीं हैं /

Figures for 2023 are not comparable with those for 2022 due to non-receipt of data from various States / Union Territories.

तालिका/Table-IX

जनवरी से दिसम्बर 2023 में औद्योगिक विवादों के अलावा अन्य कारणों से हुए विवादों सहित भारत में राज्य-वार प्रमुख* औद्योगिक विवाद (अनंतिम)
State-wise Major* Industrial Disputes in India including Industrial Unrest Due to Reasons other than Industrial Disputes from January to December 2023 (P)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ क्षेत्र का नाम / प्रभावित प्रतिष्ठानों की संख्या Name of the State / Union Territory / Sphere / Sector / Number of Establishments affected	हड़ताल/ तालाबंदी Strike/ Lockout	कारण/ Cause	शामिल श्रमिकों की संख्या/ No. of Workers involved	हानि हुए कार्यदिवस की संख्या (हजारों में)/ No. of Mandays lost (in 000's)	वेतन हानि (रु. लाखों में)/ Wages lost (Rs. in lakhs)	उत्पादन हानि (रु. लाखों में)/ Production loss (Rs. in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय क्षेत्र / CENTRAL SPHERE			NIL			
राज्य क्षेत्र / STATE SPHERE						
Tamil Nadu	Strike	Wages and Allowances	680	85680
One Unit (Private Sector)						
One Unit (Private Sector)	Strike	Wages and Allowances	5000	50000
One Unit (Private Sector)	Strike	Wages and Allowances	12000	144000

(P) = अनंतिम और 31 जनवरी, 2024 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणी/स्पष्टीकरण के आधार पर / Provisional and based on the returns/clarifications received in the Bureau till 31st January, 2024.

.. = उपलब्ध नहीं है / Not available

* = सभी विवाद जिनमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान अथवा विवादों के आरंभ से 50000 या अधिक कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था को प्रमुख विवादों के रूप में वर्गीकृत किया गया है/ All disputes in which there was a time-loss of 50000 or more mandays during the period under review or since the beginning of the disputes are classified as major disputes.

N.B:- Information in this statement has been given only for those case(s) which has/have been received in the current month sent by different State Labour Departments/Regional Labour Commissioners (Central) in their latest monthly return relating to current year.

संक्षेप में समाचार NEWS IN BRIEF

(अ) (a) भारतीय श्रम INDIAN LABOUR

The news items reported below have been gleaned from various official and unofficial sources. The Labour Bureau is not in a position to vouchsafe the authenticity of the unofficial news items.

EPFO extends five months time for Employers to upload wage details etc. regarding Pension on Higher Wages- Earlier an online facility was made available by EPFO for submitting Applications for Validation of Option/Joint Options for pension on higher wages. The facility was for eligible pensioners/members in compliance with the Hon'ble Supreme Court order dated 04.11.2022. The facility was launched on 26.02.2023 and was to remain available only till 03.05.2023. However, considering the representations of the employees, the time limit was extended to 26.06.2023 in order to provide complete four months' time to eligible pensioners/members for filing applications. A last opportunity of 15 days was further given to remove any difficulty faced by the eligible pensioners/members. Accordingly, the last date for submission of Applications for Validation of Option/Joint Options by employees was extended to 11.07.2023. 17.49 lakh Applications for Validation of Option/Joint Options have been received from pensioners/members till 11.07.2023. In view of representations received from Employers & Employers' Associations wherein requests were made to extend time period for uploading wage details of applicant pensioners/members, the employers were also given further period of three months to submit wage details etc. online latest by 30.09.2023. This time was further extended till 31.12.2023 because many representations were received from Employers & Employers' Associations wherein requests were made to extend further time period for uploading wage details of applicant pensioners/members. More than 3.6 lakh Applications for Validation of Option/Joint Options are still pending with the employers for processing. Therefore, in order to ensure that employers process these remaining Applications for Validation of Option/Joint Options, the Chairman, CBT EPF has kindly approved the proposal to grant another extension of time for the employers for uploading wage details online etc. till 31st May, 2024.

(PIB 03.01.2024)

Non-compete clause for IT freshers in India unenforceable: Experts- Indian IT giants like TCS, Infosys, Wipro, HCLTech, and Tech Mahindra include non-compete clauses in contracts for junior employees, ranging from 6 to 12 months. However, legal experts assert that these clauses are generally unenforceable and often amount to nothing more than serving a legal notice, according to report by The Times of India (TOI). A non-compete clause refers to a legally binding agreement in employment contracts that prevents current and/or former employees from revealing any trade secrets learnt during their time with a corporation. It is usually binding for the time of employment and a specific period post-employment. They can also prevent an employee from working with a competitor or in a specific geographic location or market for a specified duration. While these clauses may restrict freshers from joining competitors or customers for a specified duration, experts emphasise that, under the Indian Contract Act, any agreement that restrains trade beyond the employment term is void and unenforceable. Experts also clarified that non-compete obligations are valid only during employment and cannot hinder an employee from joining a competitor post-employment. Last year, Infosys introduced a non-compete clause preventing employees from working on the same customer's projects across five competitors for six months after leaving the firm. Wipro also incorporates a similar clause in its employment contracts. Nasscom indicates a subdued hiring environment in the Indian IT sector, with an expected addition of 250,000-270,000 freshers in the 2023-24 financial year, compared to 370,000-380,000 in the previous financial year. The contractual non-compete clauses are viewed as attempts to curb attrition by deterring employees from joining competitors. Employers are exploring novel approaches, such as staggered conditional payments, to incentivise compliance with post-employment non-compete agreements.

This is especially important after the IT sector experienced high layoffs and hiring freeze over the last year.

(Business Standard 09.01.2024)

15.92 lakh new workers enrolled under ESI Scheme in the month of November, 2023- The provisional payroll data of ESIC reveals that 15.92 lakh new employees have been added in the month of November, 2023. Around 20,830 new establishments have been registered and brought under the social security umbrella of the Employees' State Insurance Scheme in the month of November, 2023, thus ensuring coverage to more workers. Data evidently reveals that more jobs have been generated for the youth of the nation as out of the total 15.92 lakh employees added during the month, 7.47 lakh employees amounting to 47% of the total registrations are up to the age group of 25 years. Gender-wise analysis of payroll data indicates that net enrolment of female members has been 3.17 lakh in November, 2023. The data shows that a total of 58 transgender employees have also got registered under ESI Scheme in the month of November, 2023. It shows that ESIC is committed to deliver its benefits to every section of the society. The payroll data is provisional since the data generation is a continuous exercise.

(PIB 16.01.2024)

EPFO adds 13.95 lakh net members during November 2023- EPFO's provisional payroll data released on 20th January, 2024 highlights that EPFO has added 13.95 lakh net members in the month of November, 2023. Cumulative net addition of members during the current financial year continues to remain higher than that of the corresponding period of previous year. The data indicates that around 7.36 lakh new members have enrolled during November, 2023. Among the newly joined members, the age-group of 18-25 years constitutes 57.30% of total new members added during the month, showing that majority of the members joining organised sector workforce of the country are youth, who are mostly first-time job seekers. Payroll data reflects that approximately 10.67 lakh members exited but rejoined EPFO. In fact, these members switched their jobs and re-joined the establishments covered under the ambit of EPFO and opted to transfer their accumulations instead of applying for final settlement thus, extending their social security protection. Gender-wise analysis of payroll data represents that out of the total 7.36 lakh new members added during the month, around 1.94 lakh are new female members, joining EPFO for the first time. Also, the net female member addition during the month stood at around 2.80 lakh. Percentage of net female members out of net subscriber addition stood at 20.05%, which is highest since September, 2023, showing a growing participation of female employees in the organized sector workforce. State-wise analysis of payroll data denotes that net member addition is highest in the 5 states/ UTs of Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Haryana and Delhi. These states constitute around 58.81% of net member addition, adding a total of 8.20 lakh members during the month. Of all the states, Maharashtra is leading by adding 21.60% of net members during the month. Month-on-month comparison of industry-wise data displays significant growth in the members working in establishments engaged in the agriculture farms, coffee plantations, sugar, rubber plantations, tiles etc. Of the total net membership, around 41.94% addition is from expert services (consisting of manpower suppliers, normal contractors, security services, miscellaneous activities etc.). The above payroll data is provisional since the data generation is a continuous exercise, as updating employee record is a continuous process. The previous data hence gets updated every month. From the month of April-2018, EPFO has been releasing payroll data covering the period September, 2017 onwards. In monthly payroll data, the count of members joining EPFO for the first time through Aadhaar validated Universal Account Number (UAN), existing members exiting from coverage of EPFO and those who exited but re-joining as members, is taken to arrive at net monthly payroll.

(PIB 20.01.2024)

India's employable youth up from 33.9% in 2014 to 51.3% in 2024: DEA- The Department of Economic Affairs, in its January 2024 review of the economy, said there is ample scope to mainstream skilling into education curriculum and upskilling a large chunk of the existing workforce into future-relevant skills on the back of a transformative journey in skill development in India in the last decade. According to the report, released on Monday, the push to mass skilling since 2014 has

begun to pay dividends. "The employable percentage of final-year and pre-final-year students increased from 33.9% in 2014 to 51.3% in 2024," it said citing the findings of the online Wheebox National Employability Test. Further, the across-the-board progress in skilling has manifested in India's rising position in WorldSkills Competitions, from 39 in 2011 to 11 in 2022, it said. "Combined with the rising enrolment in higher education (from 3.2 crore in 2013-14 to 4.1 crore in 2020-21), rising employability implies that India's young workforce is both expanding and becoming increasingly employable," it said. According to the report, India has 50.2% of men and 41% of women with ten or more years of schooling in the 15-49 age group. "There is an opportunity to make the education-skill continuum the greatest weapon in the Indian Miracle by reaching out to each of these youth who only need to attend finishing schools for employability," it said. Under the National Education Policy, 2020, there is a special focus on vocational education and skill development. "Integration of vocational education with general education and mainstreaming of vocational education have been identified as key reforms in the country's education system," the report said. As per the Periodic Labour Force Survey 2022-23, 72.6% of workers aged 15-59 years did not receive any formal or informal vocational or technical training. The report further said that the recent launch of the Skill India Digital platform as the digital public infrastructure for the skilling, education, employment, and entrepreneurship ecosystem marks another step towards the "ease of acquiring skill" in India.

(The Economics Times, 30.01.2024)

Provide paid maternity leave to registered road construction workers: Govt to employers in advisory- The government has asked employers to provide paid maternity leave to registered road construction workers for 26 weeks for up to two deliveries, Women and Child Development Minister Smriti Irani said. Irani said for more than two children and for adoption or commissioning mothers, 12 weeks of paid maternity leave shall be provided by the employer. Irani made the announcement as she released an advisory on women's participation in the workforce. The Labour Ministry and the Women and Child Development Ministry released a joint advisory on it. "The advisory that I hold in my hands for female construction workers across the country mandates them to be given 26 weeks of maternity leave by their employers. Now, this is nothing less than revolutionary. Not just putting ink to paper, but ensuring officers actively consider the availability of such facilities to women," she said. In addition to childbirth, the advisory addresses miscarriages, stipulating that if a woman in the construction sector experiences a miscarriage, she is entitled to leave with wages equivalent to maternity benefits for six weeks following the day of the miscarriage. "As per the advisory, the wage of women construction workers has to be transferred through an online medium to avoid them getting duped by their supervisors," Irani said. The advisory also emphasised the proactive role of employers in implementing policies and programmes to encourage women to join the workforce. "Now that the advisory is given, it becomes easy for the officers and the ministry to compute the impact of such advisories to the female construction workforce across the country," Irani said. Furthermore, the advisory stresses the proactive role of employers in implementing policies and programs to encourage women to join the workforce, she said. The advisory emphasises the need for employers to facilitate a safe and supportive environment for female workers during night shifts, ensuring transportation services for pick-up and drop-off, especially during night-time hours.

(The Indian Express, 31.01.2024)

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (CPI-IW) on base 2016=100 and Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 for the month of December 2023

Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers- The All-India CPI-IW for December, 2023 decreased by 0.3 points and stood at 138.8 (one hundred thirty eight point eight). On one-month percentage change, it decreased by 0.22 per cent with respect to previous month as compared to decrease of 0.15 per cent recorded between corresponding months a year ago. The maximum downward pressure in current index came from Food & Beverages group contributing 0.45 percentage points to the total change. At item level, Rice, Poultry/Chicken, Mustard Oil, Apple, Banana, Cauliflower, Cabbage, Capsicum, Carrot, French-Beans, Green Coriander Leaves, Ginger, Onion, Potato, Tomato, Peas, Radish, Electricity Charges (Domestic), etc. are responsible for the fall in index. However, this decrease was largely checked by Wheat, Buffalo Milk, Fish Fresh, Brinjal, Drumstick, Garlic, Lady's Finger, Sugar White, Cooked Meals, Leaf Tobacco, Pan Finished, Trouser Pant Readymade, Leather Sandal/Chappal/Slippers, Electric Batteries, Employees State Insurance (ESI) Contribution, Tooth Paste/Tooth Powder, Auto-rickshaw/Scooter fare, Bus Fare, etc. putting upward pressure on the index. At centre level, Coimbatore recorded a maximum decrease of 4.7 points followed by Ludhiana with 3.2 points. Among others, 6 centres recorded decrease between 2 to 2.9 points, 18 centres between 1 to 1.9 points and 33 centres between 0.1 to 0.9 points. On the contrary, Solapur recorded a maximum increase of 1.5 points. Among others, 6 centres recorded increase between 1 to 1.4 points and 19 centres between 0.1 to 0.9 points. Rest of 3 centres' indices remained stationary. Year-on-year inflation for the month stood at 4.91 per cent compared to 4.98 per cent for the previous month and 5.50 per cent during the corresponding month a year before. Similarly, Food inflation stood at 8.18 per cent against 7.95 per cent of the previous month and 4.10 per cent during the corresponding month a year ago.

(Labour Bureau)

Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers- The All-India Consumer Price Index Number for Agricultural Labourers and Rural Labourers (Base: 1986-87=100) for the month of December, 2023 increased by 4 points and 5 points respectively to stand at 1257 and 1267 points respectively. The major contribution towards rise in the general index of Agricultural Labourers and Rural Labourers came from food group to the extent of 3.24 and 2.98 points respectively mainly due to increase in prices of rice, wheat atta, jowar, bajra, maize, pulses, milk, meat goat, sugar, garlic, etc. There had been a mixed trend in the indices of constituent States. Seven States experienced a decrease in CPI-AL whereas six States saw a decrease in CPI-RL. In the case of Agricultural Labourers, it recorded an increase of 11 to 20 points in 2 States, 1 to 10 points in 11 States and a decrease of 1 to 10 points in 7 States. Tamil Nadu with 1463 points topped the index table whereas Himachal Pradesh with 961 points stood at the bottom. In the case of Rural Labourers, it recorded an increase of 11 to 20 points in 2 States, 1 to 10 points in 12 States and a decrease of 1 to 10 points in 6 States. Andhra Pradesh with 1454 points topped the index table whereas Himachal Pradesh with 1018 points stood at the bottom. Among States, the maximum increase in both CPI-AL and CPI-RL was experienced by Andhra Pradesh of 17 points and 15 points respectively which was mainly driven by the increased prices of rice, jowar, bajra, ragi, fruits and vegetables (especially brinjal, lady finger, cucumber) etc. Punjab experienced the maximum decrease of 7 points for CPI-AL due to fall in prices of masur dal, onion, chilly green, vegetables and fruits (especially potato, mustard leaves, palak, banana), gur, plastic shoes etc. For CPI-RL, Assam experienced the maximum decrease of 5 points due to decrease in prices of rice, fruits and vegetables (especially cabbage, gourd, brinjal, bhaji saag, potato, pumpkin), ginger, onion, chilly green, poultry etc. Point to point rate of inflation based on the CPI-AL and CPI-RL stood at 7.71% and 7.46% in December, 2023 compared to 7.37% and 7.13% respectively in November, 2023 and 6.38% and 6.60% respectively during the corresponding month of previous year. Similarly, food inflation stood at 9.95 % and 9.80% in December, 2023 compared to 9.38% and 9.14% respectively in November, 2023 and 5.89 % and 5.76% respectively during the corresponding month of previous year.

(Labour Bureau)

(ब) (b) विदेशी श्रम FOREIGN LABOUR

US jobs numbers to show healthy hiring, easing pay growth- The US labour market probably remained sturdy while wage gains continued to ease as 2023 drew to a close, setting up for steady economic growth and waning inflation in the coming year. Government data on Friday (Dec 29) is projected to show payrolls in the world's largest economy increased by 170,000 in December. That would cap a year in which some 2.7 million jobs were added. The median forecast in a Bloomberg survey of economists also calls for a 3.9 per cent increase in average hourly earnings from a year earlier, the smallest annual gain since mid-2021. The unemployment rate is projected to tick up to 3.8 per cent. While the pace of hiring is moderating, a resilient labour market supports views that the economy will continue to expand in 2024, albeit at a slower rate. That is consistent with the Federal Reserve's latest economic projections. Fed officials also see inflation cooling. On Wednesday, the central bank will issue minutes of policymakers' December meeting, at which officials signalled an end to their aggressive. The Fed held its benchmark rate at the highest level since 2001 and penciled in no further increases. The quarterly projections showed Fed officials expect to lower rates by 75 basis points next year. Also on Wednesday, the government will issue figures on the number of job openings across the economy in November. Economists project vacancies rose from a more than two-year low a month earlier, while remaining consistent with a moderation in labour demand. The first week of the new year will also include closely watched surveys of manufacturing and service activity in December. Meanwhile, in Canada, jobs data for December due on Friday will reveal whether the labour market continued to ease as 2023 came to a close.

(The Business Times 01.01.2024)

US economy adds 216,000 jobs, wages rise- US job growth picked up in December and wage gains exceeded expectations, diminishing prospects for an imminent Federal Reserve interest rate cut. Non-farm payrolls increased 216,000 [<https://www.afr.com/markets/equity-markets/rba-rate-relief-delayed-after-strong-us-job-report-20240107-p5evlx>] after downward revisions to the prior two months, a Bureau of Labour Statistics report showed on Friday. The unemployment rate held at 3.7 per cent as the workforce shrank. Average hourly earnings rose 0.4 per cent from a month earlier. The advance in payrolls was led by healthcare, government, construction, and leisure and hospitality. A measure of the breadth of job gains picked up. The December figures cap a year when the labour market moderated from its breakneck post-pandemic recovery without sinking into a downturn that was widely forecast earlier in 2023. Despite Fed interest rates at a two-decade high, the resilient labour market has fuelled steady consumer spending and healthy economic growth even as inflation has slowed. After the jobs report, traders reduced bets on a Fed rate cut in March, while Treasury yields rose. The S&P 500 was modestly higher near 10am in New York, recovering from a lower open. The probability of a quarter point rate cut in March fell to 57.3 per cent, according to the CME's FedWatch Tool [<https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html>]. The probability had briefly surpassed 90 per cent in late December. The demand for workers and employers' willingness to raise salaries are likely to reinforce Fed policymakers' resolve to keep rates elevated until they see further evidence that price increases are cooling throughout the economy. The report also bolsters prospects that they can achieve a soft landing. "The overall picture is of a steady job market that is gradually cooling off," said Kathy Jones, Charles Schwab's chief fixed-income strategist. "But the rise in average hourly earnings could keep the Fed on hold longer than the market is pricing in." Despite the healthy pick-up in December job growth, the report included a host of caveats. The participation rate – the share of the population working or looking for work – fell by 0.3 percentage point to 62.5 per cent, the largest monthly drop in nearly three years. The decrease was concentrated among younger and older people. For those aged 25-54, participation eased 0.1 point. The report also showed it is taking longer for unemployed Americans to find work and the number of full-time employees dropped by the most since April 2020. The data, meanwhile, indicated a drop in temporary-help employment to the lowest since May 2021. evidence that price increases are cooling throughout the economy. The report also bolsters prospects that they can achieve a soft landing. "The overall picture is of a steady job market that is gradually cooling off," said Kathy Jones, Charles Schwab's chief fixed-income strategist. "But the rise in average hourly earnings could keep the Fed on hold longer than

the market is pricing in.” Despite the healthy pick-up in December job growth, the report included a host of caveats. The participation rate – the share of the population working or looking for work–fell by 0.3 percentage point to 62.5 per cent, the largest monthly drop in nearly three years. The decrease was concentrated among younger and older people. For those aged 25-54, participation eased 0.1 point. The report also showed it is taking longer for unemployed Americans to find work and the number of full-time employees dropped by the most since April 2020. The data, meanwhile, indicated a drop in temporary-help employment to the lowest since May 2021. “The only piece of good news from December’s jobs report is the surprisingly high headline non-farm payroll print,” according to a note from Bloomberg economists Anna Wong, Eliza Winger and Estelle Ou. “The rest of the report is permeated with evidence of a fast-cooling labour market: the largest drop in household employment since April 2020, a spike in the duration of unemployment spells, a drop in labour participation, more temp workers unable to find jobs, more people taking part-time work for economic reasons, and a decline in working hours.” Central bankers are paying close attention to how labour supply and demand dynamics affect wage gains. Friday’s report showed average hourly earnings increased 4.1 per cent from December 2022. Earnings for non-supervisory employees, who make up the majority of workers, rose 0.3 per cent from November and 4.3 per cent from a year earlier. The jobs report is made up of two surveys – one of businesses and the other of households. The data incorporated annual revisions to the household survey data, which informs statistics like the unemployment rate and participation rate, but they did not change the overall employment picture.

(Financial Review, 06.01.2024)

Global unemployment to increase in 2024, warns ILO report- Just over five per cent of the world’s workforce is without a job, according to the International Labour Organization’s World Employment and Social Outlook Trends 2024 report. This is a better situation than before the pandemic, but it isn’t set to last, as an extra two million people are expected to be looking for a job over the next 12 months, the ILO said. The UN agency’s findings chime with a new World Bank report released indicating that the global economy is on track for the slowest half-decade of growth in 30 years. In addition to the uncertain jobs market outlook, ILO noted that the majority of the world’s richest nations had seen living standards eroded, because of inflation, which is now in decline in many major economies. The erosion of living standards resulting from inflation is, “unlikely to be compensated quickly”, said the UN agency. Big disparities: ILO experts underscore that there are significant differences between higher and lower income countries. While the jobs gap rate (the number of jobless who are looking for work) in 2023 was 8.2 per cent in richer nations, it stood at 20.5 per cent in poorer countries. Similarly, while the 2023 unemployment rate stuck at 4.5 per cent for wealthier countries, it was 5.7 per cent in low-income countries. ILO Director-General, Gilbert Houngbo warned that “falling living standards and weak productivity combined with persistent inflation create the conditions for greater inequality and undermine efforts to achieve social justice. “And without greater social justice we will never have a sustainable recovery.” He called for workforce challenges overall to be tackled quickly and effectively. The working poor: Despite quickly declining after 2020, the number of workers living in extreme poverty (earning less than US\$2.15 per person per day) grew by about a million in 2023. Income inequality has also widened, the trends show: the erosion of real disposable income, “bodes ill for aggregate demand and a more sustained economic recovery”, notes the report. Despite various policy initiatives to tackle the underground economy, the number of people employed informally is expected to remain static, accounting for around 58 per cent of the global workforce in 2024. Uneven post-pandemic recovery: The World Health Organization (WHO) declared an end to COVID-19 as a public health emergency last May, but the aftershocks of the pandemic are still being felt, the ILO report reveals. Residual symptoms and health problems for those 20 per cent or so who suffered ‘long COVID’ persist for many and have impacted productivity. Many who have re-entered the labour market post-pandemic tend not to be working the same number of hours while the number of sick days taken has increased significantly. Women’s participation in the job market has bounced back quickly, but a notable gender gap persists, especially in emerging and developing nations. Youth unemployment rates continue to present a challenge. The report also finds that despite technological advances and increased investment, productivity growth has continued to slow.

(UN News, 10.01.2024)

Empowering primary care: WHO trains health workers to provide quality emergency services- Health emergencies, such as pandemics, natural disasters, but also accidents, complications during pregnancies and acute injuries, can have a devastating impact on communities, especially those that are already vulnerable. Amidst the lessons learned from the challenges posed by the COVID-19 pandemic, the importance of robust emergency services has come to the forefront. Primary healthcare centres play a crucial role as the first line of defence against emergencies in the community, making it important to ensure local health workers are fully equipped and trained to provide effective emergency services to the community and save lives. In principle, every healthcare facility, particularly at primary care level (including community health centers, clinics and independent pre-clinics), should be equipped to handle emergencies within the healthcare facility as well as interventions that require involvement of multiple healthcare facilities. However, despite numerous training programmes initiated by health authorities to improve the skills of frontline healthcare personnel especially in emergency services, there are challenges. Healthcare workers at primary care often rely on training organized by professional organizations or pay their professional development out of their own pocket. These financial constraints lead to disparities in technical skills, particularly in treating patients facing a medical emergency. There is an urgent need for support to enhance the technical capabilities of first-level healthcare personnel, especially in emergency services, to address these challenges. In October and November 2023, the Ministry of Health collaborated with WHO and provincial health authorities to conduct a three-day training series in Jambi and Southeast Sulawesi provinces representing diverse geographical settings (mainland and island) in the west and east. A core team of physicians and paramedics experts from Germany facilitated the training. Participants explored different aspects of emergency services during the training, including general emergency handling, responses for internal disease, accidents/trauma, burns, animal bites and drowning, as well as emergency situations involving pregnant women and childbirth. The health workers not only delved into specific emergency topics but were also provided with practical tools for managing emergency situations. This included learning how to prioritize patients through triage, stabilize them before referral, how to communicate with the patients' family, monitor them during transportation and understand the process of referring back patients to the hospital ('rujuk balik') or other referral healthcare facilities. Pre- and post-test assessments showed a prominent increase of the participants' knowledge by 88%. The notable increase in knowledge, along with the positive feedback and high satisfaction among participants, attests to the effectiveness and efficiency of the training programme. "As a nurse, I am very grateful for the implementation of this training. It allows me to acquire knowledge in emergency care, which I can apply in the Puskesmas where I work. Some supporting tools may be modified in various regions based on the resources available," said a nurse during the training in Jambi. This training helped improve the capacity of healthcare professionals in primary health care level in responding to emergency situations. With the role of primary health care as first responder in providing most accessible health services to the community, it is important to ensure that the human resources are fully prepared with the proper skills and tools, especially in following best practices, international guidelines, and standard operating procedures of emergency response. Shortly following the training series, participants used their acquired knowledge and skills and conducted in-house training in two Puskesmas in Konowe Kepulauan Regency, South-east Sulawesi Province. This follow-up training was initiated independently by the Puskesmas staff, with strong support and resources from the provincial and district health offices. This initiative not only highlights the proactive engagement and commitment of local health teams to share their knowledge in the community but also underscores the importance of central-level involvement, particularly from the Ministry of Health, in advocating for and supporting province and district health authorities to allocate resources for sustaining and scaling up sustain and scale up health worker training initiatives. WHO will continue to support the Ministry of Health in advocacy efforts to sub-national governments for the endorsement of training materials and curriculum, so that capacity building activities can be held regularly and consistently in different regions across Indonesia.

(WHO News, 18.01.2024)

श्रम निर्णय LABOUR DECISION

Termination of probationer on ground of mis-conduct without holding any enquiry is bad in law.

In this case, the petitioner was working as daily wage rated employee. He was considered for regularization and regularised by order dated 31.08.2009, with certain conditions. Thereafter, petitioner was required to fill-up a verification form. Petitioner furnished all necessary information in the said form. On 02.12.2013 respondents sent a notice to the petitioner. In return, the petitioner submitted his reply dated 20.12.2013. The respondents without conducting any enquiry, passed the order on 01.09.2014 and terminated the service of the petitioner.

Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner claim for regularization was duly considered by the screening committee and he was regularised by a specific order dated 31.08.2009. There was no element of misrepresentation or suppression on the part of the petitioner in the verification form dated 25.01.2013. The petitioner not only disclosed the factum of criminal cases, but also enclosed the relevant judgements along with the form. Interestingly, counsel for the petitioner submits that there was no allegation that the petitioner suppressed any material fact while filling the verification form. Apart from this, the show cause notice shows that the petitioner stood exonerated/acquitted in all the criminal cases except one. The petitioner filed his reply on 20.12.2013 and made it clear that neither on the basis of alleged conviction nor on the basis of any misconduct, any coercive action can be taken against the petitioner. Counselor also submits that impugned order dated 01.09.2014 is stigmatic in nature.

A learned counsel for employee supported the impugned order. He submits that while regularisation the petitioner vide order 31.08.2009, it was made it clear that he will remain on probation for a period of two years. If for the purpose of appointment, petitioner furnished any incorrect information or suppressed any material information, his services could be terminated. Thus, impugned order of termination is passed on the basis of these conditions of regularization order dated 31.08.2009 read with show cause notice dated 02.12.2013 and the relevant regulations. A bare perusal of the verification form filled up by the petitioner makes it clear that it was filled up subsequently to his regularization. The most important of this matter is that when respondents issued the show cause notice, it was now where alleged that petitioner had suppressed any material fact or misrepresent in any manner. Thus, there was no such allegation that the petitioner was guilty. This is trite that an employee can not be subjected to coercive action or punishment for an allegation which was not a subject matter of charge-sheet/show cause notice. Termination of probationer on the ground of misconduct without holding enquiry.

Hence, in view of foregoing discussion, the impugned punitive termination order can not sustain judicial scrutiny. Resultantly, the order dated 01.09.2014 is set aside. The respondents shall reinstate, the petitioner with all consequential benefits except back wages within 45 days from the date of production of a copy of this order. Petitioner is allowed to the extent indicated above.

(Shambhoo Prasad Tiwari vs Madhya Pradesh State Agriculture Marketing Board & Anr., All India Services Law Journal Vol-144 Part XII December 2023 pp. 571-576)

Whether you call it Buddhism or another religion, self-discipline, that's important. Self-discipline with awareness of consequences.

Dalai Lama

श्रम साहित्य LABOUR LITERATURE

Working Papers/Articles/News items on Labour-related issues Published in Periodicals/Journals/Newspapers

Employment and Unemployment

- Lucia Mutikani
- Slower US job growth expected in December; annual wages increase seen below 4%. Reuters, January, 05, 2024.
- Malcolm Sawyer
- Political Aspects of Full Employment: Eight Decades On. Review of Political Economy 2023, Vol. 35 No. 04 pp-1109-1123.
- Shadieva G.M., Khusinova Shaira Akbarovna
- Providing employment by improving the efficiency of family businesses. Journal of New Century Innovations, Vol. 20, Issue-3, January, 2023 pp-25-31.
- Robert W. McGee and Serkan Benk
- Sector of Employment and Attitudes toward Bribery: Summaries of 14 Studie. The Ethics of Bribery:Theoretical and Empirical Studies, Chapter-36, pp-1-9.
- Rebecca Summer, Megan McCoy, Isabelle Trujillo, Esperanza Rodriguez
- Support for Working Students: Understanding the Impacts of Employment on Students' Lives. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice. pp-1-38.
- Lorenzo Cresti, Giovanni Dosi, Giorgio Fagiolo
- Technological interdependencies and employment changes in European industries. Technological interdependence in the American economy in Rosenberg, Chapter-3, pp-1-36.
- Liton Chandra Voumik, Shohel Md. Nafi, Shapan Chandra Majumder, Md. Azharul Islam
- The impact of tourism on the women employment in South American and Caribbean countries. nternational Journal of Contemporary Hospitality Management, pp-1-18.
- Gracia Liu-Farrer & Karen Shire
- Who are the fittest? The question of skills in national employment systems in an age of global labour mobility. Journal of Ethnic and Migration Studies. pp-1-18.

Wages and Earnings

- Prapti Upadhayay
- 2024 salary scoop: What's in the pay raise pipeline for US workers? Hindustan Times, January 05, 2024.

To enjoy good health, to bring true happiness to one's family, to bring peace to all, one must first discipline and control one's own mind. If a man can control his mind he can find the way to Enlightenment, and all wisdom and virtue will naturally come to him.

- Buddha

सांख्यिकी STATISTICS

खंड अ Section A

मासिक सांख्यिकी MONTHLY STATISTICS

		पृष्ठ Pages
टिप्पणियाँ Notes	1. कीमतें एवं मूल्य सूचकांक Prices and Price Indices	215
	1.1. औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Industrial Workers' Consumer Price Index	
तालिका अ.1.1.1	औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016 = 100 पर आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (समूह-वार और सामान्य) की श्रम ब्यूरो की श्रृंखला	217
Table A.1.1.1	Labour Bureau's Series of All India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2016=100 (Group-wise and General)	
तालिका अ.1.1.2	श्रम ब्यूरो की औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला (समूह-वार एवं सामान्य) (आधार 2016 = 100)	218
Table A.1.1.2	Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (Group-wise & General) (Base 2016=100)	
	1.2. कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers	
तालिका अ.1.2.1 (अ) एवं (ब)	श्रम ब्यूरो की कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला (समूह-वार एवं सामान्य) (आधार: 1986-87 = 100)	226
Table A.1.2.1 (a) and (b)	Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers (Group-wise and General) (Base: 1986-87=100)	
तालिका अ.1.2.2 (अ) एवं (ब)	कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए चयनित वस्तुओं की राज्य-वार मासिक उपभोक्ता कीमतें	230
Table A.1.2.2 (a) and (b)	State-wise monthly consumer prices of selected articles of Agricultural and Rural Labourers	
	2. मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings	
तालिका अ.2.1 (अ) एवं (ब)	ग्रामीण भारत में कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दरें (राज्यों एवं लिंग वार)	238
Table A.2.1 (a) and (b)	Average Daily Wage Rates for Agricultural and Non-agricultural Occupations in Rural India (By States and Sex)	
	3. औद्योगिक विवाद Industrial Disputes	
तालिका अ.3.1	क्षेत्र-वार विवादों की संख्या, उनमें शामिल श्रमिकों की संख्या एवं औद्योगिक विवादों के कारण कार्य दिवसों की हानि	249
Table A.3.1	Sector/Sphere-wise Number of Disputes, Workers involved and Mandays Lost due to Industrial Disputes	
तालिका अ.3.2	औद्योगिक विवाद (सभी हड़ताल एवं तालाबंदी)	250
Table A.3.2	Industrial Disputes (All Strikes and Lockouts)	

खंड B Section B

क्रमिक सांख्यिकी SERIAL STATISTICS

	पृष्ठ Pages
टिप्पणियाँ Notes	251
1. कीमतें एवं मूल्य सूचकांक Prices and Price Indices	
1.1. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Industrial Workers Consumer Price Index	
तालिका ब.1.1.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य एवं खाद्य)	253
Table B.1.1.1 All India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (General & Food)	
तालिका ब.1.1.2 श्रम ब्यूरो की औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला (सामान्य सूचकांक)	254
Table B.1.1.2 Labour Bureau's Series of All India Consumer Price Index Numbers of Industrial Workers (General Index)	
1.2. कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Agricultural and Rural Labourers Consumer Price Index	
तालिका ब.1.2.1 (अ) एवं (ब) कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए वर्ष-वार अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य एवं खाद्य आधार: 1986-87 = 100)	269
Table B.1.2.1 (a) and (b) Year-wise All India Average Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers (General & Food on Base: 1986-87=100)	
तालिका ब.1.2.2 (अ) एवं (ब) कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए राज्य-वार श्रम ब्यूरो की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला (सामान्य सूचकांक आधार: 1986-87 = 100)	271
Table B.1.2.2 (a) and (b) State-wise Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers (General Index on Base: 1986-87=100)	
1.3. ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Consumer Price Index for Rural, Urban and Combined	
तालिका ब.1.3 ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	277
Table B.1.3 All India Consumer Price Index Numbers for Rural, Urban and Combined	
1.4. थोक मूल्य सूचकांक Wholesale Price Index	
तालिका ब.1.4 भारत में थोक मूल्यों की सूचकांक	278
Table B.1.4 Index Numbers of Wholesale Prices in India	
2. मजदूरी एवं उपार्जन Wages And Earnings	
तालिका ब. 2.1 सूती वस्त्र मिलों में निम्नतम भुगतान किए गए कर्मकारों /कार्यकर्ताओं का उपार्जन (मूल वेतन, महंगाई भत्ता)	281
Table B.2.1 Earnings (Basic Wage, Dearness Allowances) of the Lowest Paid Workers/ Operatives in Cotton Textile Mills	
3. औद्योगिक विवाद Industrial Disputes	
तालिका ब.3.1 औद्योगिक विवाद (सभी हड़ताल एवं तालाबंदी)	283
Table B.3.1 Industrial Disputes (All Strikes and Lockouts)	

खंड अ SECTION A
मासिक सांख्यिकी MONTHLY STATISTICS

Notes

1. Prices and Price Indices

1.1. Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers

A.1.1.1. Labour Bureau's Series of All India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (Base: 2016=100) – The All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on Base: 2016=100 (General and Group-wise) along with Linking Factors with previous base: 2001=100 are presented in Table A.1.1.1. The All India Index is a weighted average of 88 constituent centre Indices compiled by the Labour Bureau. The current series of the Index Numbers has been introduced with effect from September, 2020 index replacing the series on base: 2001=100. The All India General Index as well as Group Indices for previous series on base: 2001=100 can be obtained by multiplying the current series indices by the respective Linking Factors. A note on the scope and methods of construction of these index numbers was published in December 2020 issue of the "Indian Labour Journal". The All India Consumer Price Index Number for the month of December, 2023 decreased by 0.3 points with respect to previous month and stood at 138.8 points.

A.1.1.2. Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers in respect of 88 constituent centres on Base: 2016=100 – The Consumer Price Index Numbers for industrial workers on Base: 2016=100 for 88 centres compiled by the Labour Bureau are presented group wise in Table A.1.1.2 for the months of November, 2023 and December, 2023. The Index Numbers measure the extent to which the overall levels of retail prices of goods and services consumed by Industrial Workers has changed when compared with the base period viz., 2016=100. As compared to previous month. At centre level, Coimbatore recorded a maximum decrease of 4.7 points followed by Ludhiana with 3.2 points. Among others, 6 centres recorded decrease between 2 to 2.9 points, 18 centres between 1 to 1.9 points and 33 centres between 0.1 to 0.9 points. On the contrary, Solapur recorded a maximum increase of 1.5 points. Among others, 6 centres recorded increase between 1 to 1.4 points and 19 centres between 0.1 to 0.9 points. Rest of 3 centres indices remained stationery.

1.2. Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers:

A.1.2.1 (a) and (b). Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on Base: 1986-87=100 - All-India Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on Base: 1986-87=100 replacing the earlier series on base 1960-61=100 were released with effect from November, 1995. The all-India index is a weighted average of 20 constituent State indices compiled by the Labour Bureau for Agricultural and Rural Labourers separately. A detailed note on the scope and method of construction of these indices was published in February, 1996 issue of the Indian Labour Journal.

The Consumer Price Index Numbers (Base: 1986-87=100) for Agricultural and Rural Labourers for 20 States and All-India are presented group-wise in Tables A.1.2.1 (a) and (b) for the months of November, 2023 and December, 2023. These index numbers measure the extent of change in the retail prices of goods and services consumed by Agricultural and Rural Labourers as compared with the base period viz., 1986-87. The All-India Consumer Price Index Number for Agricultural Labourers and Rural Labourers (Base: 1986-87=100) for the month of December, 2023 increased by 4 & 5 points respectively to stand at 1257 (One thousand two hundred and fifty seven) and 1267 (One thousand two hundred and sixty seven) points respectively.

A.1.2.2 (a) and (b). Monthly Consumer Prices of Selected Articles for Agricultural and Rural Labourers – The monthly consumer prices of selected articles of index basket of agricultural and rural labourers utilized in the compilation of Consumer Price Index Numbers (Base: 1986-87=100) for 20 States separately for Agricultural and Rural Labourers for the month of December, 2023 are given in Tables A.1.2.2. (a) and (b). Though the spatial coverage and the individual sample village price quotations in both the series relating to the Agricultural and Rural Labourers

are the same, the weighted prices of items at the State level will be slightly different from each other due to difference in the regional weights in each of the series.

2. Wages and Earnings

A.2.1 (a) and (b). Average Daily Wage Rates for Agricultural and Non-agricultural occupations- In pursuance of the recommendations of the Technical Working Group on rural retail prices set up by the NSO in 1974, Labour Bureau has been compiling and maintaining average daily wage rate data in respect of agricultural and non-agricultural occupations based on the data collected by the Field Operation Division of National Statistical Office (NSO) from a fixed set of 600 sample villages spread over 66 NSS regions in 20 states. Though these wage rate data have been collected since 1986-87, their regular compilation and dissemination started w.e.f December, 1998. The average daily wage rate data was collected for eleven agricultural and seven non-agricultural occupations till October, 2013. However, following the recommendations of the Working Group constituted by the CSO on advice of the National Statistical Commission (NSC), wage rate data is now being collected for 25 occupations (12 agricultural and 13 non-agricultural). The daily wage rate data received from the field are first normalized for eight working hours a day. The simple arithmetic average of these normalized daily wage rates is worked out for each of the 20 states. The average wage rates at all-India level are derived by dividing the sum total of wages of all the 20 states by the number of quotations. These averages are restricted only to those occupations where the number of quotations are five or more in order to avoid the apparent inconsistency in wages paid to different categories of workers on account of differences in number of quotations. The month-wise average daily wage rates are thus worked out at State level and also at all-India level are released regularly to the users through various sources. State-wise and all-India average daily wage rates by occupation and sex for the month of December, 2023 have been presented in Table A.2.1 (a) for agricultural occupations and Table A.2.1 (b) for non-agricultural occupations.

3. Industrial Dispute

A.3.1. Sector / Sphere-wise Number of Disputes, Workers Involved and Mandays Lost due to Industrial Disputes from January to December, 2023 – These statistics are received in the Bureau from the State Labour Departments and Regional Labour Commissioners (Central) in the prescribed format in the shape of monthly voluntary returns covering State and Central Spheres separately. Information on Strikes and Lockouts is collected by the concerned authorities and sent to the Bureau every month. Consolidated information for the year 2023 (as on 31st January, 2024) is presented in Table A.3.1.

A.3.2. Industrial Disputes (All Strikes and Lockouts) during January to December, 2023 - State-wise scenario of Industrial Disputes from January to December, 2023 is presented in Table A.3.2.

NOTES - 1. Labour Bureau takes every care to ensure correctness of the information presented in Sections A and B of the Journal. However, any error, if noticed, may kindly be brought to the notice of the Labour Bureau.
2. The indices given in Sections A and B measure the relative change in Consumer Prices over time at each Centre and as such these cannot be used for comparison of costliness among the different Centres.

1. कीमतें एवं मूल्य सूचकांक
PRICES AND PRICE INDICES

1.1 औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
1.1 Industrial Workers Consumer Price Index

तालिका अ.1.1.1. औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016 = 100 पर आधारित अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (समूह-वार और सामान्य) की श्रम ब्यूरो की श्रृंखला

Table A.1.1.1. Labour Bureau's Series of All India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2016=100 (Group-wise and General)

वर्ग / Group	सम्पर्क कारक Linking Factor	नवम्बर/November 2023	दिसम्बर/December 2023
सामान्य सूचकांक / General Index	2.88	139.1	138.8
I खाद्य एवं पेय / Food & Beverages	3.00	143.9	142.8
II पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य / Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants	3.19	157.7	157.8
III वस्त्र एवं जूते / Clothing and Footwear	1.98	140.8	141.1
IV आवास / Housing	4.01	125.7	125.7
V ईंधन एवं प्रकाश / Fuel and Light	2.41	161.9	161.8
VI विविध / Miscellaneous	2.25	135.2	135.5

सम्पर्क कारक: वर्तमान श्रृंखला सूचकांक को संबंधित सम्पर्क कारक से गुणा करके आधार 2001 = 100 पर स्थित पिछली श्रृंखला के लिए अखिल भारतीय सामान्य सूचकांक तथा वर्ग सूचकांकों को प्राप्त किया जा सकता है।

Linking Factor: The All-India General Index as well as Group Indices for previous series on base: 2001=100 can be obtained by multiplying the current series indices by the respective Linking Factors.

तालिका अ.1.1.2 - श्रम ब्यूरो की औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
Table A.1.1.2 - Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Industrial

क्र. सं. Sl. No.	राज्य/संघ राज्य/केन्द्र State/Union Territory/ Centre	सम्पर्क कारक Linking factor for General Index with previous base 2001=100	सामान्य General		खाद्य एवं पेय Food & Beverages	
			नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश ANDHRA PRADESH						
1	गुन्टूर Guntur	2.61	147.5*	148.8	147.8	150.5*
2	नेल्लोर Nellore	N	138.9	138.6	143.8	143.1
3	विशाखापत्तनम Vishakhapatnam	2.44	153.2	153.0	140.3	139.3
असम ASSAM						
4	बिस्वानथ-चारियाली Biswanath-Chariali	N	149.2	149.3	143.7	144.2
5	डुमडूमा तिनसुकिया DD Tinsukia	2.38	153.0	152.7	147.0	146.2
6	गुवाहाटी Guwahati	2.42	152.2	151.3	135.9	133.8
7	लबाक सिल्चर Labac-Silchar	2.48	142.6	140.6	137.4	134.2
8	नुमालीगढ़ गोलाघाट Numaligarh-Golaghat	N	145.6	146.0	134.4	135.2
9	सिबसागर Sibsagar	N	147.6	145.6	155.3	151.5
बिहार BIHAR						
10	मुंगेर जमालपुर Munger-Jamalpur	3.16	143.2	143.9	136.4	132.7
11	पटना Patna	N	139.7	136.8	141.9	134.4
चंडीगढ़ CHANDIGARH						
12	चंडीगढ़ Chandigarh	2.79	146.0	145.2	143.9	141.3
छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH						
13	भिलाई Bhilai	3.13	127.8	127.6	131.1	130.6
14	कोरबा Korba	N	145.9	145.7	155.2	154.5
15	रायपुर Raipur	N	136.5*	135.7	146.5	144.3
दा. न. ह. DADRA & NAGAR HAVELI						
16	दादरा नगर हवेली Dadra & Nagar Haveli	N	130.2	129.2	125.7	123.4
दिल्ली DELHI						
17	दिल्ली Delhi	2.82	131.7	130.2	142.5	138.3
गोवा GOA						
18	गोवा Goa	3.20	131.6	131.6	141.6	141.5
गुजरात GUJARAT						
19	अहमदाबाद Ahmedabad	2.73	134.3	133.6	145.2	143.5*
20	भावनगर Bhavnagar	2.84	134.1	133.7	144.9	143.9
21	राजकोट Rajkot	2.90	132.7	133.0	139.6	140.3
22	सूरत Surat	2.64	132.8	132.5*	148.2	147.5*
23	वड़ोदरा Vadodara	2.66	133.8	132.3	147.1	142.7

* दूसरे दशमलव बिन्दु से राउन्ड हुआ है/Rounded up from second decimal place

श्रृंखला (समूह-वार एवं सामान्य) (आधार 2016 = 100)

Workers (Group-wise & General) (Base 2016=100)

पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants		वस्त्र एवं जूते Clothing & Footwear		आवास Housing		ईंधन एवं प्रकाश Fuel & Light		विविध Misc.	
नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
165.6	165.6	131.2	134.3	107.8	107.8	189.4	189.4	166.4	166.4
147.5	147.5	138.2	138.2	117.8	117.8	167.5*	167.5*	138.0	138.0
227.1	227.1	176.1	177.7	130.8	130.8	195.7	195.7	162.9	162.9
184.7	182.1	128.3	128.3	105.7	105.7	209.1	209.1	142.3	142.3
153.4	154.6	231.6	231.8	126.8	126.8	214.5*	218.4	144.1	143.5*
139.5	139.5	119.6	120.5	207.8	207.8	193.9	193.9	136.2	136.6
157.5*	158.6	144.8	144.6	102.1	102.1	331.4	331.4	119.8	119.6
172.9	172.9	171.2	171.2	106.5*	106.5*	249.3	249.3	125.3	125.3
181.6	180.6	120.1	120.1	104.2	104.2	227.2	227.2	120.0	120.0
137.5*	137.5*	167.0	169.3	121.3	121.3	185.7	185.7	146.6	152.0
141.0	141.0	147.2	147.2	133.2	133.2	180.2	180.2	132.6	132.7
134.0	134.0	180.2	180.2	153.7	153.7	155.6	155.6	135.8	135.8
178.8	178.8	117.3	117.3	115.3	115.3	165.4	165.4	124.7	124.7
182.7	182.7	153.1	153.1	144.4	144.4	170.1	170.1	133.5*	133.5*
187.2	187.2	114.5	114.5	123.4	123.4	149.5*	149.5*	132.0	132.0
165.5*	165.5*	115.0	115.0	118.8	118.8	164.3	164.3	139.2	139.2
144.1	144.1	159.4	159.7	124.2	124.2	106.6	106.6	124.4	124.5*
122.0	122.0	115.1	115.1	121.9	121.9	140.7	140.7	126.4	126.5*
120.8	120.7	123.1	123.1	119.6	119.6	173.8	173.8	123.8	123.8
156.8	156.8	115.2	115.2	115.3	115.3	181.7	181.7	121.8	121.8
116.3	116.3	125.3	125.3	114.4	114.4	170.4	170.4	126.9	126.9
109.3	109.3	107.4	107.4	109.9	109.9	166.1	166.1	128.4	128.4
154.8	154.8	111.3	111.3	113.7	113.7	157.4	157.4	131.0	131.0

तालिका अ.1.1.2 जारी / Table A.1.1.2 Contd.

क्र. सं. Sl. No.	राज्य/संघ राज्य/केन्द्र State/Union Territory/ Centre	सम्पर्क कारक Linking factor for General Index with previous base 2001=100	सामान्य General		खाद्य एवं पेय Food & Beverages	
			नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा HARYANA						
24	फरीदाबाद Faridabad	2.57	137.7	137.3	132.9	131.7
25	गुरुग्राम Gurugram	N	141.4	139.8	140.8	136.9
26	यमुनानगर Yamunanagar	2.78	142.7	143.2	148.2	149.0
हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH						
27	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	2.46	133.4	131.8	136.5*	132.4
जम्मू एवं कश्मीर JAMMU & KASHMIR						
28	जम्मू व कश्मीर Jammu & Kashmir	2.55	144.2	142.9	147.6	144.0
झारखंड JHARKHAND						
29	बोकारो Bokaro	2.78	133.4	132.6	141.1	139.1
30	धनबाद झरिया Dhanbad-Jharia	3.29	144.0	143.0	147.1	144.3
31	जमशेदपुर Jamshedpur	3.24	152.9	151.8	159.9	156.1
32	रामगढ़ Ramgarh	N	143.3	143.7	148.0	148.9
कर्नाटक KARNATAKA						
33	बेलगाम Belgaum	2.86	140.5*	141.6	140.2	142.8
34	बेंगलुरु Bengaluru	2.75	134.2	133.8	145.3	144.3
35	चिकमंगलूर Chikmanglur	N	132.8	132.6	144.8	144.2
36	दवनगिरी Davanagere	N	146.2	144.4	148.1	144.6
37	हुबली-धारवाड़ Hubli-Dharwar	3.10	135.9	136.1	140.1	140.5*
38	मरकारा कोडागु Mercara-Kodagu	2.97	136.3	135.4	143.7	141.3
39	मैसूर Mysore	2.92	140.2	141.2	151.3	153.6
केरल KERALA						
40	एरनाकुलम/अलवाई Ernakulam/Alwaye	2.84	138.7	138.9	137.2	137.5*
41	इदुक्की Idukki	N	141.1	141.8	139.1	140.6
42	कोललम Kollam	3.21	135.8	136.0	129.9	130.2
मध्यप्रदेश MADHYA PRADESH						
43	भोपाल Bhopal	3.11	135.8	135.4	147.0	145.6
44	छिंदवाड़ा Chhindwara	2.94	140.3	139.6	145.5	143.7
45	इन्दौर Indore	2.70	133.8	131.9	147.5*	142.1
46	जबलपुर Jabalpur	3.00	141.3	140.8	141.4	140.0

* दूसरे दशमलव बिन्दु से राउन्ड हुआ है/Rounded up from second decimal place

पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य Pan, Supari, Tobacco and Intoxicants		वस्त्र एवं जूते Clothing & Footwear		आवास Housing		ईंधन एवं प्रकाश Fuel & Light		विविध Misc.	
नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023	नवम्बर/Nov. 2023	दिसम्बर/Dec. 2023
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
167.2	167.2	135.1	135.1	129.9	129.9	141.2	141.2	149.3	149.3
133.5	133.7	141.1	141.1	133.7	133.7	146.6	146.6	147.2	147.3
171.4	171.4	170.0	174.5	133.4	133.4	121.2	121.2	140.8	140.9
161.3	161.3	125.7	125.7	131.1	131.1	127.4	127.4	130.9	131.0
152.9	152.9	117.5*	118.3	143.0	143.0	157.3	157.3	142.8	142.9
176.2	176.2	135.1	135.1	127.0	127.0	132.4	132.4	126.0	126.0
178.3	178.3	158.2	158.2	163.4	163.4	126.1	126.1	133.8	133.8
432.8	432.8	154.4	154.4	156.8	156.8	93.9	97.1	147.2	147.4
179.7	179.7	160.3	160.3	151.4	151.4	116.9	116.9	131.3	131.3
151.5	156.9	139.0	139.0	147.2	147.2	183.4	183.4	129.7	129.6
148.9	149.0	136.7	135.9	119.4	119.4	202.2	202.2	122.7	122.8
174.1	174.1	119.6	119.6	109.6	109.6	182.1	182.1	120.0	120.0
162.1	161.7	145.3	145.2	129.9	129.9	206.9	206.9	140.6	139.5
169.0	168.6	156.1	156.1	116.3	116.3	180.6	180.6	129.5*	129.5
148.8	151.5	130.3	130.3	114.0	114.0	190.5*	190.5*	124.8	124.8
174.4	183.5*	147.9	148.4	117.3	117.3	187.9	187.9	136.2	136.2
142.2	142.2	148.7	148.7	127.2	127.2	173.0	173.1	142.2	142.2
153.1	153.1	128.2	128.2	102.9	102.9	160.7	160.7	156.0	156.0
170.3	170.3	185.2	185.2	118.2	118.2	167.3	167.4	137.7	137.7
201.8	201.8	131.3	131.3	122.5	122.5	161.7	161.7	127.6	127.6
148.7	147.8	143.5*	143.5*	119.7	119.7	167.7	167.7	134.3	134.3
141.4	141.4	112.0	112.0	117.6	117.6	168.0	168.0	123.0	123.2
156.9	156.9	121.8	121.8	138.5	138.5	167.4	167.4	141.1	141.1

तालिका अ.1.1.2 जारी / Table A.1.1.2 Contd.

क्र. सं. Sl. No.	राज्य/संघ राज्य/केन्द्र State/Union Territory/ Centre	सम्पर्क कारक Linking factor for General Index with previous base 2001=100	सामान्य General		खाद्य एवं पेय Food & Beverages	
			नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023
1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र MAHARASHTRA						
47	मुम्बई Mumbai	2.91	129.3	128.9	137.6	136.2
48	नागपुर Nagpur	3.60	140.6	140.6	143.5*	143.5
49	नासिक Nasik	3.42	133.8	133.9	145.7	145.8
50	पुणे Pune	3.22	127.3	127.1	133.8	133.1
51	शोलापुर Solapur	3.10	143.2	144.7	140.0	143.3
52	ठाणे Thane	N	129.7	130.6	134.3	136.3
मेघालय MEGHALAYA						
53	शिलांग Shillong	N	148.3	147.2	143.7	141.0
ओडिशा ODISHA						
54	अंगुल-तलचर Angul-Talcher	2.88	150.5	150.1	156.3	155.1
55	कटक Cuttack	N	153.4	153.3	145.4	145.2
56	क्योंझर Keonjhar	N	147.2	146.4	155.0	153.2
पुडुचेरी PUDUCHERRY						
57	पुडुचेरी Puducherry	2.88	153.3	154.6	153.3	156.2
पंजाब PUNJAB						
58	अमृतसर Amritsar	2.98	135.9	133.1	152.7	144.4
59	जालंधर Jalandhar	2.84	145.3	142.7	154.5	148.9
60	लुधियाना Ludhiana	2.62	146.1	142.9	153.8	146.6
61	संगरूर Sangrur	N	138.6	138.8	161.5	162.0
राजस्थान RAJASTHAN						
62	अलवर Alwar	N	127.4	126.0	136.1	132.8
63	भीलवाड़ा Bhilwara	2.71	131.2	131.2	136.6	135.9
64	जयपुर Jaipur	2.89	124.4	124.2	144.2	143.8
तमिलनाडु TAMIL NADU						
65	चेन्नई Chennai	2.50	136.1	136.9	151.9	153.0
66	कोयम्बटूर Coimbatore	2.60	139.0	134.3	158.7	146.9
67	कुनूर Coonoor	2.96	137.2	138.0	153.5	155.2
68	मदुरई Madurai	2.69	143.2	144.5*	148.2	151.4
69	सेलम Salem	2.69	138.7	137.3	150.3	146.5*
70	तिरुनेल्वेलि Tirunelveli	N	153.1	154.5*	161.3	164.6
71	विरुधु नगर Virudhu Nagar	N	144.6	143.8	148.4	146.9

* दूसरे दशमलव बिन्दु से राउन्ड हुआ है/Rounded up from second decimal place

पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य Pan. Supari, Tobacco and Intoxicants		वस्त्र एवं जूते Clothing & Footwear		आवास Housing		ईंधन एवं प्रकाश Fuel & Light		विविध Misc.	
नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142.9	142.9	129.7	129.7	121.3	121.3	171.7	171.7	115.6	115.9
158.2	158.2	135.4	135.4	144.4	144.4	181.5*	181.5*	125.7	125.7
137.9	137.9	156.2	156.2	120.8	120.8	181.6	181.6	114.3	114.3
167.7	166.1	106.6	106.6	111.2	111.2	190.8	190.8	124.9	124.9
144.3	144.3	139.4	139.4	159.1	159.1	184.5*	184.5*	127.8	127.8
143.0	148.4	148.2	148.2	113.8	113.8	161.9	161.9	124.5	124.8
133.9	133.9	146.4	146.4	137.0	137.0	163.3	163.3	160.0	160.0
144.3	144.3	157.8	157.8	149.3	149.3	179.4	179.4	137.9	138.0
178.6	179.0	160.1	160.1	144.9	144.9	200.3	200.3	158.2	158.2
156.5	156.5	129.4	129.4	132.6	132.6	180.5	180.5	139.2	139.2
165.8	169.2	173.3	171.7	112.8	112.8	209.6	209.6	159.8	159.9
126.9	126.9	146.6	146.6	126.6	126.6	83.1	83.1	132.3	134.1
117.4	117.4	203.0	203.0	128.8	128.8	86.9	86.9	151.1	151.2
160.3	160.3	157.3	157.8	143.0	143.0	101.6	101.6	144.0	144.0
146.5	146.5	135.4	135.4	117.4	117.4	80.2	80.2	142.0	142.0
142.7	142.7	123.0	123.0	114.1	114.1	118.8	118.8	125.1	125.2
139.5	133.7	134.9	134.9	117.3	117.3	95.7	96.5*	136.5	137.8
117.7	117.7	136.3	136.3	116.8	116.8	73.7	73.7	119.0	119.0
152.2	152.5	121.9	123.0	106.4	106.4	133.8	133.8	138.9	139.8
142.5*	142.5*	128.5	128.5	109.4	109.4	181.1	181.1	128.7	128.7
147.7	147.7	137.1	137.1	105.5*	105.5*	142.4	142.4	125.9	126.1
149.8	149.8	137.9	137.9	112.1	112.1	173.1	173.1	145.5	145.2
143.2	143.2	135.6	135.6	125.8	125.8	164.0	164.0	125.1	125.8
116.7	113.8	177.3	177.3	110.1	110.1	191.5	191.5	162.0	162.0
158.5	158.5	154.1	154.1	117.2	117.2	169.2	169.2	137.4	137.5*

तालिका अ.1.1.2 समाप्त / Table A.1.1.2 Concltd.

क्र. सं. Sl. No.	राज्य/संघ राज्य/केन्द्र State/Union Territory/ Centre	सम्पर्क कारक Linking factor for General Index with previous base 2001=100	सामान्य General		खाद्य एवं पेय Food & Beverages	
			नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023
1	2	3	4	5	6	7
तेलंगाना TELANGANA						
72	हैदराबाद Hyderabad	2.44	137.1	137.6	139.8	141.2
73	मांचेरीआल Mancheriyal	N	150.2	150.3	149.6	149.8
74	वारंगल Warangal	2.97	145.1	144.8	144.6	143.8
त्रिपुरा TRIPURA						
75	त्रिपुरा Tripura	2.43	141.2	140.6	134.2	131.7
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH						
76	आगरा Agra	3.33	143.4	140.9	147.0	140.8
77	गाजियाबाद/गौ. बु. न. Ghaziabad/G.B. Nagar	3.00	142.1	140.9	143.1	140.1
78	कानपुर Kanpur	3.15	141.3	140.6	143.1	140.5
79	लखनऊ Lucknow	3.05	146.9	145.3	146.6	142.9
80	वाराणसी Varanasi	3.03	138.6	137.6	133.2	130.6
उत्तराखंड UTTARAKHAND						
81	उधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	N	146.6	145.5	138.6	135.5
पश्चिम बंगाल WEST BENGAL						
82	दार्जिलिंग Darjeeling	2.53	127.3	128.1	131.9	133.7
83	दुर्गापुर Durgapur	2.92	142.3	142.1	160.8	160.2
84	हल्दिया Haldia	3.55	126.2	125.9	131.4	130.6
85	हावड़ा Howrah	2.58	141.0	140.6	136.4	134.9
86	जलपाईगुड़ी Jalpaiguri	2.52	140.3	139.1	150.1	147.9
87	कोलकाता Kolkata	2.46	141.1	141.3	130.9	131.4
88	रानीगंज Raniganj	2.57	143.4	143.0	136.8	136.1

* दूसरे दशमलव बिन्दु से राउन्ड हुआ है / Rounded up from second decimal place

पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य Pan. Supari, Tobacco and Intoxicants		वस्त्र एवं जूते Clothing & Footwear		आवास Housing		ईंधन एवं प्रकाश Fuel & Light		विविध Misc.	
नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023	नवम्बर/ Nov. 2023	दिसम्बर/ Dec. 2023
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
190.2	190.2	153.9	153.9	116.5	116.5	187.2	186.5*	132.6	132.6
145.7	145.7	153.8	153.8	115.8	115.8	155.9	155.9	157.1	157.1
144.6	144.6	145.4	145.6	104.0	104.0	171.2	169.0	159.1	159.2
168.5	170.2	123.2	123.3	110.3	110.3	225.7	229.4	130.9	132.6
144.6	144.6	124.3	124.3	134.3	134.3	158.8	158.8	142.6	142.6
127.6	127.6	142.8	142.9	146.9	146.9	170.2	170.2	131.2	131.3
137.5	136.8	157.5*	157.5*	144.1	144.1	157.8	157.8	132.3	132.9
122.6	121.3	147.3	147.3	139.3	139.3	160.2	160.2	149.5	149.4
146.6	146.6	159.9	159.9	151.4	151.4	170.1	170.1	129.3	129.3
162.8	162.8	131.3	131.3	144.8	144.8	179.4	179.4	152.4	152.5*
257.1	258.2	123.2	123.9	111.1	111.1	126.6	125.3	124.2	124.1
167.5	167.5	149.8	149.8	125.9	125.9	152.8	152.8	123.5*	123.5
151.1	151.1	111.6	111.6	130.9	130.9	152.6	152.6	115.5	115.6
155.9	157.1	114.1	114.2	145.2	145.2	207.0	207.5*	130.8	131.3
237.0	236.0	129.6	129.3	106.5	106.5	142.8	142.7	152.3	152.3
181.6	181.7	127.3	127.5*	170.8	170.8	200.4	199.1	121.9	122.1
155.6	155.6	120.3	120.3	141.5	141.5	157.4	153.9	151.0	151.0

N- आधार 2016=100 पर नई श्रृंखला में नया केन्द्र /New Centre in the New Series on base: 2016=100.

1.2 कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1.2 Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers

तालिका अ.1.2.1 (अ) - श्रम ब्यूरो की कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला

Table A.1.2.1 (a) - Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Agricultural

क्र. सं. Sl.N o.	राज्य State	सामान्य सूचकांक हेतु सम्पर्क कारक Linking factor for General Index ^a	सामान्य सूचकांक General Index		खाद्य सूचकांक Food Index	
			November नवम्बर-	December दिसम्बर-	November नवम्बर-	December दिसम्बर-
			2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	4.84	1440	1457	1440	1465
2	असम Assam	b	1124	1120	1055	1049
3	बिहार Bihar	6.22	1063	1065	937	939
4	गुजरात Gujarat	5.34	1292	1294	1278	1281
5	हरियाणा Haryana	*	1338	1337	1372	1364
6	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	*	958	961	988	995
7	जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	5.98	1192	1191	1207	1206
8	कर्नाटक Karnataka	5.81	1423	1432	1444	1453
9	केरल Kerala	6.56	1239	1244	1211	1219
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	6.04	1118	1115	1052	1045
11	महाराष्ट्र Maharashtra	5.85	1402	1413	1465	1482
12	मणिपुर Manipur	*	1125	1130	997	998
13	मेघालय Meghalaya	*	1236	1237	1169	1169
14	ओड़िशा Odisha	6.05	1067	1076	921	931
15	पंजाब Punjab	c	1321	1314	1390	1367
16	राजस्थान Rajasthan	6.15	1317	1319	1332	1335
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	5.67	1453	1463	1351	1366
18	त्रिपुरा Tripura	*	1029	1033	1052	1030
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	6.60	1093	1088	1098	1089
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	5.73	1089	1083	970	962
अखिल भारत All-India		5.89	1253	1257	1201	1205

a = पुराने आधार (1960-61) के दिए गए माह के लिए सूचकांक को संबंधित सम्पर्क कारकों से उस माह के नए आधार (1986-87) के सूचकांक को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है जोकि केवल कृषि श्रमिकों पर लागू है / The indices for a given month of old base (1960-61) can be obtained by multiplying the index number of new base (1986-87) of that month by the relevant linking factors which are applicable to Agricultural Labourers only.

(समूह-वार एवं सामान्य) (आधार: 1986-87 = 100)

Labourers (Group-wise and General) (Base: 1986-87=100)

पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य सूचकांक Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Index		ईंधन एवं प्रकाश सूचकांक Fuel & Light Index		कपड़े, बिस्तरे एवं जूते सूचकांक Clothing, Bedding & Footwear Index		विविध सूचकांक Miscellaneous Index		क्र. सं. S.No.
November नवम्बर-	December दिसम्बर-	November नवम्बर-	December दिसम्बर-	November नवम्बर-	December दिसम्बर-	November नवम्बर-	December दिसम्बर-	
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
8	9	10	11	12	13	14	15	1
2146	2142	1076	1077	1391	1397	1427	1428	1
1760	1759	1336	1337	1212	1218	1018	1019	2
1434	1433	1820	1813	1476	1476	1139	1142	3
2040	2045	1419	1415	1105	1108	1174	1175	4
1574	1574	1751	1797	1361	1358	922	924	5
1582	1582	559	559	866	866	1090	1077	6
1963	1967	909	909	1151	1153	1310	1310	7
2311	2263	951	951	1147	1175	1507	1534	8
2334	2308	1132	1132	1059	1064	1181	1183	9
1884	1890	1415	1435	1186	1186	1042	1045	10
1872	1850	1232	1233	1093	1095	1292	1296	11
2393	2460	1975	1973	1131	1140	854	854	12
1296	1305	1702	1703	1307	1312	1294	1294	13
1847	1857	1846	1857	1487	1488	1221	1222	14
1842	1844	1409	1451	1213	1232	994	1004	15
2062	2062	1181	1188	1265	1267	1165	1165	16
2637	2613	1312	1310	1255	1256	1788	1791	17
1226	1244	1126	1432	1042	1019	797	819	18
1614	1621	1025	1027	1138	1142	978	980	19
1879	1887	1257	1261	1692	1684	1483	1483	20
2020	2011	1307	1312	1268	1273	1281	1285	

b & c = असम तथा पंजाब के लिए सम्पर्क कारकों को प्राप्त करने हेतु कृपया इंडियन लेबर जर्नल का फरवरी, 1996 अंक में प्रकाशित लेख देखें / To obtain linking factors for Assam and Punjab, please refer article in February, 1996 issue of the Indian Labour Journal.

* = सूचकांकों को पहली बार नवंबर, 1995 से संकलित एवं प्रकाशित किया गया / Indices compiled and published for the first time w.e.f. November, 1995.

तालिका अ.1.2.1 (ब) - श्रम ब्यूरो की ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की श्रृंखला
Table A.1.2.1 (b) – Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Rural

क्र. सं. Sl.No.	राज्य State	सामान्य सूचकांक General Index		खाद्य सूचकांक Food Index		पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक द्रव्य सूचकांक Pan, Supari, Tobacco & Intoxicants Index	
		November	December	November	December	November	December
		नवम्बर- 2023	दिसम्बर- 2023	नवम्बर- 2023	दिसम्बर- 2023	नवम्बर- 2023	दिसम्बर- 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1439	1454	1438	1462	2143	2139
2	असम Assam	1144	1139	1085	1077	1736	1735
3	बिहार Bihar	1074	1075	934	937	1451	1450
4	गुजरात Gujarat	1291	1292	1284	1285	2013	2018
5	हरियाणा Haryana	1336	1334	1384	1375	1661	1662
6	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	1015	1018	1048	1054	1751	1751
7	जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	1207	1206	1206	1204	2130	2136
8	कर्नाटक Karnataka	1417	1429	1424	1436	2327	2278
9	केरल Kerala	1247	1252	1211	1219	2328	2302
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	1168	1165	1057	1051	1873	1879
11	महाराष्ट्र Maharashtra	1399	1408	1437	1450	1889	1867
12	मणिपुर Manipur	1134	1139	1000	1001	2386	2454
13	मेघालय Meghalaya	1224	1225	1161	1161	1309	1318
14	ओडिशा Odisha	1070	1078	925	934	1852	1862
15	पंजाब Punjab	1331	1334	1390	1368	1807	1809
16	राजस्थान Rajasthan	1295	1298	1316	1319	2017	2017
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	1439	1448	1361	1375	2665	2641
18	त्रिपुरा Tripura	1068	1077	1063	1041	1260	1276
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	1099	1097	1102	1097	1591	1596
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	1109	1105	976	968	1883	1890
अखिल भारत All-India		1262	1267	1206	1210	2030	2020

(समूहवार और सामान्य) (आधार: 1986-87 = 100)

Labourers (Group wise and General) (Base: 1986-87=100)

ईंधन एवं प्रकाश सूचकांक Fuel & Light Index		कपड़े, बिस्तरे एवं जूते सूचकांक Clothing, Bedding & Footwear Index		विविध सूचकांक Miscellaneous Index		क्र. सं. Sl.No.
November नवम्बर- 2023	December दिसम्बर- 2023	November नवम्बर- 2023	December दिसम्बर- 2023	November नवम्बर- 2023	December दिसम्बर- 2023	
9	10	11	12	13	14	1
1067	1068	1387	1390	1436	1438	1
1353	1354	1206	1211	992	992	2
1821	1815	1466	1467	1151	1154	3
1422	1417	1126	1129	1164	1165	4
1748	1794	1269	1265	920	922	5
579	579	1010	1008	1015	1004	6
910	910	1301	1305	1221	1220	7
959	959	1182	1214	1577	1604	8
1125	1125	1116	1120	1238	1241	9
1418	1439	1456	1456	1086	1089	10
1240	1241	1268	1273	1326	1334	11
1980	1978	1156	1166	838	838	12
1699	1700	1111	1114	1311	1311	13
1846	1858	1450	1451	1222	1223	14
1400	1442	1304	1359	1001	1011	15
1162	1170	1225	1227	1157	1158	16
1300	1298	1208	1210	1609	1611	17
1099	1415	1017	1026	1044	1090	18
1027	1029	1239	1241	924	926	19
1305	1309	1681	1695	1495	1497	20
1299	1304	1317	1325	1285	1289	

तालिका अ.1.2.2 (अ) कृषि श्रमिकों के लिए चयनित वस्तुओं की राज्य-वार मासिक उपभोक्ता
Table A.1.2.2 (a) - State-wise monthly consumer prices of selected articles of Agricultural

क्र. सं. Sl. No.	मद Item	इकाई Unit	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	असम Assam	बिहार Bihar	गुजरात Gujarat
1	2	3	4	5	6	7
1.	चावल Rice	Kg.	25.33	20.18	12.90	3.64
2.	आटा Wheat:		-	-		-
	(अ) (a) गेहूँ साबुत Wheat Whole	Kg.	-	-	3.79	2.00
	(ब) (b) गेहूँ आटा Wheat Atta	Kg.	-	38.02	29.94	36.87
3.	ज्वार Jowar	Kg.	46.67	-	-	-
4.	बाजरा Bajra:		-	-	-	-
	(अ) (a) साबुत बाजरा Bajra whole	Kg.	36.07	-	-	26.25
	(ब) (b) बाजरे का आटा Bajra Atta	Kg.	-	-	-	30.77
5.	मक्का Maize:		-	-	-	-
	(अ) (a) साबुत मक्का Maize whole	Kg.	-	-	21.52	27.61
	(ब) (b) मक्के का आटा Maize Atta	Kg.	-	-	-	43.74
6.	रागी Ragi	Kg.	40.89	-	-	-
7.	अरहर दाल Arhar Dal	Kg.	169.20	149.68	161.63	156.39
8.	मूँगफली का तेल Groundnut Oil	Litre	161.35	-	-	193.75
9.	सरसों का तेल Mustard Oil	Litre	-	163.92	132.17	
10.	बक्रे/भेड़ का मांस Goat Meat/ Mutton	Kg.	688.33	656.79	661.64	551.90
11.	ताजा मछली Fish Fresh	Kg.	179.95	511.75	221.16	174.22
12.	दूध Milk	Litre	54.68	64.19	47.47	61.39
13.	प्याज Onion	Kg.	47.78	56.59	40.94	49.29
14.	सूखी मिर्च Chillies Dry	100 Gms.	29.87	33.41	28.47	36.22
15.	आलू Potato	Kg.	32.74	23.87	17.07	24.75
16.	चीनी Sugar	Kg.	35.68	47.62	44.90	37.93
17.	गुड़ Gur	Kg.	54.73	67.78	50.15	56.67
18.	चाय पत्ती Tea Leaf	100 Gms.	73.86	30.05	34.88	31.33
19.	जलाऊ लकड़ी Firewood	40 Kg.	191.31	183.94	330.99	211.17
20.	मिट्टी का तेल Kerosene Oil	Litre	21.05	61.24	75.19	63.58

कीमतेँ दिसम्बर, 2023 माह के लिए
Labourers for the month of December, 2023

हरियाणा Haryana	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	कर्नाटक Karnataka	केरल Kerala	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	क्र. सं. Sl. No.
8	9	10	11	12	13	1
35.26	27.85	33.37	10.30	32.08	17.97	1.
-	-	-	-	-	-	2.
-	-	-	-	2.91	11.94	(अ) (a)
27.78	12.02	33.58	46.85	52.50	31.57	(ब) (b)
-	-	-	37.32	-	29.53	3.
-	-	-	-	-	-	4.
-	-	-	-	-	-	(अ) (a)
26.44	-	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	-	-	-	-	5.
27.00	-	28.27	-	-	24.57	(अ) (a)
-	28.00	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	-	34.46	-	-	6.
162.63	155.71	-	178.09	154.88	162.52	7.
-	-	-	149.62	-	190.40	8.
122.41	146.44	147.65	-	-	129.05	9.
600.51	510.00	587.99	634.10	733.40	574.91	10.
195.00	206.00	345.00	269.95	114.86	183.15	11.
66.91	54.11	46.33	45.84	55.95	50.34	12.
45.27	46.67	49.77	41.86	88.29	38.39	13.
36.94	39.44	48.03	30.68	30.78	29.92	14.
18.14	19.44	23.06	30.33	35.99	18.98	15.
18.27	31.04	44.57	43.41	43.24	37.18	16.
48.45	49.67	53.60	50.48	56.47	46.85	17.
31.27	32.78	45.79	43.04	24.55	28.62	18.
371.10	N.A.	304.37	132.92	148.34	226.30	19.
16.42	28.35	14.46	31.92	48.48	63.46	20.

तालिका अ.1.2.2 (अ) समाप्त / Table A.1.2.2 (a) Concl'd.

क्र. सं. Sl. No.	मद Item	इकाई Unit	महाराष्ट्र Maharashtra	मणिपुर Manipur	मेघालय Meghalaya	ओड़िशा Odisha
1	2	3	14	15	16	17
1.	चावल Rice	Kg.	12.65	7.81	18.84	21.53
2.	आटा Wheat:					
	(अ) (a) गेहूँ साबुत Wheat Whole	Kg.	11.87	-	-	-
	(ब) (b) गेहूँ आटा Wheat Atta	Kg.	-	-	35.11	10.35
3.	ज्वार Jowar	Kg.	34.55	-	-	-
4.	बाजरा Bajra:					
	(अ) (a) साबुत बाजरा Bajra whole	Kg.	30.10	-	-	-
	(ब) (b) बाजरे का आटा Bajra Atta	Kg.	-	-	-	-
5.	मक्का Maize:					
	(अ) (a) साबुत मक्का Maize whole	Kg.	-	-	-	-
	(ब) (b) मक्के का आटा Maize Atta	Kg.	-	-	-	-
6.	रागी Ragi	Kg.	-	-	-	36.35
7.	अरहर दाल Arhar Dal	Kg.	167.43	137.25	112.50	159.99
8.	मूँगफली का तेल Groundnut Oil	Litre	161.49	-	-	89.74
9.	सरसों का तेल Mustard Oil	Litre	-	198.33	171.33	133.82
10.	बकरे/भेड़ का मांस Goat Meat/ Mutton	Kg.	634.71	-	-	702.75
11.	ताजा मछली Fish Fresh	Kg.	267.18	302.22	236.67	184.51
12.	दूध Milk	Litre	61.97	60.56	73.33	44.96
13.	प्याज Onion	Kg.	45.57	57.22	47.33	47.09
14.	सूखी मिर्च Chillies Dry	100 Gms.	31.06	30.22	27.78	29.54
15.	आलू Potato	Kg.	24.84	31.22	34.56	19.06
16.	चीनी Sugar	Kg.	35.63	56.11	47.67	44.71
17.	गुड़ Gur	Kg.	32.18	-	-	47.83
18.	चाय पत्ती Tea Leaf	100 Gms.	31.93	24.00	40.00	34.38
19.	जलाऊ लकड़ी Firewood	40 Kg.	215.53	328.33	276.67	215.78
20.	मिट्टी का तेल Kerosene Oil	Litre	29.59	29.28	63.14	70.66

- = मदें सूचकांक बास्केट में शामिल नहीं हैं / Items do not feature in the Index Basket.

N.A. = उपलब्ध नहीं / Not Available.

पंजाब Punjab	राजस्थान Rajasthan	तमिलनाडू Tamil Nadu	त्रिपुरा Tripura	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	पश्चिम बंगाल West Bengal	क्र. सं. Sl. No.
18	19	20	21	22	23	1
40.28	43.04	14.62	26.02	10.63	27.83	1.
	-	-	-	-	-	2.
22.25	3.28	-	-	2.26	-	(अ) (a)
29.12	31.39	60.36	38.25	25.37	16.16	(ब) (b)
-	32.00	41.76	-	30.12	-	3.
-	-	-	-	-	-	4.
-	23.16	38.72	-	24.85	-	(अ) (a)
-	-	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	-	-	-	-	5.
-	24.14	-	-	19.96	-	(अ) (a)
37.71	-	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	39.94	-	-	-	6.
-	164.78	181.06	-	150.13	156.22	7.
-	192.26	194.96	-	-	-	8.
140.39	128.66	-	150.56	132.75	129.75	9.
597.53	574.70	745.96	900.00	600.38	729.13	10.
-	-	223.14	350.00	179.38	212.68	11.
63.42	58.26	43.53	70.00	56.65	49.01	12.
43.79	45.61	72.57	58.89	45.77	47.16	13.
35.50	34.45	29.71	28.22	31.71	30.55	14.
17.46	20.25	39.58	23.11	15.77	20.97	15.
45.22	39.58	24.13	48.89	43.78	44.29	16.
50.87	47.55	59.16	63.89	47.13	51.24	17.
31.47	28.00	94.97	24.56	34.47	32.07	18.
319.56	203.86	239.59	330.00	256.10	215.53	19.
17.93	29.34	14.59	78.00	31.02	48.73	20.

टिप्पणी Note:- कीमतें दिये गए राज्य के प्रतिदर्श गांवों में चयनित दुकानों से लिए गए व्यक्तिगत उद्धरणों पर आधारित औसत कीमतें हैं तथा ये विनिर्देशन भिन्नता के कारण आपस में सही रूप से तुलनीय नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में उपयोग की गई सभी मदों की कीमतों का प्रकाशन संसाधनों की कमी के कारण नहीं किया जा रहा है / The prices are average prices based on individual quotations obtained from the selected outlets of the sample villages of a given State and are not comparable with each other due to their varying specifications. Besides, the prices of all the items utilised in compilation of C.P.I. Numbers for Agricultural Labourers are not being published due to resource constraints.

तालिका अ.1.2.2 (ब) ग्रामीण श्रमिकों के लिए चयनित वस्तुओं की राज्य-वार मासिक उपभोक्ता

Table A.1.2.2 (b) - State-wise monthly consumer prices of selected articles of Rural

क्र. सं. Sl. No.	मद Item	इकाई Unit	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	असम Assam	बिहार Bihar	गुजरात Gujarat
1	2	3	4	5	6	7
1.	चावल Rice	Kg.	25.25	20.73	13.47	3.67
2.	आटा Wheat:		-	-	-	-
	(अ) (a) गेहूँ साबुत Wheat Whole	Kg.	-	-	3.75	2.00
	(ब) (b) गेहूँ आटा Wheat Atta	Kg.	-	37.93	30.03	36.87
3.	ज्वार Jowar	Kg.	46.65	-	-	-
4.	बाजरा Bajra:		-	-	-	-
	(अ) (a) साबुत बाजरा Bajra whole	Kg.	36.03	-	-	26.31
	(ब) (b) बाजरे का आटा Bajra Atta	Kg.	-	-	-	30.56
5.	मक्का Maize:		-	-	-	-
	(अ) (a) साबुत मक्का Maize whole	Kg.	-	-	21.36	27.58
	(ब) (b) मक्के का आटा Maize Atta	Kg.	-	-	-	42.96
6.	रागी Ragi	Kg.	40.87	-	-	-
7.	अरहर दाल Arhar Dal	Kg.	169.21	149.95	162.01	156.33
8.	मूँगफली का तेल Groundnut Oil	Litre	161.18	-	-	193.67
9.	सरसों का तेल Mustard Oil	Litre	-	163.86	132.02	135.79
10.	बकरे/भेड़ का मांस Goat Meat/ Mutton	Kg.	688.79	654.25	664.06	558.51
11.	ताजा मछली Fish Fresh	Kg.	180.33	522.64	218.78	174.60
12.	दूध Milk	Litre	54.45	64.27	47.40	61.29
13.	प्याज Onion	Kg.	47.78	56.58	40.98	49.14
14.	सूखी मिर्च Chillies Dry	100 Gms.	29.87	33.88	28.48	36.19
15.	आलू Potato	Kg.	32.71	23.91	17.12	24.75
16.	चीनी Sugar	Kg.	36.35	47.67	44.90	37.79
17.	गुड़ Gur	Kg.	54.68	67.65	50.17	56.71
18.	चाय पत्ती Tea Leaf	100 Gms.	73.34	29.64	34.66	31.28
19.	जलाऊ लकड़ी Firewood	40 Kg.	191.21	182.84	332.10	211.33
20.	मिट्टी का तेल Kerosene Oil	Litre	21.18	65.88	75.19	63.30

कीमतें दिसम्बर, 2023 माह के लिए

Labourers for the month of December, 2023

हरियाणा Haryana	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir	कर्नाटक Karnataka	केरल Kerala	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	क्र. सं. Sl. No.
8	9	10	11	12	13	1
35.30	27.38	30.79	11.51	31.94	17.71	1.
-	-	-	-	-	-	2.
-	-	-	-	2.86	13.38	(अ) (a)
27.78	14.66	33.44	46.77	52.38	31.59	(ब) (b)
-	-	-	37.35	-	29.39	3.
-	-	-	-	-	-	4.
-	-	-	-	-	-	(अ) (a)
26.66	-	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	-	-	-	-	5.
27.00	-	27.61	-	-	24.60	(अ) (a)
-	28.00	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	-	34.24	-	-	6.
162.86	155.71	-	178.13	155.65	161.70	7.
-	-	-	149.68	-	190.49	8.
122.64	146.44	147.38	-	-	129.34	9.
602.30	510.00	589.85	635.62	727.41	575.13	10.
195.00	206.00	345.00	271.51	115.04	183.29	11.
67.11	54.11	46.28	45.46	55.90	50.37	12.
45.28	46.67	49.95	41.86	88.40	38.75	13.
36.96	39.44	47.46	30.88	30.77	29.93	14.
18.14	19.44	23.63	30.42	35.88	19.05	15.
18.33	31.07	44.66	43.45	43.38	37.19	16.
48.55	49.67	53.24	50.44	56.24	46.82	17.
31.27	32.78	44.18	43.10	24.56	28.46	18.
371.11	N.A.	302.40	133.98	147.85	227.05	19.
16.44	28.35	14.90	32.06	48.56	63.48	20.

तालिका अ.1.2.2 (ब) समाप्त / Table A.1.2.2 (b) Concl'd.

क्र. सं. Sl. No.	मद Item	इकाई Unit	महाराष्ट्र Maharashtra	मणिपुर Manipur	मेघालय Meghalaya	ओड़िशा Odisha
1	2	3	14	15	16	17
1.	चावल Rice	Kg.	13.42	7.81	19.08	21.58
2.	आटा Wheat:		-	-	-	-
	(अ) (a) गेहूँ साबुत Wheat Whole	Kg.	13.16	-	-	-
	(ब) (b) गेहूँ आटा Wheat Atta	Kg.	-	-	35.11	10.52
3.	ज्वार Jowar	Kg.	34.34	-	-	-
4.	बाजरा Bajra:		-	-	-	-
	(अ) (a) साबुत बाजरा Bajra whole	Kg.	30.33	-	-	-
	(ब) (b) बाजरे का आटा Bajra Atta	Kg.	-	-	-	-
5.	मक्का Maize:		-	-	-	-
	(अ) (a) साबुत मक्का Maize whole	Kg.	-	-	-	-
	(ब) (b) मक्के का आटा Maize Atta	Kg.	-	-	-	-
6.	रागी Ragi	Kg.	-	-	-	36.22
7.	अरहर दाल Arhar Dal	Kg.	167.39	137.25	112.50	160.27
8.	मूँगफली का तेल Groundnut Oil	Litre	160.50	-	-	89.77
9.	सरसों का तेल Mustard Oil	Litre	-	198.33	171.33	133.99
10.	बकरे/भेड़ का मांस Goat Meat/ Mutton	Kg.	644.49	-	-	702.36
11.	ताजा मछली Fish Fresh	Kg.	270.82	302.22	236.67	184.56
12.	दूध Milk	Litre	62.87	60.56	73.33	45.34
13.	प्याज Onion	Kg.	45.64	57.22	47.33	47.11
14.	सूखी मिर्च Chillies Dry	100 Gms.	31.03	30.22	27.78	29.54
15.	आलू Potato	Kg.	24.87	31.22	34.56	19.10
16.	चीनी Sugar	Kg.	36.09	56.11	47.67	44.71
17.	गुड़ Gur	Kg.	32.42	-	-	47.80
18.	चाय पत्ती Tea Leaf	100 Gms.	31.31	24.00	40.00	34.33
19.	जलाऊ लकड़ी Firewood	40 Kg.	215.89	328.33	276.67	216.00
20.	मिट्टी का तेल Kerosene Oil	Litre	31.15	29.28	63.14	70.64

- = मदें सूचकांक बास्केट में शामिल नहीं हैं / Items do not feature in the Index Basket.

N.A. = उपलब्ध नहीं / Not Available.

पंजाब Punjab	राजस्थान Rajasthan	तमिलनाडू Tamil Nadu	त्रिपुरा Tripura	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	पश्चिम बंगाल West Bengal	क्र. सं. Sl. No.
18	19	20	21	22	23	1
40.29	44.19	15.25	26.27	9.83	27.74	1.
	-	-	-	-	-	2.
22.29	2.53	-	-	1.74	-	(अ) (a)
29.12	31.40	60.54	38.25	25.08	16.80	(ब) (b)
-	31.97	41.18	-	29.84	-	3.
-	-	-	-	-	-	4.
-	23.18	38.76	-	24.76	-	(अ) (a)
-	-	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	-	-	-	-	5.
-	24.03	-	-	19.90	-	(अ) (a)
37.86	-	-	-	-	-	(ब) (b)
-	-	39.90	-	-	-	6.
-	165.98	181.21	-	150.26	151.48	7.
-	190.06	195.75	-	-	-	8.
140.46	129.59	-	150.56	132.67	129.77	9.
598.14	573.70	746.85	900.00	599.32	729.18	10.
-	-	222.01	350.00	179.43	209.37	11.
63.30	58.33	43.65	70.00	56.73	49.06	12.
43.74	45.46	72.81	58.89	46.01	47.32	13.
35.51	34.41	29.76	28.22	31.66	30.62	14.
17.47	20.07	40.03	23.11	16.03	20.93	15.
45.23	40.51	24.26	48.89	43.75	44.24	16.
50.96	48.65	59.56	63.89	47.12	51.24	17.
31.45	27.78	93.61	24.56	35.03	31.97	18.
321.85	201.67	239.41	330.00	258.52	216.49	19.
17.79	29.25	14.59	78.00	30.84	48.71	20.

टिप्पणी Note:- कीमते दिये गए राज्य के प्रतिदर्श गांवों में चयनित दुकानों से लिए गए व्यक्तिगत उद्धरणों पर आधारित औसत कीमतें हैं तथा ये विनिर्देशन भिन्नता के कारण आपस में सही रूप से तुलनीय नहीं हैं । इसके अतिरिक्त ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में उपयोग की गई सभी मर्दों की कीमतों का प्रकाशन संसाधनों की कमी के कारण नहीं किया जा रहा है / The prices are average prices based on individual quotations obtained from the selected outlets of the sample villages of a given State and are not comparable with each other due to their varying specifications. Besides, the prices of all the items utilised in compilation of C.P.I. Numbers for Rural Labourers are not being published due to resource constraints.

2. मजदूरी एवं उपार्जन WAGES AND EARNINGS

तालिका अ.2.1 (अ) - दिसम्बर, 2023 के दौरान ग्रामीण भारत में कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक
Table A.2.1 (a) - Average Daily Wage Rates for Agricultural Occupations in Rural India

क्र. सं. Sl. No.	राज्य States	जुताई (हल/कुदाल) Ploughing/Tilling Workers			बुआई (रोपण / प्रतिरोपण / निराई आदि) Sowing (including Planting/ Transplanting/Weeding workers)		
		पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	589.53	@	-	505.07	387.31	-
2	असम Assam	414.32	@	-	383.61	312.22	-
3	बिहार Bihar	396.48	@	-	383.52	323.41	-
4	गुजरात Gujarat	325.00	288.00	-	287.00	280.17	-
5	हरियाणा Haryana	477.25	@	-	459.00	426.73	-
6	हि. प्रदेश Himachal Pradesh	@	-	-	462.00	@	-
7	जम्मू एवं कश्मीर J & K	687.00	-	-	590.71	@	-
8	कर्नाटक Karnataka	479.22	266.67	-	437.00	318.08	-
9	केरल Kerala	887.78	@	-	909.63	641.41	-
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	290.25	234.00	-	267.41	239.90	-
11	महाराष्ट्र Maharashtra	390.25	308.33	-	371.22	272.05	-
12	मणिपुर Manipur	351.43	-	-	333.89	303.13	-
13	मेघालय Meghalaya	368.50	204.00	-	342.33	209.89	-
14	ओड़िशा Odisha	336.36	285.65	-	341.38	299.14	-
15	पंजाब Punjab	444.00	@	-	428.50	373.67	-
16	राजस्थान Rajasthan	380.00	@	-	393.08	351.11	-
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	697.65	@	-	557.56	374.94	-
18	त्रिपुरा Tripura	320.00	-	-	320.00	-	-
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	342.14	310.00	-	352.17	313.80	@
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	419.37	@	-	337.01	287.68	-
	अखिल भारत All India	419.43	304.62	-	386.46	322.35	@

मजदूरी दरें (राज्यों एवं लिंग वार)
during December, 2023 (By States and Sex)

									(रुपयों में/ in Rupees)
कटाई/औसाई/तितुण Harvesting/Winnowing/ Threshing workers			चुनना/चयन करना (चाय, कपास, तंबाकू तथा अन्य नगदी फसलें) Picking Workers (including Tea, Cotton, Tobacco & other commercial crops)			बागवानी (नर्सरी उत्पादक सहित) Horticulture Workers (including Nursery growers)			क्र. सं. Sl. No.
पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
511.51	381.59	-	420.64	371.15	@	375.00	300.00	-	1
363.33	305.74	-	@	@	-	@	@	-	2
360.88	319.04	@	308.81	@	-	284.67	251.67	-	3
289.67	286.83	-	283.00	281.80	-	215.71	216.67	-	4
456.18	421.30	-	485.00	475.00	-	@	@	-	5
488.00	@	-	-	-	-	466.00	@	-	6
626.25	@	-	@	-	-	611.67	-	-	7
428.39	301.29	-	406.47	287.14	-	462.31	342.00	-	8
788.00	604.17	-	-	@	-	@	@	-	9
276.84	245.76	-	266.67	250.00	-	240.00	212.00	-	10
380.63	280.45	-	321.43	265.63	@	347.00	255.83	-	11
324.29	308.57	-	-	-	-	@	@	-	12
349.33	197.17	-	@	@	-	@	@	-	13
333.72	293.07	-	@	@	-	@	@	-	14
433.82	@	-	384.00	@	-	@	-	-	15
424.44	391.11	-	@	@	-	-	-	-	16
585.28	356.47	-	@	@	-	@	@	-	17
331.11	-	-	-	-	-	-	-	-	18
352.93	315.73	@	340.00	304.17	-	@	@	-	19
336.64	284.51	-	-	@	-	356.46	@	-	20
383.84	317.33	272.50	346.52	314.81	@	380.03	289.67	-	

तालिका अ.2.1 (अ) जारी / Table A.2.1 (a) Contd...

क्र. सं. Sl. No.	राज्य States	अंतर्देशीय मछुआरे Fishermen Inland			समुद्रतटीय/समुद्री मछुआरे Fishermen Costal/Deep Sea		
		पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children
1	2	18	19	20	21	22	23
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	@	@	-	-	-	-
2	असम Assam	-	-	-	-	-	-
3	बिहार Bihar	319.81	-	-	-	-	-
4	गुजरात Gujarat	@	-	-	-	-	-
5	हरियाणा Haryana	-	-	-	-	-	-
6	हि. प्रदेश Himachal Pradesh	-	-	-	-	-	-
7	जम्मू एवं कश्मीर J & K	-	-	-	-	-	-
8	कर्नाटक Karnataka	@	-	-	@	-	-
9	केरल Kerala	-	-	-	-	-	-
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	@	-	-	-	-	-
11	महाराष्ट्र Maharashtra	@	-	-	@	@	-
12	मणिपुर Manipur	-	-	-	-	-	-
13	मेघालय Meghalaya	-	-	-	-	-	-
14	ओड़िशा Odisha	224.00	-	-	@	-	-
15	पंजाब Punjab	-	-	-	-	-	-
16	राजस्थान Rajasthan	-	-	-	-	-	-
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	-	-	-	-	-	-
18	त्रिपुरा Tripura	-	-	-	-	-	-
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	-	-	-	-	-	-
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	520.73	-	-	@	-	-
	अखिल भारत All India	426.62	@	-	442.00	@	-

(रुपयों में/ in Rupees)									
लकड़हारा, लकड़ी चिराई व कटाई आदि Loggers and Wood Cutters			पशुपालन (मुर्गी व दुग्ध पालन, चरवाहा आदि) Animal husbandry workers: including Poultry workers, dairy workers & Herdsman			पैकिंग/बंधाई कृषि से संबन्धित Packaging Labourers			क्र. सं. Sl. No.
पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	1
455.01	-	-	306.67	@	-	@	@	-	1
377.00	-	-	293.33	-	-	354.00	@	-	2
438.56	-	-	286.99	271.25	-	300.00	314.00	-	3
344.62	@	-	241.36	@	-	238.57	@	-	4
514.00	-	-	@	@	-	@	@	-	5
@	-	-	@	@	-	@	@	-	6
617.37	-	-	554.44	-	-	636.67	-	-	7
506.67	-	-	407.00	315.71	-	411.67	@	-	8
1085.52	-	-	600.68	-	-	-	-	-	9
241.05	@	-	219.84	190.38	137.65	213.33	202.00	@	10
422.59	@	-	306.67	267.00	-	303.57	241.67	-	11
@	-	-	330.00	-	-	@	-	-	12
@	-	-	295.13	@	-	@	-	-	13
290.56	-	-	230.44	177.50	-	@	-	-	14
@	-	-	343.50	@	-	395.00	@	-	15
391.67	-	-	@	@	-	-	-	-	16
585.78	@	-	641.81	@	-	@	@	-	17
424.44	-	-	283.33	-	-	-	-	-	18
398.13	-	-	329.87	@	-	304.17	273.00	@	19
478.49	-	-	304.54	263.07	@	388.18	372.90	-	20
469.59	284.81	-	308.63	244.48	139.47	360.97	304.53	@	

तालिका अ.2.1 (अ) समाप्त / Table A.2.1 (a) Concl'd.

(रुपयों में/ in Rupees)							
क्र. सं. Sl. No.	राज्य States	सामान्य कृषि श्रमिक (सिंचाई कर्मी सहित आदि) General Agricultural Labourers including Watering & Irrigation workers etc.			पौध संरक्षक (कीटनाशक, बीजोपचार आदि) Plant protection workers (applying pesticides, treating seeds, etc.)		
		पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children
1	2	33	34	35	36	37	38
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	444.96	321.06	@	676.01	@	-
2	असम Assam	374.21	331.85	-	@	@	-
3	बिहार Bihar	344.40	316.79	-	355.92	@	-
4	गुजरात Gujarat	260.26	261.47	-	246.67	-	-
5	हरियाणा Haryana	450.67	384.67	-	467.25	-	-
6	हि. प्रदेश Himachal Pradesh	506.00	@	-	@	-	-
7	जम्मू एवं कश्मीर J & K	566.00	@	-	@	-	-
8	कर्नाटक Karnataka	420.74	303.50	-	427.08	-	-
9	केरल Kerala	814.88	617.50	-	696.00	-	-
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	245.62	215.71	@	275.52	@	-
11	महाराष्ट्र Maharashtra	331.84	233.64	@	377.88	265.00	-
12	मणिपुर Manipur	@	-	-	@	-	-
13	मेघालय Meghalaya	326.83	203.17	-	-	-	-
14	ओडिशा Odisha	325.08	286.67	-	246.67	@	-
15	पंजाब Punjab	414.67	-	-	414.29	-	-
16	राजस्थान Rajasthan	388.82	342.14	-	330.56	@	-
17	तमिलनाडु Tamil Nadu	553.98	353.54	-	662.67	@	-
18	त्रिपुरा Tripura	337.22	-	-	-	-	-
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	335.85	288.81	257.67	397.50	@	-
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	335.32	315.13	-	413.46	276.12	-
अखिल भारत All India		378.14	301.63	241.30	422.95	296.87	-

- = यह दर्शाता है कि उस कार्य में श्रमिकों का विशेष वर्ग अर्थात् पुरुष/महिला/बच्चे, या तो उनकी अनुपलब्धता या व्यवसाय से संबंधित कार्य राज्य में आरम्भ नहीं किया गया था या राज्य में कार्य बेमौसमी था आदि के कारण, कार्यरत नहीं थे / Indicates that the particular category of workers, i.e. men/ women /children were not engaged in that operation either because of their non-availability; or the activity connected with the occupation was not undertaken in the State; or the activity was out of season in the State, etc.

@ = उद्धरणों की संख्या पाँच से कम है / Number of quotations are less than five.

तालिका अ.2.1 (ब) - दिसम्बर, 2023 के दौरान ग्रामीण भारत में गैर-कृषि व्यवसायों के लिए औसत दैनिक मजदूरी दरें (राज्यों एवं लिंग वार)

Table A.2.1 (b) - Average Daily Wage Rates for Non-agricultural Occupations in Rural India during December, 2023 (By States and Sex).

(रुपयों में/ in Rupees)

क्र. सं. Sl. No.	राज्य States	बढ़ई Carpenter			लोहार Blacksmith		
		पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	599.46	-	-	447.82	-	-
2	असम Assam	490.74	-	-	454.37	-	-
3	बिहार Bihar	518.42	-	-	443.08	-	-
4	गुजरात Gujarat	476.09	-	-	359.90	-	-
5	हरियाणा Haryana	686.50	-	-	605.67	-	-
6	हि. प्रदेश Himachal Pradesh	713.33	-	-	621.25	-	-
7	जम्मू एवं कश्मीर J & K	769.52	-	-	715.49	-	-
8	कर्नाटक Karnataka	548.29	-	-	396.84	-	-
9	केरल Kerala	995.00	-	-	783.45	-	-
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	385.42	-	-	360.31	-	-
11	महाराष्ट्र Maharashtra	455.29	-	-	418.71	-	-
12	मणिपुर Manipur	420.63	-	-	389.38	-	-
13	मेघालय Meghalaya	420.38	-	-	410.50	-	-
14	ओडिशा Odisha	497.82	-	-	342.14	-	-
15	पंजाब Punjab	601.07	-	-	551.67	-	-
16	राजस्थान Rajasthan	562.78	-	-	441.67	@	-
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	787.84	-	-	659.74	-	-
18	त्रिपुरा Tripura	420.00	-	-	294.44	-	-
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	553.04	-	-	492.50	-	-
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	433.14	-	-	383.05	-	-
	अखिल भारत All India	547.15	-	-	449.55	@	-

तालिका अ.2.1 (ब) जारी / Table A.2.1 (b) Contd...

क्र. सं. Sl. No.	राज्य States	राजमिस्त्री Mason			बुनकर/जुलाहे Weavers		
		पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children
1	2	9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	746.21	@	-	@	-	-
2	असम Assam	522.57	-	-	@	-	-
3	बिहार Bihar	551.24	-	-	@	-	-
4	गुजरात Gujarat	535.50	-	-	@	-	-
5	हरियाणा Haryana	707.33	-	-	@	-	-
6	हि. प्रदेश Himachal Pradesh	694.44	-	-	@	-	-
7	जम्मू एवं कश्मीर J & K	776.50	-	-	@	-	-
8	कर्नाटक Karnataka	627.35	@	-	425.00	@	@
9	केरल Kerala	989.05	-	-	-	@	-
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	452.79	-	-	@	-	-
11	महाराष्ट्र Maharashtra	583.98	@	-	-	-	-
12	मणिपुर Manipur	441.88	@	-	@	320.00	-
13	मेघालय Meghalaya	462.56	-	-	@	@	-
14	ओड़िशा Odisha	518.43	-	-	@	-	-
15	पंजाब Punjab	619.73	-	-	@	-	-
16	राजस्थान Rajasthan	685.24	-	-	-	-	-
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	840.35	-	-	@	-	-
18	त्रिपुरा Tripura	453.33	-	-	350.00	-	-
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	616.92	-	-	@	-	-
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	452.07	@	-	264.19	@	-
	अखिल भारत All India	607.54	400.93	-	373.71	272.33	@

(रुपयों में/ in Rupees)

बीड़ी कर्मकार Beedi Makers			बांस/बैंत टोकरी कर्मकार Bamboo, Cane Basket Weavers			हस्तशिल्प कर्मकार Handicraft Workers			क्र. सं. Sl. No.
पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	1
-	201.33	-	@	215.14	-	@	-	-	1
-	-	-	371.19	-	-	-	@	-	2
@	@	-	303.94	@	-	@	@	-	3
@	@	-	@	@	-	@	@	-	4
@	-	-	@	@	-	@	-	-	5
-	-	-	@	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	@	-	-	7
@	@	-	365.00	@	-	458.33	@	-	8
@	@	-	@	-	-	@	-	-	9
@	@	-	244.38	235.63	-	@	-	-	10
-	-	-	345.00	370.00	@	@	-	-	11
-	-	-	@	325.00	-	@	@	-	12
-	-	-	@	-	-	@	@	-	13
@	@	-	@	@	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	@	@	-	-	-	-	16
@	@	-	@	-	-	@	-	-	17
294.44	-	-	383.33	-	-	350.00	-	-	18
@	@	-	@	@	-	-	-	-	19
185.90	191.00	-	279.65	248.84	-	350.48	@	-	20
246.62	185.89	-	325.67	270.59	@	421.19	288.30	-	

तालिका अ.2.1 (ब) जारी / Table A.2.1 (b) Contd...

क्र. सं. Sl. No.	राज्य States	नलसाज Plumbers			बिजली मिस्त्री Electrician		
		पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children
1	2	24	25	26	27	28	29
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	592.15	-	-	594.73	-	-
2	असम Assam	503.02	-	-	507.29	-	-
3	बिहार Bihar	476.16	-	-	479.66	-	-
4	गुजरात Gujarat	439.09	-	-	399.72	-	-
5	हरियाणा Haryana	665.27	-	-	624.00	-	-
6	हि. प्रदेश Himachal Pradesh	697.78	-	-	653.75	-	-
7	जम्मू एवं कश्मीर J & K	732.67	-	-	725.00	-	-
8	कर्नाटक Karnataka	530.00	-	-	502.76	-	-
9	केरल Kerala	914.18	-	-	922.76	-	-
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	385.98	-	-	364.29	-	-
11	महाराष्ट्र Maharashtra	469.28	-	-	479.21	-	-
12	मणिपुर Manipur	@	-	-	392.86	-	-
13	मेघालय Meghalaya	@	-	-	@	-	-
14	ओड़िशा Odisha	433.83	-	-	412.50	-	-
15	पंजाब Punjab	633.54	-	-	626.89	-	-
16	राजस्थान Rajasthan	494.17	-	-	502.50	-	-
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	704.97	-	-	704.56	-	-
18	त्रिपुरा Tripura	420.00	-	-	400.00	-	-
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	521.21	-	-	513.42	-	-
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	503.80	-	-	542.53	-	-
	अखिल भारत All India	552.27	-	-	539.16	-	-

(रुपयों में/ in Rupees)						
निर्माण कार्य (सड़क, बांध, औद्योगिक एवं परियोजना निर्माण कार्य तथा कुआं खनन आदि) Construction Workers (for roads, dams, industrial & project construction work & well diggers)			हल्के मोटर वाहन एवं ट्रैक्टर चालक LMV & Tractors drivers			क्र. सं. Sl. No.
पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	
30	31	32	33	34	35	1
529.19	388.84	-	587.93	-	-	1
404.74	384.29	-	503.96	-	-	2
372.26	328.10	-	410.45	-	-	3
342.83	320.00	-	358.26	-	-	4
499.00	455.00	-	551.50	-	-	5
545.00	-	-	517.50	-	-	6
560.53	547.78	-	604.17	-	-	7
461.92	315.28	-	508.95	-	-	8
898.53	@	-	866.11	-	-	9
295.40	258.98	@	344.71	-	-	10
393.16	290.13	-	449.73	-	-	11
350.00	@	-	484.44	-	-	12
389.14	@	-	@	-	-	13
361.01	301.87	-	401.15	-	-	14
435.43	@	-	497.69	-	-	15
444.50	396.25	-	465.09	-	-	16
553.94	355.00	-	691.68	-	-	17
322.22	-	-	394.44	-	-	18
381.04	330.23	@	405.00	-	-	19
359.75	272.02	-	440.37	-	-	20
422.43	327.74	@	471.75	-	-	

तालिका अ.2.1 (ब) समाप्त / Table A.2.1 (b) Concl'd.

क्र. सं. Sl. No.	राज्य States	(रुपयों में/ in Rupees)					
		गैर- कृषि श्रमिक (पल्लेदार, भार वाहक आदि) Non-agricultural labourers (Including porters, loaders)			सफाई कर्मी Sweeping/ Cleaning Workers		
		पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children	पुरुष Men	महिला Women	बच्चे Children
1	2	36	37	38	39	40	41
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	408.78	287.25	-	340.80	214.69	-
2	असम Assam	372.22	@	-	335.00	@	-
3	बिहार Bihar	345.23	248.75	-	331.27	268.60	-
4	गुजरात Gujarat	286.75	275.00	-	210.28	216.67	-
5	हरियाणा Haryana	476.50	@	-	431.50	429.00	-
6	हि. प्रदेश Himachal Pradesh	452.22	@	-	@	@	-
7	जम्मू एवं कश्मीर J & K	544.44	-	-	@	@	-
8	कर्नाटक Karnataka	355.00	256.25	-	372.88	316.33	-
9	केरल Kerala	735.78	@	-	@	660.30	-
10	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	265.93	224.29	@	283.02	223.68	-
11	महाराष्ट्र Maharashtra	316.94	199.23	-	297.90	222.80	-
12	मणिपुर Manipur	@	@	-	@	@	-
13	मेघालय Meghalaya	320.13	-	-	-	-	-
14	ओड़िशा Odisha	321.98	274.55	-	225.71	@	-
15	पंजाब Punjab	400.57	-	-	296.00	231.25	-
16	राजस्थान Rajasthan	383.08	@	-	@	@	-
17	तमिलनाडू Tamil Nadu	530.86	354.26	-	343.04	296.11	-
18	त्रिपुरा Tripura	311.11	-	-	265.56	-	-
19	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	362.24	294.67	@	307.59	258.10	@
20	पश्चिम बंगाल West Bengal	356.16	245.71	-	375.83	289.95	-
	अखिल भारत All India	376.53	277.31	@	317.14	294.57	@

- = यह दर्शाता है कि उस कार्य में श्रमिकों का विशेष वर्ग अर्थात् पुरुष/महिला/बच्चे, या तो उनकी अनुपलब्धता या व्यवसाय से संबंधित कार्य राज्य में आरम्भ नहीं किया गया था या राज्य में कार्य बेमौसमी था आदि के कारण, कार्यरत नहीं थे / Indicates that the particular category of workers, i.e. men/ women /children were not engaged in that operation either because of their non-availability; or the activity connected with the occupation was not undertaken in the State; or the activity was out of season in the State, etc.

@ = उद्धरणों की संख्या पाँच से कम है / Number of quotations are less than five.

टिप्पण Note:- अखिल भारत स्तर पर औसत दैनिक मजदूरी दरों को सभी राज्यों की मजदूरी दरों के कुल योग को उद्धरणों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया गया है / The average daily wage rates at all-India level are derived by dividing the sum total of wages by number of quotations of all the states taken together.

3. औद्योगिक विवाद INDUSTRIAL DISPUTES

तालिका अ.3.1 जनवरी से दिसम्बर, 2023 (अनंतिम) के दौरान क्षेत्र-वार विवादों की संख्या, उनमें शामिल श्रमिकों की संख्या एवं औद्योगिक विवादों के कारण कार्य दिवसों की हानि
Table A.3.1 Sector/Sphere-wise Number of Disputes, Workers involved and Mandays Lost due to Industrial Disputes from January to December, 2023 (P)

क्षेत्र / मद Sphere/ Item	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector			निजी क्षेत्र Private Sector			कुल Total		
	संख्या/Number of			संख्या/Number of			संख्या/Number of		
	विवाद Dis- putes	विवाद में शामिल श्रमिक Workers Involved	कार्य दिवस हानि Mandays Lost	विवाद Dis- putes	विवाद में शामिल श्रमिक Workers Involved	कार्य दिवस हानि Mandays Lost	विवाद Disputes	विवाद में शामिल श्रमिक Workers Involved	कार्य दिवस हानि Mandays Lost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i) केंद्रीय क्षेत्र Central Sphere									
हड़ताल/ Strikes	7	5582	17110	7	5582	17110
तालाबंदी/ Lockouts
हड़ताल एवं तालाबंदी/ Strikes & Lockouts	7	5582	17110	7	5582	17110
(योग/Total-i)									
(ii) राज्य क्षेत्र State Sphere									
हड़ताल /Strikes	5	3834	38332	30	25481	435497	35	29315	473829
तालाबंदी / Lockouts	1	180	21600	1	85	20911	2	265	42511
हड़ताल एवं तालाबंदी/ Strikes & Lockouts	6	4014	59932	31	25566	456408	37	29580	516340
(योग/Total-ii)									
कुल योग Grand Total	13	9596	77042	31	25566	456408	44	35162	533450
(योग/Total-i+ii)									

(P) = अनंतिम एवं 31 जनवरी, 2024 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणी/स्पष्टीकरण के आधार पर / Provisional and based on the returns/clarifications received in the Bureau till 31st January, 2024.

.. = उपलब्ध नहीं है / Not available

तालिका अ.3.2 जनवरी से दिसम्बर 2023 के दौरान (अनंतिम) औद्योगिक विवाद (सभी हड़ताल एवं तालाबंदी)
Table A.3.2- Industrial Disputes (All Strikes and Lockouts) from January to December 2023 (P)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश State/Union Territory	संख्या/Number of		
	विवाद Disputes	विवाद में शामिल श्रमिक Workers Involved	कार्यदिवस हानि Mandays Lost
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh
असम Assam
बिहार Bihar
छत्तीसगढ़ Chhattisgarh
गोवा Goa
गुजरात Gujarat	11	4064	28147
हरियाणा Haryana	4	3001	53527
हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir
झारखंड Jharkhand
कर्नाटक Karnataka	1	266	1596
केरल Kerala
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh
महाराष्ट्र Maharashtra	6	959	63631
मणिपुर Manipur
मेघालय Meghalaya
मिजोरम Mizoram	#	#	#
नागालैंड Nagaland
ओड़िशा Odisha
पंजाब Punjab
राजस्थान Rajasthan	3	4790	7699
सिक्किम Sikkim	#	#	#
तमिल नाडु Tamil Nadu	17	21800	339808
तेलंगाना Telangana	2	282	39042
त्रिपुरा Tripura
उत्तराखण्ड Uttarakhand
उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल West Bengal
अंडेमान एवं निकोबार A & N Islands
चंडीगढ़ Chandigarh
दादरा एवं नगर हवेली D & N Haveli
दिल्ली Delhi
दमन एवं दीव Daman & Diu
लक्षद्वीप Lakshadweep
पुडुचेरी Puducherry
अखिल भारत All India	44	35162	533450

(P) = अनंतिम एवं 31 जनवरी, 2024 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणी / स्पष्टीकरण के आधार पर / Provisional and based on the returns/clarifications received in the Bureau till 31st January, 2024.

.. = उपलब्ध नहीं है / Not available

= औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कार्यान्वित किया जाना है / ID Act 1947 is to be implemented

खंड ब SECTION B

क्रमिक सांख्यिकी SERIAL STATISTICS

Notes

1. Prices and Price Indices

1.1 Industrial Workers' Consumer Price Index

B.1.1.1 *All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers* – The All India Consumer Price Index Numbers (General and Food) on base 2016=100 are being published since their first release with effect from September, 2020 index replacing the old series on base: 2001=100. The indices for the old base (2001=100) series can be derived by multiplying the 2016 series indices by the Linking Factors, which are 2.88 for the General index and 3.00 for the Food index. Similarly, the indices for 1982 series can be derived by multiplying the 2001 series indices by the Linking factors, which are 4.63 and 4.58 for General and Food group respectively. Further, the indices for the old base (1960=100) series can be derived by multiplying the 1982 series indices by the Linking Factors, which are 4.93 for the General index and 4.98 for the Food index. The Annual Average (Calendar year 2006 to 2022 as well as financial year 2006-07 to 2022-23) and monthly All India Index Numbers (General & Food) alongwith twelve monthly moving average from Decemberr, 2022 to Decemberr, 2023 have been presented in Table B.1.1.1.

B.1.1.2 *Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers* – Serial statistics in respect of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2001=100 and new series on base 2016=100 (General Index only) for 88 centres are set out in Table B.1.1.2.

1.2 Consumer Price Index Numbers for Agricultural Labourers

B.1.2.1 (a) and (b) *All-India Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers (Base: 1986-87=100)* – Serial statistics relating to the All-India Consumer Price Index Numbers (General and Food) for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 separately for Agricultural Years 1995-96 to 2022-23, Financial Years 1995-96 to 2022-23 and Calendar Years 1995 to 2022 along with month-wise indices and 12-month moving averages for December, 2022 to December, 2023 are presented in Tables B.1.2.1 (a) and (b) respectively.

B.1.2.2 (a) and (b) *Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Agricultural Labourers and Rural Labourers on Base: 1986-87=100* – Serial statistics in respect of Consumer Price Index Numbers (General Index) for Agricultural Labourers and Rural Labourers (Base: 1986-87=100) for 20 States are given in Tables B.1.2.2 (a) and (b) respectively.

1.3 Consumer Price Index for Rural, Urban and Combined

B.1.3 *All india Consumer Price Index for Rural, Urban and Combined* - The Consumer Price Index (CPI) for Rural (R),Urban (U) and Combined (C) are compiled and published by the National Statistical Office, Ministry of Statistics and Program Implementation, Govt. of India. The current series of CPI-R, CPI-U and CPI-C on base 2012=100 was released w.e.f. January, 2015 replacing the earlier series on base 2010=100. The All-India Consumer Price Index for Rural, Urban and Combined for the years 2011 to 2022 (Annual Averages) and from December, 2022 to December, 2023 (Monthly Figures) have been presented in Table B.1.3.

1.4 Wholesale Price Index

B.1.4 *All India Index Numbers of Wholesale prices* – The current series of Index Numbers of Wholesale Prices in India on base 2011-12=100 was released w.e.f. April, 2017 by replacing the earlier series on base 2004-05=100. These Index Numbers are compiled and published by the Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce & Industry, and Govt. of India. The indices for the period 2010 to 2022 (Annual Averages) and from December, 2022 to December, 2023 (Monthly Figures) are set out in Table B.1.4. These index numbers are published here to serve as supplementary information to the users of Consumer Price Index Numbers.

2. Wages and Earnings

B.2.1 *Earnings (Basic Wage and Dearness Allowance) of the Lowest-paid Workers/Operatives in Cotton Textile Mills* – The information concerning earnings of cotton producing Centres/States received from the State Governments, Employers' Associations and Individual Units is presented in Table B.2.1. The earnings of workers include minimum basic wage and dearness Allowance by whatever name called. The dearness allowance is linked to the Working Class Consumer Price Index Numbers of different Centres and varies from month to month according to the variation in the index.

3. Industrial Disputes

B.3.1 *Industrial Disputes (All Strikes and Lockouts)* – Industrial Disputes Statistics for the Years 2013 to 2023 are presented in Table B.3.1.

1. कीमतेँ एवं मूल्य सूचकांक PRICES AND PRICE INDICES

1.1 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Industrial Workers' Consumer Price Index

तालिका ब. 1.1.1 - औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य एवं खाद्य)

Table B.1.1.1 – All India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers (General & Food)

वर्ष/महीना Year/Month	वार्षिक औसत सूचकांक Annual Average Indices for					
	Calendar Year		Twelve monthly moving average of General Index	Financial year		
	General Index	Food Index		Year	General Index	Food Index
I- Base 2001=100						
2006	123	122	-	2006-07	125	126
2007	131	134	-	2007-08	133	136
2008	142	149	-	2008-09	145	153
2009	157	169	-	2009-10	163	176
2010	176	190	-	2010-11	180	194
2011	192	204	-	2011-12	195	206
2012	209	223	-	2012-13	215	230
2013	232	254	-	2013-14	236	259
2014	247	271	-	2014-15	251	276
2015	261	288	-	2015-16	265	293
2016	274	304	-	2016-17	276	305
2017	281	308	-	2017-18	284	310
2018	295	310	-	2018-19	300	312
2019	317	328	-	2019-20	322	335
2020	335	351	-	2020-21	339	354
II- Base 2016=100						
2021	122.0	121.8	-	2021-22	123.6	123.5
2022	129.2	129.3	-	2022-23	131.1	131.1
2022	दिस/Dec	132.3	132.0	129.2		
2023	जन/Jan	132.8	131.8	129.9		
	फर/Feb	132.7	131.5	130.5		
	मार्च/Mar	133.3	131.7	131.1		
	अप्रैल/Apr	134.2	132.8	131.7		
	मई/May	134.7	133.7	132.1		
	जून/Jun	136.4	137.8	132.7		
	जुला/Jul	139.7	145.1	133.6		
	अग/Aug	139.2	143.3	134.3		
	सित/Sep	137.5	140.5	134.8		
	अक्तू/Oct	138.4	142.3	135.3		
	नव/Nov	139.1	143.9	138.9		
	दिस./Dec	138.8	142.8	136.4		

तालिका ब.1.1.2 – श्रम ब्यूरो की औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
Table B.1.1.2 – Labour Bureau's Series of All India Consumer Price Index Numbers of Industrial

वर्ष/महीना Year/Month	गुन्टूर Guntur	नेल्लोर Nellore	विशाखापत्तनम Vishakha- patnam	बिस्वानाथ- चारियाली Biswanath- Chariali	डुमडुमा तिनसुकिया Doom Dooma Tinsukia	गुवाहाटी Guwahati	
Base Year	1960= 100			1960= 100			
Linking Factor	5.60		#		4.05	#	
	1	2	3	4	5	6	7
I. Base 2001=100							
Linking Factor with 1982=100	4.57		4.64		4.04	4.80	
2006	120		119		116	115	
2007	126		126		125	120	
2008	139		135		133	128	
2009	161		153		147	143	
2010	181		173		160	156	
2011	194		192		170	168	
2012	208		213		182	184	
2013	233		236		196	198	
2014	251		249		213	214	
2015	259		263		235	226	
2016	270		275		246	242	
2017	275		279		259	247	
2018	281		286		266	255	
2019	294		298		284	281	
2020	307		311		309	300	
II. Base 2016=100							
Linking Factor with 2001=100	2.61	#	2.44	#	2.38	2.42	
2021	122.7	119.8	133.6	127.2	132.7	133.1	
2022	132.7	127.0	141.4	135.2	144.2	143.4	
2022 दिस/Dec	139.0	132.7	146.2	136.3	147.3	145.7	
2023 जन/Jan	140.4	132.9	147.3	135.0	146.7	146.3	
फर/Feb	139.9	132.4	147.0	134.1	146.4	145.9	
मार्च/Mar	140.8	132.5	147.3	134.5	146.6	145.3	
अप्रैल/Apr	142.4	133.0	148.8	136.1	146.2	146.6	
मई/May	143.5*	133.7	148.8	136.9	147.8	147.8	
जून/Jun	147.1	136.0	150.9	137.8	150.2	148.9	
जुला/Jul	147.4	138.8	153.7	144.0	155.2	149.9	
अग/Aug	147.5	137.8	153.0	144.0	153.4	152.0	
सित/Sep	146.4	136.4	152.1	144.2	150.7	150.6	
अक्तू/Oct	147.1	138.0	153.0	149.0	151.8	152.9	
नव/Nov	147.5	138.9	153.2	149.2	153.0	152.2	
दिस./Dec	148.8	138.6	153.0	149.3	152.7	151.3	

श्रृंखला (सामान्य सूचकांक)
Workers (General Index)

वर्ष/महीना Year/Month	लबाक- सिल्चर Labac- Silchar	नुमालीगढ़- गोलाघाट Numaligarh- Golaghat	सिबसागर Sibsagar	मुंगेर जमालपुर Munger Jamalpur	पटना Patna	चंडीगढ़ Chandigarh
Base Year	1960= 100			1960= 100		
Linking Factor	3.96			5.29		#
1	8	9	10	11	12	13
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	3.65			4.30		5.26
2006	121			126		125
2007	130			134		131
2008	143			145		140
2009	155			162		155
2010	178			182		175
2011	186			199		197
2012	197			215		213
2013	216			238		232
2014	243			253		245
2015	247			274		254
2016	257			297		269
2017	258			298		278
2018	262			316		296
2019	278			351		314
2020	289			367		331
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	2.48	#	#	3.16	#	2.79
2021	117.8	116.7	120.4	119.5	120.5	124.6
2022	129.3	130.0	132.9	127.5	127.4	133.2
2022 दिस/Dec	133.6	137.2	136.7	132.4	132.5	137.4
2023 जन/Jan	132.1	137.2	136.5	132.5	132.5	139.3
फर/Feb	131.4	137.7	136.7	133.6	132.9	140.5
मार्च/Mar	131.4	137.1	138.3	134.3	132.9	141.4
अप्रैल/Apr	132.4	139.2	139.6	135.2	132.8	141.3
मई/May	133.4	141.7	141.1	137.1	133.3	141.4
जून/Jun	139.7	143.6	142.9	136.0	133.5*	141.7
जुला/Jul	140.8	145.8	147.1	138.8	138.0	147.0
अग/Aug	142.0	147.2	149.5*	139.6	138.8	148.2
सित/Sep	141.9	145.8	147.4	140.3	136.6	145.7
अक्टू/Oct	142.6	146.0	147.2	142.8	138.4	145.4
नव/Nov	142.6	145.6	147.6	143.2	139.7	146.0
दिस./Dec	140.6	146.0	145.6	143.9	136.8	145.2

तालिका ब.1.1.2 जारी / Table B.1.1.2 Contd.

वर्ष/महीना Year/Month	भिलाई Bhilai	कोरबा Korba	रायपुर Raipur	दादरा एवं नगर हवेली Dadar & Nagar Haveli	दिल्ली Delhi	गोवा Goa
Base Year	1966= 100				1960= 100	1966= 100
Linking Factor	3.49				4.97	3.40
1	14	15	16	17	18	19
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	4.20				5.60	5.59
2006	121				122	121
2007	132				128	130
2008	145				137	144
2009	162				147	164
2010	180				163	188
2011	206				176	203
2012	241				191	222
2013	265				209	248
2014	277				223	258
2015	291				234	277
2016	306				246	289
2017	310				257	295
2018	319				275	319
2019	332				303	332
2020	343				315	351
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	3.13	#	#	#	2.82	3.20
2021	116.5	125.7	117.6	115.7	116.4	117.9
2022	122.5	132.5	126.8	123.6	125.7	125.3
2022 दिस/Dec	122.4	136.7	128.0	123.3	128.7	126.8
2023 जन/Jan	122.3	137.0	128.2	124.8	128.2	128.0
फर/Feb	122.7	137.6	128.1	124.5	128.3	128.1
मार्च/Mar	124.1	138.5*	128.7	125.3	128.9	128.5*
अप्रैल/Apr	124.9	139.5	129.1	126.2	128.9	128.5
मई/May	126.1	138.9	129.3	126.1	129.0	128.4
जून/Jun	128.0	140.3	136.1	126.8	129.2	129.1
जुला/Jul	130.0	145.5*	141.8	126.8	133.6	131.1
अग/Aug	129.6	145.9	139.9	130.5	133.0	131.6
सित/Sep	127.1	143.1	136.0	129.2	131.0	130.9
अक्तू/Oct	127.4	144.2	136.4	129.8	131.5	131.3
नव/Nov	127.8	145.9	136.5*	130.2	131.7	131.6
दिस./Dec	127.6	145.7	135.7	129.2	130.2	131.6

वर्ष/महीना Year/Month	अहमदाबाद Ahmedabad	भावनगर Bhavnagar	राजकोट Rajkot	सूरत Surat	वडोदरा Vadodara	फरीदाबाद Faridabad
Base Year	1960= 100	1960= 100				
Linking Factor	4.78	4.99	#	#	#	#
1	20	21	22	23	24	25
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	4.62	4.76	4.38	4.54	4.39	4.79
2006	120	119	118	118	120	122
2007	129	129	126	127	127	130
2008	138	135	132	134	133	145
2009	151	147	146	146	147	160
2010	171	174	174	162	167	182
2011	186	189	193	174	180	194
2012	206	206	216	192	198	207
2013	233	221	231	218	219	218
2014	238	225	237	224	230	226
2015	249	239	248	238	244	240
2016	261	257	269	248	261	253
2017	266	265	270	258	261	257
2018	273	280	284	263	269	267
2019	288	300	300	278	282	280
2020	305	316	324	291	297	296
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	2.73	2.84	2.90	2.64	2.66	2.57
2021	117.2	117.7	120.5	117.8	118.6	119.5
2022	123.7	126.3	130.3	123.8	124.1	127.7
2022 दिस/Dec	126.4	129.2	132.7	124.6	125.4	133.4
2023 जन/Jan	126.2	128.9	133.2	125.8	125.7	133.7
फर/Feb	126.1	129.3	133.2	126.8	126.3	134.0
मार्च/Mar	129.4	130.3	134.0	127.2	128.4	134.1
अप्रैल/Apr	129.8	131.8	134.9	129.0	130.0	134.1
मई/May	129.6	131.8	135.7	129.1	130.0	133.7
जून/Jun	134.9	132.7	136.1	129.5	131.2	135.3
जुला/Jul	137.9	135.8	139.0	132.8	134.2	143.2
अग/Aug	135.1	135.2	137.7	131.8	133.2	140.8
सित/Sep	134.2	132.4	133.3	129.8	132.7	137.7
अक्टू/Oct	135.3	132.7	132.8	130.8	134.1	137.9
नव/Nov	134.3	134.1	132.7	132.8	133.8	137.7
दिस./Dec	133.6	133.7	133.0	132.5*	132.3	137.3

तालिका ब.1.1.2 जारी / Table B.1.1.2 Contd.

वर्ष/महीना Year/Month	गुरुग्राम Gurugram	यमुनानगर Yamunanagar	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	जम्मू व कश्मीर Jammu & Kashmir	बोकारो Bokaro	धनबाद झरिया Dhanbad-Jharia
Base Year		1960= 100	1965= 100	1960= 100		1960= 100
Linking Factor		5.53	3.75	5.47		4.63
1	26	27	28	29	30	31
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100		4.34	4.53	5.62	#	3.72
2006		127	120	118	121	126
2007		133	126	125	130	136
2008		145	135	134	142	146
2009		162	147	155	158	161
2010		183	161	159	168	180
2011		197	172	172	192	198
2012		215	188	190	210	222
2013		230	208	203	229	262
2014		241	222	217	251	279
2015		248	232	235	268	290
2016		265	242	247	276	304
2017		273	254	261	276	306
2018		282	261	270	289	332
2019		300	274	282	307	367
2020		315	289	305	320	388
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	#	2.78	2.46	2.55	2.78	3.29
2021	122.1	119.5	123.4	127.1	121.4	126.4
2022	130.8	129.2	129.7	134.7	126.6	133.3
2022 दिस/Dec	133.6	134.5	130.2	136.0	126.9	135.9
2023 जन/Jan	133.9	134.2	130.2	136.4	126.4	136.3
फर/Feb	134.8	134.3	130.1	136.2	127.6	137.5*
मार्च/Mar	137.9	135.5*	131.5*	137.5*	128.1	137.3
अप्रैल/Apr	137.6	136.1	131.7	138.2	129.9	138.1
मई/May	137.0	136.1	131.5*	137.7	129.2	139.1
जून/Jun	138.6	139.6	132.2	137.8	130.1	140.2
जुला/Jul	146.9	144.7	136.3	141.6	134.3	144.4
अग/Aug	144.0	144.3	136.1	142.1	134.2	145.7
सित्त/Sep	142.5	140.0	132.6	143.2	132.6	143.0
अक्तू/Oct	142.9	140.9	133.0	143.9	134.0	143.8
नव/Nov	141.4	142.7	133.4	144.2	133.4	144.0
दिस./Dec	139.8	143.2	131.8	142.9	132.6	143.0

वर्ष/महीना Year/Month	जमशेदपुर Jamshedpur	रामगढ़ Ramgarh	बेलगाम Belgaum	बैंगलूरु Bengaluru	चिकमगलूर Chikmagalur	दवनगिरी Davanagere
Base Year	1960= 100		1960= 100			
Linking Factor	4.68		5.66	#		
1	32	33	34	35	36	37
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	4.23		5.02	4.51		
2006	126		125	125		
2007	132		133	136		
2008	142		144	150		
2009	157		162	167		
2010	182		179	181		
2011	213		200	194		
2012	232		217	211		
2013	251		242	238		
2014	265		254	253		
2015	288		266	268		
2016	314		279	278		
2017	327		290	287		
2018	342		297	289		
2019	363		310	299		
2020	400		326	310		
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	3.24	#	2.86	2.75	#	#
2021	133.4	126.8	122.6	117.6	113.3	124.9
2022	139.1	131.6	130.2	122.8	121.0	131.9
2022 दिस/Dec	142.1	135.6	135.1	125.0	125.9	136.7
2023 जन/Jan	142.9	135.1	135.8	125.5	126.2	137.6
फर/Feb	141.5*	134.9	135.7	125.7	126.3	138.5*
मार्च/Mar	144.7	134.5	136.0	125.8	127.3	139.9
अप्रैल/Apr	147.5	136.4	137.8	127.8	127.7	140.8
मई/May	147.4	135.6	138.3	128.2	127.4	140.0
जून/Jun	147.2	135.1	140.3	130.0	128.2	142.8
जुला/Jul	151.5	139.5*	144.2	133.9	130.4	146.4
अग/Aug	154.4	139.7	143.4	133.2	130.6	146.1
सित/Sep	151.0	138.7	139.1	131.8	131.8	144.2
अक्तू/Oct	150.9	141.7	138.8	132.7	132.7	144.8
नव/Nov	152.9	143.3	140.5*	134.2	132.8	146.2
दिस/Dec	151.8	143.7	141.6	133.8	132.6	144.4

तालिका ब.1.1.2 जारी / Table B.1.1.2 Contd.

वर्ष/महीना Year/Month	हुबली-धारवाड़ Hubli Dharwar	मरकारा Mercara- Kodagu	मैसूर Mysore	एरनाकुलम Ernakulam / Alwaye	इडुकी Idukki	कोललम Kollam
Base Year	1960= 100					
Linking Factor	#	#	#	5.19	#	#
1	38	39	40	41	42	43
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	4.71	4.47	#	4.52	#	4.61
2006	123	114	123	125		126
2007	132	121	130	131		129
2008	147	135	142	142		143
2009	164	154	160	153		154
2010	182	172	174	167		172
2011	200	188	187	185		195
2012	219	208	205	199		206
2013	248	240	242	225		236
2014	266	255	258	248		260
2015	281	269	267	260		277
2016	293	282	280	268		297
2017	299	296	295	289		323
2018	314	302	302	304		339
2019	337	313	316	321		365
2020	354	321	328	341		379
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	3.10	2.97	2.92	2.84	#	3.21
2021	120.3	115.9	120.5	126.8	125.5	123.7
2022	126.2	125.5	128.1	131.9	132.6	129.7
2022 दिस/Dec	127.5*	130.5*	132.5*	134.1	136.5*	133.5*
जन/Jan	128.3	130.6	132.7	134.2	136.1	133.2
फर/Feb	128.4	130.2	132.6	133.9	134.7	132.3
2023 मार्च/Mar	129.8	129.6	133.1	135.1	135.0	133.8
अप्रैल/Apr	131.6	130.8	134.8	136.1	136.7	134.9
मई/May	132.4	131.8	135.1	135.4	136.9	134.0
जून/Jun	133.3	132.9	136.2	138.9	140.1	134.9
जुला/Jul	135.8	136.7	138.1	141.3	142.3	134.9
अग/Aug	136.0	135.4	137.6	139.3	142.8	138.6
सित/Sep	134.4	133.6	138.1	137.9	140.8	136.7
अक्तू/Oct	135.4	135.3	138.6	138.4	140.6	136.8
नव/Nov	135.9	136.3	140.2	138.7	141.1	135.8
दिस/Dec	136.1	135.4	141.2	138.9	141.8	136.0

वर्ष/महीना Year/Month	भोपाल Bhopal	छिंदवाड़ा Chhindwara	इन्दौर Indore	जबलपुर Jabalpur	मुम्बई Mumbai	नागपुर Nagpur
Base Year	1960= 100	1966= 100	1960= 100	1949= 100	1960= 100	1960= 100
Linking Factor	5.46	2.59	5.18	6.41	5.12	4.99
1	44	45	46	47	48	49
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	4.83	4.03	4.73	4.53	5.18	4.68
2006	127	127	122	128	126	130
2007	135	137	131	135	134	140
2008	145	150	140	148	144	151
2009	161	162	152	159	159	174
2010	185	177	168	184	174	203
2011	205	195	181	198	192	220
2012	221	216	200	212	212	240
2013	238	242	222	231	237	265
2014	251	247	232	240	257	277
2015	260	262	243	256	276	294
2016	271	281	252	274	287	306
2017	276	286	257	279	289	312
2018	301	293	269	298	294	344
2019	333	314	288	325	312	396
2020	349	334	304	342	327	413
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	3.11	2.94	2.70	3.00	2.91	3.60
2021	119.1	120.9	116.9	124.1	116.6	121.2
2022	124.9	127.9	123.1	131.9	122.7	128.7
2022 दिस/Dec	126.8	130.4	124.4	132.6	124.3	132.2
जन/Jan	127.8	130.5	125.3	133.1	124.8	132.9
फर/Feb	128.2	130.3	125.4	133.2	124.9	132.7
2023 मार्च/Mar	129.3	130.4	126.9	133.6	125.5	133.1
अप्रैल/Apr	129.5	129.6	127.4	134.5*	126.1	133.5
मई/May	130.1	130.4	127.6	139.7	126.2	135.4
जून/Jun	131.6	135.4	128.2	141.0	127.3	135.8
जुला/Jul	135.5*	137.5*	130.9	143.0	131.4	140.0
अग/Aug	136.8	137.3	132.5	143.0	130.4	138.7
सित/Sep	135.1	136.5	130.4	140.0	128.2	136.9
अक्तू/Oct	135.2	137.4	131.1	140.4	129.2	137.6
नव/Nov	135.8	140.3	133.8	141.3	129.3	140.6
दिस/Dec	135.4	139.6	131.9	140.8	128.9	140.6

तालिका ब.1.1.2 जारी / Table B.1.1.2 Contd.

वर्ष/महीना Year/Month	नासिक Nasik	पुणे Pune	शोलापुर Solapur	ठाणे Thane	शिलोंग Shillong	अंगुल-तलचर Angul- Talcher
Base Year			1960= 100			
Linking Factor	#	#	5.03			
1	50	51	52	53	54	55
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	4.94	4.96	4.73			#
2006	124	127	123			120
2007	130	136	139			128
2008	139	146	149			143
2009	157	162	160			160
2010	181	181	179			181
2011	204	200	199			200
2012	223	217	216			221
2013	242	237	239			241
2014	255	254	261			256
2015	271	266	281			265
2016	285	277	293			284
2017	291	275	294			297
2018	322	306	305			310
2019	364	345	335			335
2020	386	368	355			357
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	3.42	3.22	3.10	#	#	2.88
2021	118.3	119.0	125.0	115.9	131.9	129.3
2022	123.3	122.5	134.8	123.7	139.4	140.5
2022 दिस/Dec	124.5*	122.4	137.9	124.9	143.5*	143.4
2023 जन/Jan	124.4	123.4	138.9	125.1	144.8	142.1
फर/Feb	124.5	123.4	138.5*	124.8	144.8	142.6
मार्च/Mar	124.6	124.3	138.8	126.0	145.3	144.7
अप्रैल/Apr	125.6	124.3	141.1	126.8	145.5	144.0
मई/May	125.6	125.0	141.7	126.7	146.3	144.4
जून/Jun	126.3	126.3	143.1	127.5*	147.2	152.9
जुला/Jul	131.5*	127.4	143.9	129.6	148.5*	153.2
अग/Aug	131.7	127.1	144.1	128.8	148.5	150.1
सित्त/Sep	131.5	125.0	142.9	127.2	148.6	149.7
अक्टू/Oct	132.2	128.1	142.9	128.0	149.0	150.6
नव/Nov	133.8	127.3	143.2	129.7	148.3	150.5
दिस/Dec	133.9	127.1	144.7	130.6	147.2	150.1

वर्ष/महीना Year/Month	कटक Cuttack	क्योंझर Keonjhar	पुडुचेरी Puducherry	अमृतसर Amritsar	जालंधर Jalandhar	लुधियाना Ludhiana
Base Year				1960= 100		
Linking Factor			#	5.19		#
1	56	57	58	59	60	61

I. Base 2001=100

Linking Factor with 1982=100			4.88	4.09	#	4.12
2006			123	130	126	129
2007			130	139	131	134
2008			146	149	141	146
2009			163	163	155	160
2010			173	190	174	175
2011			184	208	190	188
2012			209	227	205	205
2013			237	240	224	222
2014			256	255	239	235
2015			271	263	250	251
2016			286	271	270	273
2017			299	281	281	275
2018			308	308	299	282
2019			320	343	326	299
2020			335	360	339	315

II. Base 2016=100

Linking Factor with 2001=100	#	#	2.88	2.98	2.84	2.62
2021	129.1	128.9	127.1	121.7	120.9	122.3
2022	139.0	138.6	134.9	124.8	131.0	130.8
2022 दिस/Dec	139.4	140.6	138.1	126.6	137.5*	138.6
जन/Jan	140.7	141.3	140.3	126.6	139.5*	137.6
फर/Feb	141.5	140.9	138.5	129.7	139.1	137.8
2023 मार्च/Mar	141.6	142.3	139.1	129.0	139.7	140.1
अप्रैल/Apr	143.2	143.2	140.7	128.1	140.5*	141.1
मई/May	143.2	143.2	142.6	128.1	140.1	140.1
जून/Jun	144.5	146.4	148.2	132.0	139.7	141.5*
जुला/Jul	147.4	145.4	155.4	134.9	145.8	148.3
अग/Aug	151.8	145.7	155.1	135.5	149.8	145.8
सित/Sep	151.5	145.3	153.6	135.8	144.4	143.6
अक्तू/Oct	151.1	145.6	153.3	135.7	144.7	146.8
नव/Nov	153.4	147.2	153.3	135.9	145.3	146.1
दिस/Dec	153.3	146.4	154.6	133.1	142.7	142.9

तालिका ब.1.1.2 जारी / Table B.1.1.2 Contd.

वर्ष/महीना Year/Month	संगरूर Sangrur	अलवर Alwar	भीलवाड़ा Bhilwara	जयपुर Jaipur	चेन्नई Chennai	कोयम्बटूर Coimbatore
Base Year			1966= 100	1960= 100	1960= 100	1960= 100
Linking Factor			3.20	5.17	5.05	5.35
1	62	63	64	65	66	67
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100			4.62	4.25	4.95	4.49
2006			125	127	118	119
2007			133	134	124	127
2008			144	145	135	137
2009			158	159	149	151
2010			176	179	161	166
2011			192	192	171	176
2012			215	214	196	193
2013			236	230	218	217
2014			245	238	230	231
2015			259	245	248	243
2016			269	257	255	250
2017			274	268	261	265
2018			278	282	269	275
2019			296	313	284	290
2020			310	326	296	304
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	#	#	2.71	2.89	2.50	2.60
2021	119.4	120.9	118.5	115.8	122.5	120.7
2022	128.2	126.3	127.0	123.1	127.3	125.7
2022 दिस/Dec	132.8	127.1	129.8	126.0	130.4	127.0
2023 जन/Jan	132.7	127.1	129.9	126.7	131.9	130.0
फर/Feb	132.6	126.5*	130.2	126.8	131.3	129.1
मार्च/Mar	132.4	127.1	131.7	127.6	130.6	129.2
अप्रैल/Apr	131.8	126.9	132.0	128.1	131.7	130.7
मई/May	132.0	127.1	132.2	127.8	133.1	133.3
जून/Jun	134.6	128.2	134.0	128.6	137.7	135.5*
जुला/Jul	139.8	131.0	136.1	130.0	139.9	138.2
अग/Aug	137.5	130.2	132.6	125.2	139.0	139.7
सित/Sep	137.6	126.1	130.5	123.4	137.4	138.6
अक्तू/Oct	138.4	127.5	131.5*	124.2	136.1	138.0
नव/Nov	138.6	127.4	131.2	124.4	136.1	139.0
दिस/Dec	138.8	126.0	131.2	124.2	136.9	134.3

वर्ष/महीना Year/Month	कुनूर Coonoor	मदुरई Madurai	सेलम Salem	तिरुनेल्वेलि Tirunelveli	विरुधु नगर Virudhu Nagar	हैदराबाद Hyderabad
Base Year	1960=100	1960= 100				1960= 100
Linking Factor	4.80	5.27	#			5.23
1	68	69	70	71	72	73
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	4.58	4.51	4.45			4.79
2006	115	116	114			116
2007	122	121	122			123
2008	134	134	134			135
2009	148	147	151			152
2010	168	162	163			165
2011	182	174	172			174
2012	204	196	192			190
2013	224	218	216			207
2014	241	239	233			217
2015	261	259	254			228
2016	272	265	268			240
2017	281	277	270			246
2018	304	281	280			252
2019	336	303	297			267
2020	352	317	307			284
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	2.96	2.69	2.69	#	#	2.44
2021	126.6	125.3	121.9	125.6	122.4	121.2
2022	127.3	132.1	127.2	134.6	128.1	128.3
2022 दिस/Dec	129.7	138.2	131.8	140.9	130.8	132.5*
जन/Jan	131.2	138.5	132.4	141.6	132.9	132.6
फर/Feb	131.1	137.4	131.1	141.0	134.0	133.1
2023 मार्च/Mar	132.6	136.5*	129.7	139.9	135.0	133.1
अप्रैल/Apr	133.2	136.6	127.8	141.6	136.9	133.7
मई/May	134.1	137.7	131.6	143.5	136.7	134.6
जून/Jun	137.3	140.1	134.7	145.2	138.4	136.8
जुला/Jul	141.8	144.4	142.0	147.0	141.6	138.3
अग/Aug	138.9	142.1	138.7	147.9	140.7	137.8
सित/Sep	137.2	138.1	132.0	148.0	140.7	136.5
अक्टू/Oct	136.1	139.5	135.4	149.0	143.1	137.5
नव/Nov	137.2	143.2	138.7	153.1	144.6	137.1
दिस/Dec	138.0	144.5*	137.3	154.5*	143.8	137.6

तालिका ब.1.1.2 जारी / Table B.1.1.2 Contd.

वर्ष/महीना Year/Month	मांचेरीयाल Mancheriyal	वारंगल Warrangal	त्रिपुरा Tripura	आगरा Agra	गाजियाबाद/ गौ. बु.नगर Ghaziabad/G. B. Nagar	कानपुर Kanpur	
Base Year			1961= 100			1960= 100	
Linking Factor		#	4.37	#	#	4.69	
1	74	75	76	77	78	79	
I. Base 2001=100							
Linking Factor with 1982=100		4.75	4.17	4.36	4.78	4.50	
2006		123	115	128	125	125	
2007		133	123	136	132	132	
2008		149	131	146	142	141	
2009		172	144	168	159	158	
2010		199	156	193	182	183	
2011		204	167	208	198	200	
2012		222	177	220	209	214	
2013		247	194	240	232	237	
2014		259	210	255	240	255	
2015		272	227	269	256	268	
2016		287	244	291	270	285	
2017		287	256	303	277	287	
2018		302	264	332	306	313	
2019		323	267	362	341	347	
2020		343	282	387	355	368	
II. Base 2016=100							
Linking Factor with 2001=100	#	2.97	2.43	3.33	3.00	3.15	
2021	131.0	121.9	120.5	123.5	122.8	124.1	
2022	138.8	131.2	130.3	132.3	131.3	131.8	
दिस/Dec	144.3	135.3	133.3	137.6	135.1	134.8	
जन/Jan	144.5*	135.6	132.0	136.9	134.8	135.3	
फर/Feb	145.0	136.1	130.9	137.3	135.4	135.7	
2023	मार्च/Mar	145.6	137.2	129.9	138.2	136.7	136.2
अप्रैल/Apr	146.5	137.4	130.5	139.0	137.0	136.9	
मई/May	146.7	138.2	130.4	139.0	137.9	137.5	
जून/Jun	148.2	141.2	134.7	141.1	138.9	138.9	
जुला/Jul	151.2	145.6	140.4	147.0	142.9	141.8	
अग/Aug	150.1	146.6	141.0	144.8	140.5	142.3	
सित/Sep	149.2	144.8	140.7	142.4	141.1	139.9	
अक्टू/Oct	150.5*	145.5	140.4	142.7	142.4	140.4	
नव/Nov	150.2	145.1	141.2	143.4	142.1	141.3	
दिस/Dec	150.3	144.8	140.6	140.9	140.9	140.6	

वर्ष/महीना Year/Month	लखनऊ Lucknow	वाराणसी Varanasi	उधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	दार्जिलिंग Darjeeling	दुर्गापुर Durgapur	हल्दिया Haldia
Base Year	1960=100		1960=100			
Linking Factor	5.12		4.55			#
1	80	81	82	83	84	85
I. Base 2001=100						
Linking Factor with 1982=100	#	4.96		3.80	5.13	5.64
2006	121	122		120	121	116
2007	129	131		130	130	124
2008	144	142		142	140	131
2009	163	160		153	155	144
2010	185	183		170	178	161
2011	195	194		184	193	185
2012	203	208		196	215	211
2013	224	231		215	263	230
2014	242	247		232	282	241
2015	261	265		239	287	275
2016	274	278		253	298	302
2017	275	279		260	306	310
2018	305	302		272	317	325
2019	343	338		279	331	351
2020	369	360		285	341	410
II. Base 2016=100						
Linking Factor with 2001=100	3.05	3.03	#	2.53	2.92	3.55
2021	126.0	124.8	130.7	116.0	123.2	117.0
2022	136.1	130.9	138.4	120.4	133.1	120.7
2022 दिस/Dec	138.2	134.1	141.5	125.1	135.6	122.1
2023 जन/Jan	138.8	134.8	142.5	125.4	134.9	121.9
फर/Feb	140.6	134.5	143.4	125.7	135.5	122.6
मार्च/Mar	141.0	135.9	144.7	126.0	136.3	123.4
अप्रैल/Apr	142.0	136.2	145.4	125.3	138.0	124.5
मई/May	142.8	135.8	144.5*	124.8	138.1	124.6
जून/Jun	142.9	135.3	146.8	125.9	138.7	125.8
जुला/Jul	148.0	139.3	153.7	127.9	142.2	127.6
अग/Aug	147.4	139.3	151.7	128.1	140.8	126.6
सित/Sep	144.9	138.3	145.9	126.8	139.3	127.4
अक्त/Oct	145.6	138.5*	145.9	126.9	141.3	127.1
नव/Nov	146.9	138.6	146.6	127.3	142.3	126.2
दिस/Dec	145.3	137.6	145.5	128.1	142.1	125.9

तालिका ब.1.1.2 समाप्त / Table B.1.1.2 Concl'd.

वर्ष/महीना Year/Month	हावड़ा Howrah	जलपाईगुड़ी Jalpaiguri	कोलकाता Kolkata	रानीगंज Raniganj
Base Year	1960= 100	1960= 100	1960= 100	1960= 100
Linking Factor	4.12	4.16	4.74	4.40
1	86	87	88	89
I. Base 2001=100				
Linking Factor with 1982=100	5.42	3.96	5.12	4.02
2006	121	117	121	124
2007	130	125	132	132
2008	139	136	142	140
2009	154	150	156	156
2010	171	167	172	169
2011	183	179	185	180
2012	199	192	199	195
2013	215	221	222	214
2014	228	241	239	228
2015	240	252	251	238
2016	258	266	261	253
2017	267	272	266	251
2018	281	280	278	271
2019	293	285	292	297
2020	309	299	306	319
II. Base 2016=100				
Linking Factor with 2001=100	2.58	2.52	2.46	2.57
2021	122.2	119.2	126.0	130.7
2022	130.9	128.9	137.4	139.8
2022 दिस/Dec	135.0	132.9	138.4	142.0
2023 जन/Jan	134.7	132.2	137.8	141.2
फर/Feb	135.0	130.4	137.5*	139.4
मार्च/Mar	135.2	131.4	138.3	139.4
अप्रैल/Apr	139.3	132.1	138.0	140.0
मई/May	138.9	131.8	137.6	140.7
जून/Jun	139.7	135.7	138.2	141.3
अक्टू जुला/Jul	142.6	136.4	141.7	143.3
अग/Aug	141.6	138.0	140.9	142.8
सित/Sep	140.6	139.9	140.8	141.8
अक्टू/Oct	140.8	140.2	141.6	143.2
नव/Nov	141.0	140.3	141.1	143.4
दिस/Dec	140.6	139.1	141.3	143.0

#- No Linking Factor as these centres were not covered in the earlier series.

* Rounded up from second decimal place.

Linking Factor – Figures on previous base (General Index) can be obtained by multiplying the index numbers of new base by the respective linking factors given against each centre and rounding off the result to the nearest whole number.

1.2 कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers

तालिका ब.1.2.1 (अ) - कृषि श्रमिकों के लिए वर्ष-वार अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य एवं खाद्य आधार: 1986-87 = 100)

Table B.1.2.1 (a) - Year-wise All India Average Consumer Price Index Numbers for Agricultural Labourers (General & Food on Base: 1986-87=100)

वर्ष/महीना Year/Month	वार्षिक औसत सूचकांक Annual Average Indices for							
	Agricultural Year		Twelve Monthly moving average of General Index	Financial Year		Calendar Year		
	General Index	Food Index		General Index	Food Index	Year	General Index	Food Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995-1996@	240 @	242 @	-	237^	239^	1995	239\$	242\$
1996-1997	260	264	-	256	260	1996	249	253
1997-1998	269	269	-	264	264	1997	262	262
1998-1999	299	305	-	293	299	1998	287	293
1999-2000	309	314	-	306	312	1999	304	310
2000-2001	304	299	-	305	303	2000	307	307
2001-2002	311	304	-	309	302	2001	307	300
2002-2003	323	316	-	318	312	2002	315	308
2003-2004	332	326	-	331	325	2003	328	322
2004-2005	342	335	-	340	333	2004	337	331
2005-2006	358	351	-	353	345	2005	348	341
2006-2007	388	384	-	380	376	2006	372	366
2007-2008	417	416	-	409	406	2007	402	400
2008-2009	462	464	-	450	452	2008	439	440
2009-2010	530	540	-	513	522	2009	494	500
2010-2011	577	582	-	564	572	2010	553	562
2011-2012	622	610	-	611	602	2011	602	598
2012-2013	692	679	-	672	658	2012	652	638
2013-2014	764	750	-	750	737	2013	735	724
2014-2015	808	783	-	800	778	2014	788	769
2015-2016	847	820	-	835	807	2015	825	797
2016-2017	873	841	-	870	841	2016	864	837
2017-2018	893	846	-	741	708	2017	883	845
2018-2019	920	863	-	907	850	2018	900	844
2019-2020	999	955	-	980	932	2019	957	905
2020-2021	1042	994	-	1034	990	2020	1027	987
2021-2022	1092	1026	-	1075	1013	2021	1060	1002
2022-2023	1166	1094	-	1148	1076	2022	1129	1059
2022-2023								
दिस/Dec	1167	1096	1129					
जन/Jan	1170	1096	1136					
फर/Feb	1171	1096	1142					
मार्च/March	1175	1098	1148					
अप्रैल/April	1180	1104	1154					
मई/May	1186	1112	1160					
जून/June	1196	1126	1166					
2023-2024								
जुलाई/July	1215	1152	1173					
अगस्त/August	1224	1164	1180					
सित/Sept	1226	1166	1186					
अक्त/Oct	1241	1185	1193					
नव/Nov	1253	1201	1200					
दिस/Dec	1257	1205	1208					

Note: -(i) Agricultural Year (July to June). (ii) Financial Year (April to March). (iii) New series of Consumer Price Index Numbers for Agricultural Labourers on Base: 1986-87=100 released w.e.f. November, 1995. To obtain indices on Base: 1960-61=100, the index figures need to be multiplied by the linking factor as below:-

General Index - 5.89 Food Index - 6.38

@ = औसत केवल 8 महीनों अर्थात् नव., 95 से जून, 96 तक पर आधारित/Average based on 8 months i.e. Nov., 95 to June, 96 only.

^ = औसत केवल 5 महीनों अर्थात् नव., 95 से मार्च, 96 तक पर आधारित/Average based on 5 months i.e. Nov., 95 to March, 96 only

\$ = औसत केवल 2 महीनों अर्थात् नव., 95 से दिस., 95 तक पर आधारित/Average based on 2 months i.e. Nov., 95 and Dec., 95 only.

तालिका ब.1.2.1 (ब) - ग्रामीण श्रमिकों के लिए वर्ष-वार अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य एवं खाद्य आधार: 1986-87 = 100)
Table B.1.2.1 (b) - Year-wise All India Average Consumer Price Index Numbers for Rural Labourers (General & Food on Base: 1986-87=100)

वर्ष/महीना Year/Month	वार्षिक औसत सूचकांक/Annual Average Indices for							
	Agricultural Year		Twelve Monthly moving average of General Index	Financial Year		Calendar Year		
	General Index	Food Index		General Index	Food Index	Year	General Index	Food Index
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995-1996@	240@	242@	-	238^	240^	1995	239\$	242\$
1996-1997	260	264	-	256	260	1996	250	253
1997-1998	270	270	-	266	265	1997	263	263
1998-1999	299	305	-	294	300	1998	288	293
1999-2000	310	313	-	307	311	1999	305	310
2000-2001	306	300	-	307	303	2000	308	307
2001-2002	313	305	-	311	303	2001	309	302
2002-2003	325	317	-	321	312	2002	318	309
2003-2004	335	327	-	333	326	2003	331	323
2004-2005	344	335	-	342	333	2004	340	332
2005-2006	360	352	-	355	346	2005	351	341
2006-2007	389	384	-	382	376	2006	373	366
2007-2008	418	416	-	409	406	2007	403	399
2008-2009	462	463	-	451	452	2008	440	440
2009-2010	529	541	-	513	523	2009	494	500
2010-2011	577	582	-	564	573	2010	552	563
2011-2012	623	611	-	611	603	2011	602	599
2012-2013	693	681	-	673	660	2012	654	640
2013-2014	765	751	-	751	738	2013	735	725
2014-2015	811	787	-	802	781	2014	791	771
2015-2016	852	826	-	839	813	2015	829	802
2016-2017	879	847	-	875	847	2016	869	843
2017-2018	900	852	-	895	852	2017	889	850
2018-2019	927	868	-	915	855	2018	908	850
2019-2020	1005	959	-	986	937	2019	964	910
2020-2021	1049	1000	-	1040	995	2020	1033	991
2021-2022	1102	1034	-	1084	1021	2021	1068	1009
2022-2023	1177	1101	-	1160	1084	2022	1141	1066
2022-23								
दिस/Dec	1179	1102	1141					
जन/Jan	1181	1103	1147					
फर/Feb	1182	1102	1154					
मार्च/March	1186	1105	1160					
अप्रैल/April	1192	1111	1166					
मई/May	1197	1118	1172					
जून/June	1207	1131	1177					
2023-24								
जुलाई/July	1226	1158	1184					
अगस्त/August	1234	1170	1191					
सित/Sept	1237	1171	1197					
अक्त/Oct	1251	1190	1204					
नव/Nov	1262	1206	1211					
दिस/Dec	1267	1210	1219					

टिप्पण Note: - (i) कृषि वर्ष/Agricultural Year (जुलाई से जून/July to June), (ii) वित्तीय वर्ष/Financial Year (अप्रैल से मार्च/April to March), (iii) ग्रामीण श्रमिकों के लिए आधार 1986-87=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला नवम्बर, 1995 से पहली बार शुरू की गई/Nov series of Consumer Price Index Numbers for Rural Labourers on Base: 1986-87=100 was introduced for the first time w.e.f. November, 1995.

@ = औसत केवल 8 महीनों अर्थात् नव., 95 से जून, 96 तक पर आधारित/Average based on 8 months i.e. Nov., 95 to June, 96 only.

^ = औसत केवल 5 महीनों अर्थात् नव., 95 से मार्च, 96 तक पर आधारित/Average based on 5 months i.e. Nov., 95 to March, 96 only

\$ = औसत केवल 2 महीनों अर्थात् नव., 95 से दिस., 95 तक पर आधारित/Average based on 2 months i.e. Nov., 95 and Dec., 95 only.

तालिका ब.1.2.2 (अ) - कृषि श्रमिकों के लिए राज्य-वार श्रम ब्यूरो की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला (सामान्य सूचकांक आधार: 1986-87 = 100)

Table B.1.2.2 (a) - State-wise Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers for Agricultural Labourers (General Index on Base: 1986-87=100)

कृषि वर्ष/महीना Agricultural Year/Month	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	असम Assam	बिहार Bihar	गुजरात Gujarat	हरियाणा Haryana	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir
Linking factor	4.84	b	6.22	5.34	*	*	5.98
1	2	3	4	5	6	7	8
1995-1996 @	243	244	223	241	235	220	226
1996-1997	268	259	250	254	265	240	252
1997-1998	282	281	252	270	278	256	269
1998-1999	309	311	285	297	306	283	303
1999-2000	318	323	300	310	312	294	323
2000-2001	317	322	282	314	313	292	326
2001-2002	328	320	290	320	322	298	331
2002-2003	342	330	299	332	329	308	344
2003-2004	347	343	311	339	341	321	345
2004-2005	357	347	324	350	359	325	348
2005-2006	371	362	347	369	376	343	359
2006-2007	401	388	384	403	403	367	392
2007-2008	430	417	411	424	447	376	413
2008-2009	484	451	446	459	498	406	453
2009-2010	552	520	500	538	588	455	524
2010-2011	603	580	532	583	642	484	568
2011-2012	668	622	552	627	690	513	608
2012-2013	733	682	617	694	765	555	671
2013-2014	820	740	691	777	840	619	730
2014-2015	873	789	718	822	898	660	765
2015-2016	930	803	726	876	931	690	791
2016-2017	958	810	728	900	974	720	818
2017-2018	986	844	726	898	989	735	843
2018-2019	1027	866	750	929	1017	749	879
2019-2020	1130	937	828	1017	1090	785	938
2020-2021	1186	973	852	1045	1118	803	970
2021-2022	1244	1029	906	1106	1188	866	1042
2022-2023	1324	1065	988	1191	1276	911	1116
2022-23							
दिस/Dec	1322	1071	993	1184	1276	911	1122
जन/Jan	1328	1059	996	1186	1281	914	1125
फर/Feb	1332	1052	994	1194	1287	915	1127
मार्च/March	1338	1056	999	1202	1291	917	1130
अप्रैल/April	1341	1060	1005	1205	1294	918	1133
मई/May	1358	1055	1012	1210	1296	918	1132
जून/June	1378	1063	1019	1227	1299	914	1114
2023-24							
जुलाई/July	1399	1082	1027	1249	1321	932	1134
अगस्त/August	1412	1098	1033	1266	1325	942	1145
सित/Sept	1400	1101	1042	1270	1323	949	1151
अक्टू/Oct	1416	1115	1055	1289	1332	960	1183
नव/Nov	1440	1124	1063	1292	1338	958	1192
दिस/Dec	1457	1120	1065	1294	1337	961	1191

तालिका ब.1.2.2 (अ) समाप्त / Table B.1.2.2 (a) Concl'd.

कृषि वर्ष/महीना Agricultural Year/Month	कर्नाटक Karnataka	केरल Kerala	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	महाराष्ट्र Maharashtra	मणिपुर Manipur	मेघालय Meghalaya	ओड़िशा Odisha
Linking factor	5.81	6.56	6.04	5.85	*	*	6.05
1	9	10	11	12	13	14	15
1995-1996 @	251	259	237	248	244	252	236
1996-1997	266	281	261	256	252	264	254
1997-1998	276	292	273	266	268	282	262
1998-1999	306	305	300	291	292	321	289
1999-2000	316	312	313	304	312	338	316
2000-2001	302	321	310	303	316	346	304
2001-2002	309	321	310	306	304	351	300
2002-2003	325	330	318	321	300	343	298
2003-2004	341	342	318	335	308	350	314
2004-2005	340	351	330	350	310	360	320
2005-2006	341	356	352	368	328	382	334
2006-2007	367	374	388	402	337	410	365
2007-2008	406	403	412	432	367	439	400
2008-2009	458	454	459	475	407	484	438
2009-2010	535	496	525	562	455	540	495
2010-2011	595	562	569	619	527	576	538
2011-2012	665	601	615	691	594	633	562
2012-2013	750	665	679	760	639	706	631
2013-2014	826	772	723	804	718	756	714
2014-2015	877	840	737	861	787	794	764
2015-2016	949	877	771	912	811	831	741
2016-2017	1019	931	794	952	836	855	744
2017-2018	1054	980	796	957	863	885	770
2018-2019	1032	1002	814	990	910	912	806
2019-2020	1109	1045	857	1124	974	988	865
2020-2021	1149	1053	871	1161	1002	1044	887
2021-2022	1252	1115	943	1217	1031	1115	942
2022-2023	1298	1197	1017	1298	1053	1158	999
2022-23							
दिस/Dec	1295	1199	1014	1297	1047	1158	1004
जन/Jan	1301	1204	1018	1302	1040	1157	1002
फर/Feb	1305	1206	1023	1304	1037	1152	1001
मार्च/March	1308	1207	1028	1306	1042	1159	999
अप्रैल/April	1315	1212	1031	1313	1051	1166	1004
मई/May	1325	1211	1040	1322	1063	1163	1000
जून/June	1342	1211	1054	1328	1082	1171	1007
2023-24							
जुलाई/July	1362	1237	1081	1343	1096	1186	1027
अगस्त/August	1379	1245	1093	1352	1105	1205	1040
सित/Sept	1385	1236	1100	1359	1110	1215	1047
अक्तू/Oct	1403	1237	1112	1375	1112	1234	1063
नव/Nov	1423	1239	1118	1402	1125	1236	1067
दिस/Dec	1432	1244	1115	1413	1130	1237	1076

टिप्पण Note:- कृषि वर्ष/Agricultural Year (जुलाई से जून/July to June)

@ = औसत केवल 8 महीनों अर्थात नव., 95 से जून, 96 तक पर आधारित/Average based on 8 months i.e. Nov., 95 to June, 96 only

कृषि वर्ष/महीना Agricultural Year/Month	पंजाब Punjab	राजस्थान Rajasthan	तमिल नाडु Tamil Nadu	त्रिपुरा Tripura	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	पश्चिम बंगाल West Bengal
Linking factor	c	6.15	5.67	*	6.60	5.73
1	16	17	18	19	20	21
1995-1996 @	244	238	246	220	232	230
1996-1997	263	261	261	240	264	247
1997-1998	278	268	264	263	268	259
1998-1999	306	290	291	312	298	308
1999-2000	314	310	302	331	307	303
2000-2001	316	311	299	324	301	292
2001-2002	326	309	311	322	312	303
2002-2003	331	325	344	325	323	305
2003-2004	343	323	349	326	331	321
2004-2005	355	346	347	337	343	333
2005-2006	380	377	355	351	371	342
2006-2007	417	413	371	383	408	365
2007-2008	448	439	403	407	433	395
2008-2009	501	490	455	433	469	432
2009-2010	586	573	514	466	535	504
2010-2011	624	608	565	514	566	561
2011-2012	685	668	605	548	595	592
2012-2013	756	749	686	587	672	655
2013-2014	822	822	767	668	734	730
2014-2015	865	870	829	730	766	755
2015-2016	894	915	901	764	817	760
2016-2017	942	960	955	768	808	778
2017-2018	964	950	1020	763	796	821
2018-2019	990	997	1056	817	839	827
2019-2020	1055	1083	1163	869	906	864
2020-2021	1081	1094	1215	889	926	889
2021-2022	1153	1151	1273	907	971	958
2022-2023	1234	1260	1348	966	1042	1023
2022-23						
दिस/Dec	1235	1263	1350	966	1054	1025
जन/Jan	1239	1269	1356	968	1053	1015
फर/Feb	1244	1273	1359	965	1050	1013
मार्च/March	1249	1278	1360	970	1046	1022
अप्रैल/April	1254	1281	1367	975	1048	1034
मई/May	1253	1280	1371	982	1045	1043
जून/June	1257	1284	1391	993	1050	1045
2023-24						
जुलाई/July	1276	1294	1420	994	1062	1064
अगस्त/August	1288	1297	1423	996	1066	1068
सित/Sept	1293	1297	1413	1001	1078	1077
अक्तू/Oct	1308	1306	1427	1021	1083	1103
नव/Nov	1321	1317	1453	1029	1093	1089
दिस/Dec	1314	1319	1463	1033	1088	1083

* = राज्यों के सूचकांकों को पहली बार नवंबर, 1995 से संकलित एवं प्रकाशित किया गया / Indices for the State compiled and published for the first time w.e.f. November, 1995.

b & c = आधार 1986-87=100 पर असम तथा पंजाब के लिए सम्पर्क कारकों को प्राप्त करने हेतु कृपया इंडियन लेबर जर्नल का फरवरी, 1996 अंक में प्रकाशित लेख देखें / To obtain linking factors for Assam and Punjab on Base 1986-87=100, please refer the article published in February, 1996 issue of the Indian Labour Journal.

तालिका ब.1.2.2 (ब) - ग्रामीण श्रमिकों के लिए राज्य-वार श्रम ब्यूरो की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
Table B.1.2.2 (b) - State-wise Labour Bureau's Series of Consumer Price Index Numbers

कृषि वर्ष/महीना Agricultural Year/Month	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	असम Assam	बिहार Bihar	गुजरात Gujarat	हरियाणा Haryana	हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh	जम्मू एवं कश्मीर Jammu & Kashmir
1	2	3	4	5	6	7	8
1995-1996 @	244	243	223	241	237	221	225
1996-1997	269	258	250	254	266	240	250
1997-1998	282	278	254	270	279	258	266
1998-1999	309	310	287	298	306	284	297
1999-2000	318	321	302	311	312	295	316
2000-2001	318	321	284	315	314	294	319
2001-2002	328	320	292	322	323	304	324
2002-2003	343	330	301	333	330	314	337
2003-2004	348	344	313	341	342	326	340
2004-2005	357	348	326	351	361	331	344
2005-2006	371	364	348	371	378	350	359
2006-2007	401	390	384	403	404	377	393
2007-2008	429	419	412	425	445	388	413
2008-2009	482	454	447	460	495	420	451
2009-2010	550	524	500	538	583	474	521
2010-2011	599	583	532	583	638	503	564
2011-2012	665	625	555	626	685	535	602
2012-2013	732	686	620	692	759	582	668
2013-2014	817	746	695	775	834	653	726
2014-2015	870	796	724	821	893	696	760
2015-2016	927	813	732	877	930	728	788
2016-2017	954	821	731	900	970	765	819
2017-2018	982	853	731	899	984	779	844
2018-2019	1022	876	757	929	1012	794	880
2019-2020	1125	946	834	1015	1082	832	945
2020-2021	1159	984	858	1043	1110	851	977
2021-2022	1242	1045	914	1107	1186	917	1051
2022-2023	1323	1084	997	1194	1275	961	1132
2022-23							
दिस/Dec	1322	1089	1002	1187	1275	961	1139
जन/Jan	1328	1077	1005	1190	1279	960	1140
फर/Feb	1331	1070	1002	1198	1285	961	1142
मार्च/March	1338	1073	1007	1205	1290	968	1146
अप्रैल/April	1341	1078	1014	1208	1293	969	1147
मई/May	1358	1077	1023	1213	1295	968	1146
जून/June	1378	1084	1028	1230	1299	973	1130
2023-24							
जुलाई/July	1400	1103	1038	1251	1320	993	1150
अगस्त/August	1412	1118	1043	1269	1324	1003	1161
सित/Sept	1400	1123	1052	1272	1321	1000	1168
अक्तू/Oct	1415	1136	1065	1290	1330	1011	1197
नव/Nov	1439	1144	1074	1291	1336	1015	1207
दिस/Dec	1454	1139	1075	1292	1334	1018	1206

श्रृंखला (सामान्य सूचकांक आधार: 1986-87 = 100)

for Rural Labourers (General Index on Base: 1986-87=100)

कृषि वर्ष/महीना Agricultural Year/Month	कर्नाटक Karnataka	केरल Kerala	मध्य प्रदेश Madhya Pradesh	महाराष्ट्र Maharashtra	मणिपुर Manipur	मेघालय Meghalaya	ओडिशा Odisha
1	9	10	11	12	13	14	15
1995-1996 @	250	260	239	247	245	250	236
1996-1997	266	284	262	256	253	263	254
1997-1998	276	294	274	266	268	281	262
1998-1999	306	306	300	291	293	319	289
1999-2000	316	314	314	303	312	336	315
2000-2001	304	324	313	303	317	343	304
2001-2002	311	324	314	307	304	348	300
2002-2003	326	332	323	321	301	340	299
2003-2004	341	343	324	336	309	349	314
2004-2005	340	352	336	350	311	358	320
2005-2006	341	359	358	368	328	379	335
2006-2007	367	378	392	400	338	408	366
2007-2008	407	404	415	428	368	436	400
2008-2009	459	456	463	470	407	481	439
2009-2010	534	502	532	557	456	535	496
2010-2011	594	566	576	613	529	572	538
2011-2012	665	604	622	683	596	629	563
2012-2013	747	668	688	754	641	701	631
2013-2014	820	770	739	800	720	751	714
2014-2015	871	848	759	857	790	792	764
2015-2016	946	896	794	906	814	832	742
2016-2017	1013	939	817	946	839	856	746
2017-2018	1041	988	821	952	866	887	772
2018-2019	1021	1008	838	985	914	913	808
2019-2020	1096	1052	879	1113	979	986	867
2020-2021	1137	1063	892	1146	1008	1041	889
2021-2022	1249	1128	980	1211	1038	1111	945
2022-2023	1297	1200	1063	1299	1061	1149	1002
2022-23							
दिस/Dec	1294	1199	1061	1298	1055	1149	1007
जन/Jan	1299	1204	1066	1302	1048	1148	1006
फर/Feb	1303	1207	1070	1303	1045	1143	1005
मार्च/March	1308	1210	1074	1307	1050	1150	1003
अप्रैल/April	1315	1215	1077	1314	1059	1157	1008
मई/May	1323	1215	1084	1322	1070	1154	1003
जून/June	1338	1216	1100	1330	1089	1162	1011
2023-24							
जुलाई/July	1358	1244	1126	1346	1104	1176	1030
अगस्त/August	1370	1253	1138	1354	1113	1194	1044
सित/Sept	1379	1243	1145	1361	1118	1203	1050
अक्टू/Oct	1397	1244	1161	1376	1120	1221	1067
नव/Nov	1417	1247	1168	1399	1134	1224	1070
दिस/Dec	1429	1252	1165	1408	1139	1225	1078

तालिका ब.1.2.2 (ब) समाप्त / Table B.1.2.2 (b) Concl'd.

कृषि वर्ष/महीना Agricultural Year/Month	पंजाब Punjab	राजस्थान Rajasthan	तमिल नाडु Tamil Nadu	त्रिपुरा Tripura	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	पश्चिम बंगाल West Bengal
1	16	17	18	19	20	21
1995-1996 @	247	239	244	219	231	232
1996-1997	265	262	260	237	262	248
1997-1998	281	270	265	261	267	260
1998-1999	309	292	290	308	297	309
1999-2000	317	310	301	328	307	304
2000-2001	320	312	299	318	303	293
2001-2002	330	311	311	316	316	305
2002-2003	336	326	343	318	326	308
2003-2004	347	323	348	318	335	324
2004-2005	359	345	348	329	346	336
2005-2006	384	375	355	344	372	346
2006-2007	419	412	370	373	409	368
2007-2008	449	438	402	399	434	398
2008-2009	501	486	452	429	469	435
2009-2010	585	567	509	462	532	506
2010-2011	622	600	559	512	563	564
2011-2012	681	661	603	547	597	597
2012-2013	749	740	683	586	672	662
2013-2014	813	809	761	662	732	739
2014-2015	860	854	824	723	764	765
2015-2016	894	898	893	760	812	774
2016-2017	940	948	947	766	807	791
2017-2018	967	937	1011	773	801	834
2018-2019	1001	980	1049	833	847	841
2019-2020	1063	1061	1150	889	914	879
2020-2021	1090	1074	1200	910	935	905
2021-2022	1170	1137	1260	933	983	975
2022-2023	1250	1238	1336	993	1051	1042
2022-23						
दिस/Dec	1250	1241	1338	998	1063	1043
जन/Jan	1255	1247	1345	999	1060	1034
फर/Feb	1261	1252	1349	994	1056	1032
मार्च/March	1265	1259	1350	997	1053	1041
अप्रैल/April	1270	1260	1356	999	1055	1053
मई/May	1269	1261	1360	1006	1052	1063
जून/June	1273	1259	1379	1018	1058	1066
2023-24						
जुलाई/July	1289	1269	1407	1027	1070	1085
अगस्त/August	1300	1273	1410	1030	1072	1089
सित/Sept	1306	1273	1400	1034	1084	1098
अक्तू/Oct	1319	1282	1415	1054	1089	1123
नव/Nov	1331	1295	1439	1068	1099	1109
दिस/Dec	1334	1298	1448	1077	1097	1105

टिप्पण Note:- कृषि वर्ष/Agricultural Year (जुलाई से जून/July to June)

@ = औसत केवल 8 महीनों अर्थात नव., 95 से जून, 96 तक पर आधारित/Average based on 8 months i.e. Nov., 95 to June, 96 only

1.3. ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक Consumer Price Index for Rural, Urban and Combined

तालिका ब.1.3 - ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

Table B.1.3 - All India Consumer Price Index Numbers for Rural, Urban and Combined

वर्ष/महीना Year/Month	ग्रामीण/Rural	शहरी/Urban	संयुक्त /Combined	
I. Base: 2010=100				
2011	110.8	108.1	-	
2012	121.4	118.8	-	
2013	133.6	130.8	110.0	
2014	143.5	139.7	117.4	
II. Base: 2012=100				
2015	124.3	121.7	123.1	
2016	131.3	126.8	129.2	
2017	135.6	131.0	133.5	
2018	140.7	136.5	138.8	
2019	144.9	142.8	143.9	
2020	154.5	152.3	153.5	
2021	161.9	160.7	161.4	
2022	173.1	171.0	172.2	
2022	दिस/Dec	177.1	174.1	175.7
2023	जन/Jan	177.8	174.9	176.5
	फर/Feb	177.9	175.6	176.8
	मार्च/Mar	178.0	176.3	177.2
	अप्रैल/Apr	178.8	177.4	178.1
	मई/May	179.8	178.2	179.1
	जून/Jun	181.9	179.9	181.0
	जुला/Jul	187.6	184.7	186.3
	अग/Aug	187.6	184.5	186.2
	सित/Sep	185.8	182.2	184.1
	अक्तू/Oct	187.0	183.4	185.3
	नव/Nov	188.2	184.2	186.3
	दिस/Dec	187.6	183.6	185.7

Source: National Statistical Office, New Delhi.

1.4 थोक मूल्य सूचकांक Wholesale Price Index

तालिका ब.1.4 – भारत में थोक मूल्यों की सूचकांक

Table B.1.4 – Index Numbers of Wholesale Prices in India

वर्ष/माह Year/Month	सभी वस्तुओं All Commodities	I. प्राथमिक वस्तुएँ /Primary Articles				II. ईंधन एवं बिजली Fuel & Power	
		सभी All	खाद्य पदार्थ Food Articles	गैर-खाद्य वस्तुएँ Non-Food Articles	खनिज पदार्थ Minerals		
1	2	3	4	5	6	7	
I Base: 2004-05 = 100							
2010	140.1	175.9	174.6	155.9	244.0	144.2	
2011	153.4	197.1	190.4	183.1	299.2	163.3	
2012	164.9	215.0	206.5	196.8	345.0	182.5	
2013	175.4	237.8	234.1	210.7	347.9	200.5	
2014	181.9	249.2	249.1	215.1	344.8	210.1	
2015	177.1	248.4	258.9	214.3	245.4	183.0	
2016	180.6	259.0	274.0	227.4	205.7	181.8	
II Base: 2011-12=100							
2017	114.1	130.2	142.8	120.1	119.2	92.2	
2018	118.9	132.9	142.3	122.4	133.2	103.4	
2019	121.2	141.2	152.9	127.2	150.3	101.7	
2020	121.8	144.7	160.4	128.3	158.5	93.3	
2021	135.0	155.1	163.8	150.1	186.1	116.1	
2022	151.3	175.4	177.8	172.1	206.6	155.2	
2022	दिस/Dec	150.5	172.9	174.9	171.2	203.9	158.0
2023	जन/Jan	150.7	174.3	176.6	173.7	202.3	155.6
	फर/Feb	150.9	173.6	176.9	170.2	217.5	157.6
	मार्च/Mar	151.0	175.2	178.8	167.1	222.4	156.4
	अप्रैल/Apr	151.1	177.8	182.1	165.6	224.6	152.7
	मई/May	149.4	175.1	181.3	162.8	214.8	148.6
	जून/Jun	148.9	176.1	184.9	158.9	207.4	146.2
	जुला/Jul	152.1	191.7	205.9	161.9	215.4	145.4
	अग/Aug	152.5	190.3	202.8	163.2	205.5	149.1
	सित/Sep	151.8	183.6	189.1	164.6	220.9	153.1
	अक्त/Oct	152.5	185.3	192.00	164.1	219.7	155.5
	नव/Nov	153.1	187.6	197.0	163.8	215.8	156.2
	दिस/Dec	151.8	182.8	191.2	162.3	217.7	155.8

वर्ष/माह Year/Month	III. विनिर्मित उत्पाद/ Manufactured Products							
	सभी/All	खाद्य उत्पाद Food Products	पेय पदार्थ Beverages	तंबाकू उत्पाद Tobacco Products	कपड़ा Textiles	लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद Wood & Wood Products	कागज एवं कागज उत्पाद Paper & Paper Products	चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद Leather & Related Products
1	8	9	10	11	12	13	14	15
I Base: 2004-05 =100								
2010	128.1	140.9	143.1	-	115.3	147.5	123.1	127.6
2011	137.5	149.1	159.4	-	128.8	157.7	130.8	128.3
2012	145.4	160.3	172.4	-	130	168.6	134.8	133.4
2013	150.2	168.2	182.2	-	136.7	176.4	141.2	140.4
2014	154.7	172.0	197.3	-	142.8	185.6	149.0	145.7
2015	153.6	172.4	204.7	-	140.2	194.0	153.5	144.0
2016	156.0	187.4	217.9	-	141.1	197.5	156.2	146.1
II Base: 2011-12=100								
2017	112.9	127.6	118.2	146.1	113.0	131.2	117.5	120.1
2018	117.2	128.3	120.2	150.1	116.7	132.6	122.3	121.8
2019	118.1	131.7	123.0	153.1	118.3	119.3	134.3	122.1
2020	119.6	138.9	124.4	156.2	115.5	133.6	120.1	117.9
2021	131.7	154.5	126.1	159.5	130.9	139.4	133.1	118.4
2022	142.1	165.1	128.2	163.7	144.0	143.2	151.2	122.0
2022 दिस/Dec	141.1	163.6	129.1	166.1	137.6	143.1	148.4	121.5
2023 जन/Jan	141.4	163.1	129.8	165.9	137.1	143.1	148.3	121.2
फर/Feb	141.6	161.9	130.3	166.5	137.2	142.6	148.0	122.2
मार्च/Mar	141.3	160.8	130.3	169.2	136.8	143.0	147.0	122.3
अप्रैल/Apr	141.4	160.5	130.9	169.8	137.2	143.9	147.2	123.4
मई/May	140.6	158.9	130.6	171.4	135.9	145.0	146.0	123.5
जून/Jun	139.9	158.8	130.7	173.7	134.8	145.2	143.6	124.7
जुला/Jul	139.5	159.9	130.8	173.2	133.9	144.4	139.5	125.7
अग/Aug	139.9	160.8	131.4	172.6	134.1	144.9	139.0	125.5
सित/Sep	140.4	160.4	131.3	173.8	134.3	146.5	138.4	123.9
अक्तू/Oct	140.4	160.8	131.7	174.1	134.7	147.1	138.5	124.0
नव/Nov	140.2	162.0	131.7	175.0	134.2	147.7	138.4	124.0
दिस/Dec	140.0	161.1	132.0	172.7	133.7	147.6	138.4	124.1

तालिका ब.1.4 समाप्त /Table B.1.4 Concltd.

वर्ष/माह Year/Month	III. विनिर्मित उत्पाद/ Manufactured Products					
	रबड़ एवं प्लास्टिक उत्पाद Rubber & Plastic Products	रसायन एवं रसायन उत्पाद Chemicals & Chemical Products	गैर-धातु खनिज उत्पाद Non-metallic Mineral Products	मूल धातु Basic Metals	मशीनरी एवं उपकरण Machinery & Equipment	अन्य परिवहन उपकरण Other Transport Equipment
1	16	17	18	19	20	21
I Base: 2004-05 =100						
2010	123.2	122.1	143.6	137.3	120.3	119.4
2011	132.9	132.1	150.3	152.3	124.2	123.6
2012	136.3	141.8	161	165.3	127.6	128.3
2013	143.6	147.4	165.9	150.3	130.8	133.5
2014	150.1	152.7	169.2	166.4	133.8	135.9
2015	148.1	150.9	176.4	158.0	135.0	137.5
2016	146.9	150.4	178.9	153.8	135.3	139.5
II Base: 2011-12=100						
2017	107.9	111.6	111.4	97.9	108.5	109.7
2018	108.9	117.9	115.2	111.6	110.8	111.4
2019	118.5	109.0	116.9	107.3	112.8	116.3
2020	108.9	116.4	117.0	107.4	113.4	124.0
2021	122.1	129.4	121.6	133.4	118.4	130.4
2022	129.6	144.7	131.6	149.5	124.9	135.9
2022 दिस/Dec	128.1	144.0	134.8	143.2	126.3	138.2
2023 जन/Jan	128.6	143.3	135.3	145.5	127.0	138.8
फर/Feb	128.7	142.8	135.3	146.9	127.7	139.6
मार्च/Mar	128.3	142.2	134.6	146.2	128.0	141.6
अप्रैल/Apr	128.4	141.1	135.2	145.3	128.4	141.9
मई/May	127.6	139.6	134.7	143.6	128.5	142.0
जून/Jun	127.1	137.9	134.7	141.6	128.0	142.1
जुला/Jul	127.0	136.6	134.6	139.9	128.6	142.4
अग/Aug	127.1	136.3	135.0	140.6	128.5	142.8
सित/Sep	128.0	136.3	135.0	143.0	129.2	144.6
अक्त/Oct	127.2	136.6	135.6	142.2	129.4	143.7
नव/Nov	126.8	136.0	134.6	140.2	129.2	143.8
दिस/Dec	127.5	135.7	135.4	139.6	129.4	143.7

टिप्पण / Note : आधार 2011-12=100 तथा आधार 2004-05=100 के मध्य संपर्क कारक सभी वस्तुओं के लिए = 1.561, प्राथमिक वस्तुओं के लिए = 2.003, ईंधन एवं बिजली के लिए = 1.690, विनिर्मित उत्पादों के लिए = 1.395 है / Linking factor for deriving the indices on base 2004-05=100 from base 2011-12=100 are for All commodities=1.561, Primary articles=2.003, Fuel & Power=1.690, Manufactured products =1.395

स्रोत/Source : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली/Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce, New Delhi.

2. मजदूरी एवं उपार्जन WAGES AND EARNINGS

तालिका ब.2.1 - दिसम्बर, 2023 महीने के लिए सूती वस्त्र मिलों में निम्नतम भुगतान किए गए कर्मचारों/कार्यकर्ताओं का उपार्जन (मूल वेतन, महंगाई भत्ता)

Table B.2.1 – Earnings (Basic Wage, Dearness Allowances) of the Lowest Paid Workers/Operatives in Cotton Textile Mills for the month of December, 2023

वर्ष/महीना Year/ Month	अहमदाबाद Ahmedabad	बेंगलुरु Bengaluru	वडोदरा Vadodara	मुंबई Mumbai	कोयम्बटूर एवं चेन्नई Coimbatore & Chennai
1	2	3	4	5	6
1996	1996.05	2591.10	1963.43	2389.95	2953.13
1997	2155.88	2840.36	2122.65	2622.11	3178.79
1998	2348.78	3073.17	2314.56	2958.08	3523.80
1999	2543.10	3199.73	2507.78	3084.01	3732.75
2000	2646.28	3353.44	2610.72	3294.36	3954.97
2001	2751.31	3451.66	2715.14	3455.99	4062.23
2002	2849.90	3567.03	2799.20	3642.14	4287.30
2003	2930.80	3749.72	2891.41	3811.69	4438.76
2004	3019.05	3944.89	2981.75	3941.44	4583.10
2005	3100.05	4191.63	3062.36	3996.49	4726.11
2006	3273.76	4447.32	3235.24	4227.16	4859.40
2007	3539.73	4821.78	3490.90	4472.78	5137.83
2008	3767.74	5275.10	3726.69	4799.79	5559.81
2009	4076.37	5903.63	4034.08	5267.03	6164.64
2010	4623.52	6431.40	4579.07	5782.10	6648.95
2011	5054.33	6880.72	5007.73	6369.27	7065.77
2012	5554.74	7469.64	5505.81	7023.55	8065.37
2013	6255.70	8421.27	6203.55	7863.58	9002.26
2014	6469.62	8989.26	6416.69	8498.45	9498.48
2015	6794.28	9549.32	6739.77	9213.70	10321.01
2016	7109.85	9920.22	7053.86	9563.04	10584.85
2017	7251.92	10232.85	7195.21	9654.53	10862.51
2018	7429.71	10316.06	7372.45	9795.92	11199.18
2019	7824.28	10669.77	7765.07	10408.61	11792.67
2020	8283.66	11074.89	8222.26	10901.07	12288.88
2021	8697.01	11536.48	8633.74	11316.58	12734.84
2022	9177.11	12050.36	9111.49	11907.94	13237.15
2022 दिस/Dec	9440.94	12267.10	9373.64	12065.25	13559.00
2023 जन/Jan	9410.32	12316.08	9344.24	12113.66	13715.10
फर/Feb	9395.62	12335.61	9329.54	12123.34	13652.80
मार्च/Mar	9388.28	12345.53	9322.19	12181.43	13580.00
अप्रैल/Apr	9632.00	12541.14	9564.73	12239.51	13694.45
मई/May	9661.39	12580.20	9594.13	12249.20	13840.05
जून/June	9646.70	12757.83	9579.43	12355.69	14319.20
जुला/July	10038.61	13140.99	9968.98	12752.61	14548.10
अग/Aug	10260.29	13071.24	10189.48	12655.80	14454.30
सित/Sep	10053.31	12934.22	9983.68	12442.82	14287.70
अक्टू/Oct	9987.17	13022.26	9917.53	12539.63	14152.60
नव/Nov	10068.01	13170.44	9998.38	12549.31	14152.60
दिस/Dec	9994.52	13131.07	9924.88	12510.59	14235.90

N.B.- वार्षिक आंकड़े 12 कैलेंडर महीनों का औसत दर्शाते हैं तथा मासिक आंकड़े 26 दिनों के मानक महीने से संबंधित हैं / Yearly figures indicate average of twelve calendar months and the monthly figures relate to a standard month of 26 days.

तालिका ब.2.1 समाप्त /Table B.2.1 Concl'd.

वर्ष/महीना Year/ Month	दिल्ली Delhi	इंदौर Indore	कानपुर Kanpur	नागपुर Nagpur	सोलापुर Solapur	कोलकाता Kolkata
1	7	8	9	10	11	12
1996	1831.84	1970.78	2078.29	1638.04	1889.84	2099.53
1997	2013.39	2061.69	2243.55	1794.01	1981.08	2229.42
1998	2307.43	2256.09	2553.60	1988.73	2249.74	2452.04
1999	2524.99	2466.82	2743.61	2140.61	2399.14	2728.51
2000	2693.26	2540.94	2750.02	2195.02	2474.53	2796.11
2001	2775.73	2675.21	2839.01	2322.34	2489.57	2964.03
2002	2881.49	2792.85	2931.94	2383.55	2572.85	3292.82
2003	2981.47	2912.04	2995.84	2422.82	2636.12	3347.73
2004	3113.99	2986.63	3112.39	2496.74	2789.17	3478.77
2005	3350.68	3057.48	3279.56	2637.64	2841.65	3599.75
2006	3544.08	3255.16	3592.54	2338.85	2239.55	3797.02
2007	*	3474.05	3833.84	3097.41	*	4097.84
2008	*	3676.41	4062.10	3318.05	*	4420.66
2009	*	3939.07	4487.57	3726.56	*	4775.49
2010	*	4418.29	5238.85	4391.43	*	5362.25
2011	*	4748.82	5731.94	4800.80	*	5755.50
2012	*	5189.95	6104.54	5212.98	*	6134.40
2013	*	5769.71	6741.06	5751.93	*	6783.80
2014	*	6129.88	7303.78	6069.26	*	7478.77
2015	*	6405.52	7695.51	6433.11	*	7854.73
2016	*	6682.63	8210.65	6763.17	*	8239.46
2017	*	6792.15	8270.39	6865.28	*	8370.92
2018	*	7097.20	8960.80	7440.61	*	8720.59
2019	*	7552.92	9908.39	8579.56	*	9128.10
2020	*	8016.88	10542.55	9047.09	*	9565.03
2021	*	8349.80	11196.40	9542.17	*	9811.35
2022	*	8754.86	11875.79	10137.17	*	10509.86
2022 दिस/Dec	*	9009.48	12277.41	10282.53	*	10897.27
2023 जन/Jan	*	9009.48	12205.86	10345.29	*	10892.09
फर/Feb	*	9009.48	12250.41	10432.41	*	10892.09
मार्च/Mar	*	9035.68	12285.51	10524.22	*	10892.09
अप्रैल/Apr	*	9035.68	12331.41	10547.64	*	10749.81
मई/May	*	9035.68	12393.51	10563.56	*	10749.81
जून/June	*	9169.05	12447.51	10634.75	*	10749.81
जुला/July	*	9169.05	12573.06	10705.01	*	10754.98
अग/Aug	*	9169.05	12833.61	10875.50	*	10754.98
सित/Sep	*	9421.49	12878.16	10962.62	*	10754.98
अक्तू/Oct	*	9421.49	12663.51	10991.66	*	11003.34
नव/Nov	*	9421.49	12708.06	10927.96	*	11003.34
दिस/Dec	*	9492.94	12789.06	10927.96	*	11003.34

New series on Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2016=100 has been introduced w.e.f. the index of September 2020.

Centre linking factor on base 2016=100 is: Ahmedabad (2.73), Bangalore (2.75), Vadodara (2.66), Mumbai (2.91), Coimbatore / Chennai (2.50), Delhi (2.82), Indore (2.70), Kanpur (3.15), Nagpur (3.60), Sholapur (3.10) and Kolkata (2.46)

* Earning of Delhi and Sholapur Centres have been discontinued due to closure of Textile Mills.

Source: Monthly returns received from the selected centres.

3. औद्योगिक विवाद/INDUSTRIAL DISPUTES

तालिका ब.3.1 औद्योगिक विवाद (सभी हड़ताल एवं तालाबंदी) 2013 से 2023 की अवधि के दौरान
Table B.3.1- Industrial Disputes (All Strikes and Lockouts) for the period 2013 to 2023

वर्ष/Year	संख्या/Number of		
	विवाद Disputes	विवाद में शामिल श्रमिक Workers Involved	कार्यदिवस हानि (हजारों में) Mandays Lost ('000)
1	2	3	4
2013	258	1838160	12645
2014	287	1158770	11095
2015	150	757850	4912
2016	97	961177	5046
2017	112	762832	5233
2018	86	742968	3150
2019(P)	79	625344	3328
2020(P)	56	710128	2482
2021(P)	56	461706	2432
2022(P)	39	282254	1018
2023(P)(Jan. to Dec.)	44	35162	533

(P) = अनंतिम एवं 31 जनवरी, 2024 तक ब्यूरो में प्राप्त विवरणी/स्पष्टीकरण के आधार पर / Provisional and based on the returns/clarifications received in the Bureau till 31st January, 2024.

.. = उपलब्ध नहीं है / Not available

If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.

- Nelson Mandela

Ignorance of all things is an evil neither terrible nor excessive, nor yet the greatest of all; but great cleverness and much learning, if they be accompanied by a bad training, are a much greater misfortune.

- Plato

Latest publications of the Labour Bureau

1. ANNUAL SURVEY OF INDUSTRIES – Abstract on Employment, Labour Cost, Absenteeism and Labour Turnover

The publication presents statistics on Absenteeism, Labour Turnover, Employment and Labour Cost for the year 2020-21 and is based on Block-A, B and E of Part-I and Part-II of the ASI Schedule.

2. ANNUAL SURVEY OF INDUSTRIES – Abstract on Employment, Labour Cost, Absenteeism and Labour Turnover

The publication presents statistics on Absenteeism, Labour Turnover, Employment and Labour Cost for the year 2021-22 and is based on Block-A, B and E of Part-I and Part-II of the ASI Schedule.

**3. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Four Mining Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Four Mining Industries (Coal Mines, Iron Ore Mines, Manganese Mines and Oil Mines) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-677
120-2018 (DSK-II)

Price : Rs. 483.00

**4. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Nine Engineering Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Nine Engineering Industries (Iron & Steel, Casting & Forgings, Agricultural Implements, Textile Machinery, Machine Tools, Electrical Industrial Machinery, Electrical Apparatus, Boilers and Aluminium) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-683
120-2018 (DSK-II)

Price : Rs. 744.00

All the priced publications brought out by the Labour Bureau can be obtained from the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi - 110054 by remitting the price in advance. Kindly quote the Symbol number of the publication to facilitate its delivery.

**5. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Nine Manufacturing Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Nine Manufacturing Industries (Sugar, Oils & Fats, Edible Nuts, Tobacco, Paper, Printing/Publishing, Milk Products, Soft Drinks and Plastic Articles Industries) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-684 Price : Rs. 712.00
120-2018 (DSK-II)

**6. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Ten Engineering Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Ten Engineering Industries (Ship Building, Locomotives, Motor Vehicles, Motor Cycles, Bicycles/Rickshaws, Aircrafts, Domestic Appliances, Televisions, Computers and Watches) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-685 Price : Rs. 605.00
120-2018 (DSK-II)

**7. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Ten Manufacturing Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Ten Manufacturing Industries (Footwear, Petroleum Refineries, Chemicals & Gases, Fertilizers, Drugs & Medicines, Soaps & Detergents, Match, Glass & Glass Products, Cement and Tyres & Tubes Industry) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-686 Price : Rs. 713.00
120-2018 (DSK-II)

**8. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Three Plantation Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Three Plantation Industries (Coffee Plantations, Rubber Plantations and Tea Plantations) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-678 Price : Rs. 359.00
120-2018 (DSK-II)

**9. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Tea Processing Industry)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Tea Processing Industry presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-680 Price : Rs. 301.00
120-2018 (DSK-II)

**10. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Textile Garments Industry)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Textile Garments Industry presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-682 Price : Rs. 405.00
120-2018 (DSK-II)

**11. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Five Textile Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Five Textile Industries (Cotton Textiles, Woollen Textiles, Silk Textiles, Synthetic Textiles and Jute Textiles) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-681 Price : Rs. 555.00
120-2018 (DSK-II)

**12. OCCUPATIONAL WAGE SURVEY SEVENTH ROUND 2017
(Report on Four Service Industries)**

The Seventh Round OWS, 2017 report on Four Service Industries (Electricity Generation & Distribution, Railways, Public Motor Transport and Ports & Docks Industries) presents statistics on Employment Structure, Wage Rates, Dearness Allowances and Average Daily Earnings by Occupation and Industry/Stratum.

Symbol: PDLB-679 Price : Rs. 393.00
120-2018 (DSK-II)

**13. RURAL LABOUR ENQUIRY REPORT ON WAGES & EARNINGS OF
RURAL LABOUR HOUSEHOLDS – 2009-2010**

The report contains data on Wages & Earnings of Rural labour Households collected by the National Sample Survey Organisation during its 66th round (2009-2010) of survey. It gives information on Wages & Earnings of Rural as well as Agricultural Labour Households by States and Categories of Households, in the country, for various agricultural occupations. The data is of immense use to the planners, researchers and policy framers.

Symbol: PDLB - 691 Price : Rs. 220.00
250-2017 (DSK-II)

**14. RURAL LABOUR ENQUIRY REPORT ON GENERAL CHARACTERISTICS OF
RURAL LABOUR HOUSEHOLDS – 2009-2010**

The report contains data on general characteristics of rural labour households, viz., demographic structure of labour households; size of households; land holding pattern of households; and number of agricultural and non-agricultural households, etc.

Symbol: PDLB – 672 Price : Rs. 90.00
250-2016 (DSK-II)

15. RURAL LABOUR ENQUIRY REPORT ON INDEBTEDNESS AMONG RURAL LABOUR HOUSEHOLDS – 2009-2010

The report analyses the magnitude and incidence of indebtedness among rural and agricultural labour households in the country on the basis of the results of data collected by National Sample Survey Organisation during its 66th round (2009-2010) of survey. The data is of immense use to the planners, researchers and policy framers.

Symbol: PDLB – 688 Price : Rs. 230.00
250-2017 (DSK-II)

16. RURAL LABOUR ENQUIRY REPORT ON CONSUMPTION EXPENDITURE OF RURAL LABOUR HOUSEHOLDS - 2009-2010

The report presents analysis of data on consumption expenditure of the rural labour households collected by the National Sample Survey Office during the 66th round (2009-10) of the survey. The data is of immense use to the planners, researchers and policy framers.

Symbol: PDLB – 673 Price : Rs. 170.00
250-2016 (DSK-II)

17. RURAL LABOUR ENQUIRY REPORT ON EMPLOYMENT & UNEMPLOYMENT OF RURAL LABOUR HOUSEHOLDS - 2009-2010

The report presents analysis of data on employment & unemployment of rural labour households on the basis of the results of data collected by National Sample Survey Organisation during its 66th round (2009-10) of survey. This report has been brought out in two volumes. Vol.-I presents the main findings whereas Vol.-II contains 'appendices' in which detailed data have been presented. The data is of immense use to the planners, researchers and policy framers.

Symbol: PDLB – 693 Price (per set) : Rs. 525.00
250-2018 (DSK-II)

18. CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR AGRICULTURAL AND RURAL LABOURERS (Base: 1986-87=100) ANNUAL REPORT 202-23

This publication contains detailed information on Consumer price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers (Base: 1986-87=100) for the period July, 2021 to June, 2022. These index numbers, and especially the CPI (AL), play an important role in fixing/revising the minimum wages of agricultural workers.

Symbol: PDL – 585
150-2024 (DSK-II)

19. CONSUMER PRICE INDEX NUMBERS FOR INDUSTRIAL WORKERS (2016=100) ANNUAL REPORT 2021

The report contains indices of all 88 centres and All-India at group/sub-group level for January to December, 2021. It also includes serial data for centres and All-India for 2001 series with their linking factors.

20. WAGE RATES IN RURAL INDIA 2022-23 (Agricultural Year)

The publication contains daily wage rate data in respect of agricultural and non-agricultural occupations for the period July, 2020 to June, 2021. The data on wage rates play an important role in the calculation of State/National Income, drawing up and implementation of wage policy as well as in fixation/revision of support prices of agricultural crops.

Symbol: PDLB – 710
150-2023 (DSK-II)

21. TRADE UNIONS IN INDIA 2021

Trade Unions in India is a biennial publication. It presents information in respect of Workers and Employers Unions, on Registered Trade Unions submitting returns by their sex-wise membership. Besides, it also presents data on income and expenditure of Workers as well as Employers Unions.

22. STATISTICAL PROFILE ON WOMEN LABOUR 2014-15

The publication provides comprehensive and recent most statistics on important aspects of Women Labour in India at one place and helps the researchers to study the gender variations in the population, employment, employment services and training, wages/earnings, participation in trade union movement, social security.

Symbol: PDLB -695
70-2019 (DSK-II)

Price : Rs. 215.00

23. REPORT ON MINIMUM WAGES ACT, 1948 FOR THE YEAR 2020

The report covers information on employment added, employments in which the Minimum Wages were fixed for the first time, the Minimum Wages in different scheduled employments prevalent during the year, the range of Minimum Wages, comparative Minimum Wage Rates prevailing in scheduled employments and number of Inspections etc.

24. INDIAN LABOUR YEAR BOOK 2022

The Indian Labour Year Book provides, in a compact volume, a general description of various topics, alongwith the latest available data in the field of labour such as Employment, Wages, Levels of Living and Consumer Price Index Numbers, Industrial Relation, Welfare, Housing, Health, Labour Legislation, Labour Administration etc., alongwith relevant supporting statistics and synopsis of Labour Bureau Publications.

Symbol: PDLB-19-2022
175-2023 (DSK-III)

25. INDIAN LABOUR STATISTICS 2021 (Bilingual)

A bilingual publication containing serial statistics relating to Labour and Labour related matters. It presents data on employment in Factories, Mines, Plantation, Railways, Employment Service and Training, Wages and Earnings, Price Indices, Trade Unions, Industrial Injuries, Absenteeism and Labour Turnover, Social Security, Industrial Disputes and International statistics pertaining to Labour.

Symbol: PDLB -3-2021 (Bilingual)
100-2023 (DSK-III)

26. POCKET BOOK OF LABOUR STATISTICS 2021 (Bilingual)

Pocket Book of Labour Statistics presents in a concise form the principal statistical series in respect of important aspects of labour. These statistics cover data on employment; population and labour force; wages and earnings; Prices; trade unions; industrial disputes; accidents, safety and absenteeism; social security etc. along with brief explanatory notes.

Symbol: PDLB-163.2021 (Bilingual)
100-2023 (DSK-III)

भारतीय बुक एक्सचेंज/INDIAN BOOK EXCHANGE
पंजीकरण क्रमांक/ Registration No. "G 3/DL(N)-04/0008/2003-05"

संपादक अनिल कुमार शर्मा, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़
प्रिंटिंग यूनिट, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ के द्वारा मुद्रित
प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित

Editor Anil Kumar Sharma, Labour Bureau, Chandigarh
Printed by the Printing Unit of Labour Bureau, Chandigarh
Published by Controller of Publications, Government of India,
Civil Lines, Delhi-110054